



श्रीस्वामीद्यादशासनीपरम्परा

विशेषमहली



उ० १ = अथ श्रीरतनसागरकी अनुक्रमणिका-

विषय-	पृ-	विषय-	पृ-	विषय-	पृ-
गणपतिका मंगलः	१	पारषका अंगः	७०	जूलने	१३३
संतौकामंगलः	१	सर्वरुचनाः	७१	अरीरुः	१३६
शरदेवका अंगः	२	मूलसंत्रः	७३	वैतपारसीकीः	१५६
सुमरनका अंगः	५	कर्मडंडमोक्षपुराणः	७३	पतिवर्तारसैणीः	१६२
विनतिका अंगः	१८	शक्तिमुद्राः	७६	संन्याआरतीः	१६४
रुसंगताका अंगः	२९	विज्ञानस्तोत्रः	७५	रागकित्याणः	१७०
संगतका अंगः	३१	स्यौस्तोत्रः	८५	रागवियोगः	१७५
वैरागका अंगः	३५	स्यौकीअर्तिः	८४	रागपञ्जः	१७६
रुका अंगः	३७	ब्रह्मवेदी	८६	संगलः	१७८
साचका अंगः	३९	ब्रह्मकलाः	९०	रागबंगले	१८०
विचारका अंगः	४२	भस्तरनिकंदरसैणी	९४	रागरामकलीः	१८८
जरनाका अंगः	४५	मूलज्ञानः	९५	रागआसावरी	१९३
हिचका अंगः	५१	अरजनामाः	१११	रागविहाबलः	२०६
साधमहमाका अंगः	५६	भक्तमारुअरजनामा	११५	रागकाफीः	२२६
सेजसमनका इतिहासः	६०	सर्वयोगैदउच्छारुके	१२६		
जैदेवका इतिहासः	६८	रेषतेः	१३१		
अथ अनुक्रमणिका दोसंस्कृत औ एकप्राकृत अष्टक					१

अथ श्रीविचारप्रकाशकी अनुक्रमणिका प्रा०

प्रथमप्रकाशः	१	तृतीयप्रकाशः	२४	पंचमप्रकाशः	६३
द्वितीयप्रकाशः	१०	चतुर्थप्रकाशः	३८	इ०अ० समाप्तम्	२

॥ अथ श्रीगुरुगरीबदासजीके स्तुतिबोधकतीनअष्टक ॥ प्रथमअष्टक
 अष्टक अष्टक एव श्रीगणेशायनमः श्रीगुरुभ्योनमः ॥ गगनापीप
 भीरुधरशकोबधसोचक सुषदोविष्करूपोऽभूद्ररीबदाससह
 कः ॥ १ ॥ गगनाभोगभीरुश्रुतभिद्रमकोचरणम् ॥ गोभिर्नोम
 स्वतेगन्योगरीबदाससहकः ॥ २ ॥ रक्षकोचरणहारिकोरतिरो
 च्छदिदोषतः प्रणेनयस्यदोराहुर्तेगरीबदाससहकः ॥ ३ ॥ अर्ध
 स्वपहरोल्लधोषधपद्यासनेस्थितः ॥ बलादबोवरान्मुक्तोगरीबदा
 ससहकः ॥ ४ ॥ सुषदोविष्करव्यक्तोदानशीलोदयापरदशोहिद
 मकोऽक्षारणागरीबदाससहकः ॥ ५ ॥ सत्तापदभ्रसर्बेषासस्वत्
 फसदासुस ॥ अतिसक्तोहिसमहगरीबदाससहकः ॥ ६ ॥ निरि
 चनधम्यक्त्वाद्वरीबदतिगीयतेनधृताभक्तियुक्तत्वाद्वासदस्यमिपीय
 ते ॥ ७ ॥ साधुसयशिरोरत्नोपलवान्सदुपासने तस्मैगरीबदासाय
 गुस्वेवैनमोनमः ८ गरीबदाससहस्यनिर्मितं सृष्टकोष्ठम् ॥ साधु
 यप्रेस्तस्तुहैप्रपठन्तिनरोत्तम १ द्वितीयअष्टकसिस्तरिणी उद
 ॥ यदस्तिव्यात्मत्यनरस्वरविषाणोपमिदयदा भ्रासावेसाज्ज
 सजडमाभातिनिस्त्रिदम् यदानं दालेष्टाक्षकरुजनताळ्सी सु
 त्वरग्लागरीबतपूर्णापरमश्रुमीरासुविनित १ पदाज्ञानाध्यासाद
 मउजडनातिराम भवदयदास्लेकस्त्रीनसतसद्वमाद्य भवतीद्वि ता
 नोपेमेष्टेकासुतनरवरायानिसुशुगरीबत २ विवेकायापाद्यस्त
 गुह्यारणप्राप्यविभिवत्पदार्थावालोक्ष्यशस्वरसुत्वाद्देससबचो
 महार्पसंभुत्वायमहमिति नानतिसुनरागरीबतं ३ यमाद्यष्टाया

क्यंचपलमतिरोधासिसुकं सुयोगं संपाद्यनिजसुखगतिं याति स्तु
 नाः ॥ सुभूमिसंसाध्ययमिहविधिधांपंचमसुखांगरीबंतं ४ सुबोधे
 मंदाः सुगतभवकामाशु रगताशोर्वाक्येवेदेविमलवरविश्वास
 हिताः विधायोपास्तिवैप्रगवसुखकायात्तियमहोगरी ५ चिदानं
 सत्यं निरवयवसाकाररहितं शुशातीतं गीतं श्रुतिसुनिवचोभिः सुवि
 रं ॥ सुकूटस्थं स्वस्थं विगतसमयाद्यं गुरुगुरुंगरीबंतं ६ तमः पारंपार
 तगमितसाद्यंतरहितं प्रपंचाभावं सेन्द्रियमननवाचामविषयं रु
 तीर्द्रैर्मतव्यं विमलमतिमेयं सुमनसांगरीबंतं ७ सुयोगीर्द्रैर्धैर्यं
 एतनरगेयं शुभगिरासुचितैः संक्षेपं रसिकजनपेयं श्रुतिपुटात्स
 त्तानां भावैर्यद् इह जनितोजन्मरहितोगरीबंतं पूर्णं परमगुरमी
 सुविनतः ८ गरीबाचार्यस्य शुभमतिवरंचाष्टकमिदंपठंति प्राइ
 प्रतिदिनमुपितांबरकृतं ॥ स्वमंहः सद्यो वै नश्यति चिदानंदपत
 प्रवेशस्यात्तेषां भवति च तदासिः सुसतरा ॥ ९ ॥ तृतीयअष्टक-
 विंशच्छंदः ॥ जीवगुणकारणतारगही अबतारही योजिसने भवमा
 णिं एकभजानअस्तरहन्यो पुनताससमानरिपूकोइनाहीं ॥ एक
 इतकोबोधकीयो जिनजानहीयेसवकल्पमिटाही ॥ दासगरीबप्र
 गसस्तरुहीताह प्रणामकरु सिरनाई ॥ १० ॥ है गुरदेवदयारु सदा
 नताससमाननकोजगसाहीं ॥ बुबतथे भवसागमैजनतार
 रियेकछूदेरनराहीं जहकीउपमासर्वेदरटेसोइहीदिषलाय
 देयोघटसाही दासगरीबदयारु सदाजनतारदिये भवतेछिनमा
 णिं २ सेतुकियो भवसागरमैजिहिजनसमूह जुपारउत्तरेकामरु

को भ्रूतो भ्रूतो हने उपदापक दूरविहारे सीठ सतोप विवेक वया
 गिन की कृपा कर सो जन धारे दास गरीब परमात्मरूप ही मानव देह
 धरी ननतारे ३ है सुषसिधु अपार सदानि न आदि रु अतक दा-
 धित नही सेष दिने सगणे सरटे पुनता हि च पार स पावत नही सा
 रदनारद आदि के पुनक व्यनकी गिरण नाकिन माही दास गरीब
 विकास स्वरूपता ससमानको भव माही ॥ १४ ॥ एक अद्वैत स्रष्टा
 सदा पुनता महि है तकी लेसन होई अषट् स्वरूप प्रकासत है पुन भे-
 दकी गधन पावत कोई जो सस्नागत आवत है ति ही पुन्यनकी गि-
 एना नही होई एही विशेषण है निन मै भै से दास गरीब सुभये नर-
 सोई ॥ १५ ॥ गिनके परपक न सेवत ही सब पाप मिटै छिन एक ही साही-
 नाम लिये बुध औष मिटै पुन ध्यान धरे चित सात कर ही व्यन्य पुने भ्र-
 म भेद भगे पुन एक अद्वैत स्रष्टा रूपा ही दास गरीब दयालु सदा ति ही
 दास दयालु म नित्य वही ध पार गतार अनेक करे कृत दासनके स-
 ब बुध मिटाये सुध स्वरूप प्रकास सदानि ज दासन हेत गरीब कहाये
 जो सस्नागत भान भये ति म कै न पता प सुदूर बहाये भीर नु साधन दूर
 कीये गिन एक अजर्प सुभापन पापे पूर समन विक्रम करे त स आ-
 ति श्रीर विठे प मिटाये ससिके सम सांतिके जनके मनके सब तप
 क दूर कराये मोक्षको मारग हानक हो पुन भीर न साधनको विषलाये
 दास गरीब कृपानिधि है मम दासन दास हि नित्य सहाये १ दोहाप-
 ह स ह्य षक नोपटै मन मै कर हि ध्यान यामै ससे है न ही निभी होइ क
 त्यान ॥ १६ ॥ इति दो संस्कृत औ एक प्राकृत मिठकै लीन भष्टक समाप्त

॥ ओम् श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्रीकवीराचार्यस्याष्टकं लिख्यते ॥
 शिखरिणीच्छंदः ॥ प्रबोधाधिस्मृणास्परसममृतं । ज्ञानजनकं यमा
 ह्यर्थागीन्द्रस्प्रवरसुनयशशान्तमचलम् मलच्छिन्नं त्वाजनलद्विग
 तं योनृशिवद् कवीरस्वन्देहज्जगतिविदितत्वं यतिवरम् ॥ १ ॥ मु
 मुक्षुणाामीशान्त्रिगणारहितेभ्यश्च भकराणाम्पुराणं सर्वज्ञम्विगलितमि
 दन्निर्मलधियम् नृणामभक्तानं योजगतिजनको ब्रह्मनिरतेः क ॥ २ ॥
 यतो जातं व्योम प्रमुखाभिदमाद्देहिनिखिलं यमीशम्यशपानीप्रवरस
 तयस्साधुहृदये ॥ शरणं लोके शान्तिरवधिपरानन्दमजं ॥ क ० ३
 यदज्ञाने जन्मप्रभृतिमवशं याति जनतानियन्तारं शृङ्गसुरसुनिगणौ
 र्धेयमनिशम् ॥ अनाद्वैयस्वेदः प्रणवसमिधने गणानिधिं ॥ क ० ४
 अणनन्तं ज्ञातुं नृजतिविषयोद्यानसभदान् ॥ विरक्तसंसारज्ज
 निष्ठमिमादाशुपुरुषा जनेरीजं लोकेऽशरणशरणं स्मृान्ते
 हराणं क ० ५ यदज्ञानाद्भज्जो भुजगवद्विदमातिसकलस्प्रवो
 धाध्वैयस्सजहिवादिदं याति विलयम् ॥ प्रसिद्धायत्कीर्तिर्जगति
 भजतां श्रोत्रसुखदा क ० ६ निरावर्धशृङ्गं अतिनृनगुरौ घम
 बहरन्निवासस्थानं योज्जडतदितराव्यस्यजातः पदानन्दस्यांशैर्ज
 गदपिसमानन्दितमिदं ॥ क ० ७ निमग्नं डः खाब्धौ मनुजपटलस्त्री
 त्यकृपया समद्धर्तुन्नुस्मादिहजगतियः प्रादुरभवत् ॥ भजन्तो
 यन्देवन्निरवधिसखं यान्निमज्जाः क ० ८ कवीराचार्यस्य स्तव
 मिसमाद्यौघप्रशमनान्निरुध्यस्वान्तयः परिपठति भक्त्या प्रतिदि
 नम् शुचिः प्रातः काले भवजलधिपोतहृदतरं ॥ ५ ॥ ७ ॥

निम्बपिसुरसोऽनुभवति १० इति धीमत्परमहंसदयौतुदासशिष्येण
 परमात्माननाहृदनावरितधीयकवीर्यार्णस्यस्युत्पन्नक समाप्तिम
 गमतरान् १ धीगशेषायनम ४ धजतानरूपेदिनित्यात्मकवै वरध
 ध्वरूपन्वनासपस्यन्वै चलोकेषरूपशिवन्त्रह्यरूप गुणमुक्तिद
 धीयरीवहिवन्दे १ सुलोकेकमाधन्ववेदान्तगम्यद्विसर्वप्रसिपत्
 सर्वोत्तमन्वै रुपासापरव्यापकमुक्तरूपगुरु २ चिदानन्दस्मृति
 वैसर्वरूपंम्यवित्रहिकामप्रदंप्रादवै सुरेशान्वसिध्वन्वरागेशभू
 न्यगुरु ३ भनारिन्वदोषेणवेवर्जितमैविकारेणशून्यमनोवागवी
 तम् यशेषान्वविष्णुन्वविश्वेश्वरस्वैगुरु ४ सजात्यादिभेदेन
 शून्यन्वशक्त रूपानुन्वसत्यन्ववैत्रेकनाथम् अनन्वन्वैवक्त
 रूपविरामगुरुम् ५ अशोकन्ववैदेवदेवनिरीहृदिसाक्षित्वरूपन्व
 वैसिधिरन्वै अमृत्युन्वविज्ञानरूपमहेज्यगुरुम् ६ सर्षिन्वदेवैभ
 र्मैक्षितीशान्वैनिश्वलम्पोधवम् शर्मदन्वैनिगकाररूपन्वनि
 र्त्तपरुग्यगुरु ७ असुरदन्वसर्वज्ञरूपविरक्तद्विसर्वात्मकत्याग्नि
 न्नगम्यम् यतीन्वन्वजन्मादिशून्यम्बिसुक्तगुरु ८ ॥ २ ॥ अथ
 धीयरीवदासाचार्यदशकंतिस्त्यते चर्चरीकद ॥ उशामानुमरी
 निष्कृपूरषयदवोधतोभातिविष्णुदादिरूपमिदन्नगत्सतत
 ह्नु यस्ववोधवशादिदस्वजिसर्पवधिनिमीलतितप्रबोधनिधिप्र
 ग्नीमिगरीवदासमहश्रुपम् १ सहुरुकरुणाकरम्मवजन्मभीति
 निवारणम्बदमीतगुरान्चरुणा द्दवित्पवर्गविनाशकम् श्येदयद्मना
 न्चरुणामपवर्गदानसमुत्सुकस्त २ कत्तमपौषनिवारणस्यविधौविशा

लमतिर्हियोनिर्गुणो गुणलक्षणमितिनोतिविश्वमजश्रयः भक्तियु-
 क्तहृदान्त्रयोगतमेदतत्त्वनिदर्शकस्तं०३ पुण्यकीर्तिमचित्तवैभवम
 क्षरंयतिवदितंसत्तमस्विषयप्रवाहनिरोधकङ्कतकल्पसु शङ्कर-
 च्चदिगादिभेदविवर्जितङ्कगतोपमन्तं०४ निष्कलञ्जगदादिकी
 कारणमप्रमेयमनामयन्निर्विकल्पमनञ्जनङ्कतसङ्कदोषमनुत्त-
 मम् षड्भिकारविवर्जितस्विकलमभावाच्चितरिशिवत्तम्०५
 जन्ममृत्युभयम्प्रायातिहियस्यबोधविनाजगद्यं श्रुतिर्वदतिस्थि-
 रम्प्राणवारव्यभचयमीश्वरम् नामरूपविहीनमेकमनाश्रयन्त्र-
 गदाश्रयन्तम्०६ शर्मणोनिजभक्तिभ्यनसाहितेनिरतोहियोनिभ्रं
 स्वगतादिभेदविवर्जितंस्विसलाशयम् साधुपुञ्जशिरोमाणिनिस्व
 लेहृदमवस्वण्डनन्तम्०७ दुस्तरेभवसागरेकिलयोनिराह्निनिम-
 ज्जितान् द्रागिहाविरभूदयामसृगैर्निरीक्ष्यसुलोचनैः भुक्तिमुक्तिफल
 प्रदङ्कलुभेषजम्भरोगिरात्तम्०८ जायतेहिजगद्यतो जगदेवयेन-
 हिपाल्पतेयत्रगच्छतिवैलयचिस्वरंहिविश्वमिदङ्कलुनिस्पृहञ्च-
 निराहृतिभ्रवनाशनङ्कुरामन्दिरत्तं०९ भक्तवत्सलमीश्वरन्ति-
 खिलापदाभयहारिणं योमिदृन्दनमस्कृत्यङ्कपयानितम्भरमदयम्-
 भुधहृन्त्रगणैर्भूशम्भुविप्रजिताङ्गिसरोरुहृत्तं०१० येनरास्तवम
 द्रुतंहिगरीवदासमहात्मना प्रेसतो भुविसस्पृहम्पठतिपुण्य-
 विवर्धिनम् प्रत्यहं हि भवाच्चिपोतमचुत्तमंशिवदञ्चरात्तेविरुध्य
 भवाम्भुर्धिसुतराम्भ्रजन्तिसुखम्भरम् ११ इतिश्रीमत्परमहंसदयान-
 लुदासशिष्येणपरमात्मानन्दाभिधानेनविरचितंश्रीमद्वरीव-

दासाचार्यस्य स्तुतिदशकसमाप्तिमगमतराम् ॥ ३ ॥ सुरवदहिवि
 दानवम्पगममोक्षदायकम् परमानन्दरूपञ्च श्रीगरीवनमाम्बह
 म् १ ईशस्त्वेवदेवञ्चविधुनित्यात्मकहृचशिवम्प्रकाशरूपञ्च श्री
 गरीवनमाम्बहम् २ अस्वएडनगदाधारवियातंशुद्धञ्चव्यापकम्
 परमादितरूपञ्च श्रीगरीवंनमाम्बहम् ३ निर्विकारत्रिकालेषु ज
 गत स्रुतारकम् एकरसस्वरञ्चापि श्रीगरीवंनमाम्बहम् ४ चन्द्र
 चत्पारुकञ्चापिसर्वसन्तापहारकम् विद्यादिभेदभ्रम्यञ्च श्रीगरीव
 नमाम्बहम् ५ तपोनिधिमिधातार रागदेषादिवर्जितवैसर्वलोक
 नापञ्च श्रीगरीवनमाम्बहम् ६ विमुक्तप्रणवरीकाक्षजन्मादिरहि
 तसत्तु निरीहञ्चापिनिर्वोधिं श्रीगरीवनमाम्बहम् ७ सर्वज्ञतत्त्व
 रूपेचवैनिर्दोषदिमिश्रितसद्रूपेचात्मरूपञ्च श्रीगरीवनमाम्बह
 हम् ८ अस्यपरमभक्तभक्तोन्नस्यफरुदायकम् नित्यङ्कुरोतिपा
 तय सविमुक्तो भविष्यति १ धर्मदेधन्यार्यशीर्षस्यपक्षेसमासम
 एककृतम् न्योतिस्वरूपेणचतुर्दश्यावरस्वदु १५ ॥ ४ ॥
 ॐ श्रीमणेशायनमः ॥ अथ श्रीसहस्रैकप्रारम्भः ॥ अनुपच्छव
 अस्वएडदितबोधायसमस्तजगदात्मने सर्वात्मपरिपूरणाय श्रीग
 रीवायवैनमः १ अस्त्यादित्रिकरूपायगोप्तेनिरञ्जनायचदिगा
 दिभेदभ्रम्याय श्रीगः २ अचिन्त्यानन्तरूपायनिर्घृणायपुरगात्मने
 त्रिसुशान्तीतरूपाय श्रीगः ३ निर्भयायनिरीहायनिर्वैसयसुखात्म
 न अहंतेगतमोहाय श्रीगः ४ जगदाधाररूपाय सर्वविष्णुस्सृष्टि
 पेजयत्सृष्ट्यादिकर्त्रेच श्रीगरीवायवैनम ५ देवायलोकत्रयाय

१ नन्तचिन्मात्रमूर्तयेयतीन्द्राचार्यवर्याय श्रीग० ॥ ६ नित्यशु-
 ध्विसुक्तायसत्यज्ञानस्वरूपिणोनिराकारस्वरूपायश्रीग० ७ वेद
 वेदान्तवेद्यायकामक्रोधादिनाशिनेसर्वान्तैकस्वरूपायश्रीग० ८
 एतत्स्तोत्रस्यपाठेयोनित्यञ्चक्रुरुतेजनः सइहसुखमामोनिदेहा
 न्तेमोक्षमामुयात् ९ इतिश्रीमद्भ्यालुदासपूज्यपादशिष्येरापर-
 मात्मानन्दाह्वयेन कृतंश्रीमन्महाराजगरीवदासाचार्यस्य स्तुत्य-
 ष्टकं सम्यूर्णम् ५३ श्रीगणेशायनमः अथचतुर्थाष्टकप्रार-
 म्भः । भुजङ्गप्रयातच्छन्दः प्रशातन्दपालुञ्चसाक्षिस्वरूपं मनो
 वागतीतं स्वरूपानवद्यम् वरंज्ञानरूपं प्रसिद्धं च लोके त्वश्री श्रीगरी-
 वंगुरुत्तन्मामि १ शिवस्मुक्तिरूपं कृपासागरं वैविरिष्ठं शरणा-
 सुवेदान्तगम्यं सजात्यादिभेदेन शून्यंगतेच्छमहं २ जगन्नाथ-
 स्त्यादिरूपञ्च शुद्धमवाब्धौ निमग्नस्य चोद्धा एकञ्च निराकाररू-
 पं विभुञ्च स्वतंत्रमहम् ३ कविरादिरूपेण धृत्वावताराञ्जनान-
 नात्तमोयेन सर्वं निरस्तम् अखण्डञ्चिदानन्दरूपं हिरम्यमहं ०
 ४ गुरुब्रह्ममूर्तिञ्च भक्तये कठम्यमचिन्त्यस्वरूपं हि वैराग्यकेतुम्
 सुसुक्ष्मपदेष्टाचयश्लोकहर्ता ह्यहं ५ पवित्रं च नारायणं ज्ञानग-
 म्यमहद्द्रुस्वरूपं मनोज्ञञ्च सिद्धं यतीन्द्रं जगत्कारणं सुक्तिदे-
 वायहम् ० ६ अविद्यादपेतं शुभांगाभिनन्द्यमजं शर्मदं निष्क्रीयं चा-
 नघञ्च निरीहञ्च चिन्मात्रमूर्तिञ्च देवहं ० ७ अनादिं हरिं दीनव-
 न्धुम्प्रकाशमकामं कृतज्ञं विष्णो कञ्च श्रीदम् महर्षिञ्च श्रीशं-
 प्रमुं सुप्रसादमहं श्रीगरीवंगुरुत्तन्मामि ८ ६ । सदसञ्चो

दितं येन स ब्रह्मदोषवर्जिते दुःखदोषसत्त्वपञ्चोपितस्मैदपारु
 वेनमः १ शातन्व्यापकयेन तत्त्वज्ञसर्वसम्पत्तं शुद्धब्रह्मनिर्ले-
 पतस्मै २ रूपाद्युर्मितभाषीपस्तर्वात्तमस्तपोनिधि शुद्धस्त्या-
 गीवसत्यापतस्मै ३ सुखदोषब्रह्मनेष्टोपोरागद्वेषादिवर्जितं स-
 र्वसरक्षापितस्मै ४ परमानन्दरूपोयस्तर्वात्तन्तारतारक वि-
 रक्तो निरयेक्षश्चतस्मै ५ परमो ज्ञैतरूपोपियस्तर्वाद्विकारक
 सर्वजनप्रसिद्धश्चतस्मै ६ स्वसर्व धर्मनेष्टोपित्वएककोभेदवादि-
 नायोगोसाचापिसर्वपातस्मै ७ कृतोयत्नेनस्याद्योपिनिर्वाणो-
 यधिकारिणाद्युस्वनिवर्तकोयेनतस्मै ८ अक्लेः भूयार्गशीर्ष-
 स्पयत्तेसमाप्तमष्टक कृतज्योतिस्त्वरूपेनत्रपोदस्यावरस्युन-
 १ स्तोत्रस्यपरमप्रेमीनिष्कपटोपिचास्पवैनित्यकरोतिपाठयत्त-
 स्पमोक्षो भविष्यति ११० ॥ शिक्वासात्तन्वैत्रिगुणरहितद्वेष-
 रहितनिराकारशात्तननुपतिवरजन्मरहितं प्रकाशच्चैतन्य-
 म्परमममृतज्ञानजनकन्दयालं श्रीसुकनयतिविदितं नोमितुस्वदम्
 १ अद्भुतवेनिर्लेपेचजगतिविभावात्मनिहितं निराकारेदीनं भवभय-
 हरं यस्पविदितेचिदानन्दे नित्येपरमपिचेतो जमपिवैदया २ सु-
 सुक्ष्मणवर्गे भवभयहराणां जगतिवैषराणां शिष्याणां परममृत्-
 दानां विचरितं सदाशात्तानावायमरुमपिवन्पस्वत्सुदुर्दया ३
 प्रवोभाञ्चिबोमप्रसुस्वमिदमादौगतमपिसुसुक्ष्मणोमीशानिस्वित-
 मपियस्माद्बुद्धनिधिमहं चिन्नेकत्वाजनस्वदिहिचाततमिपिवैद-
 या ४ पियोसाक्षी शुद्धो हरिरसुरहताक्षनयनं गदीशखीयस्त-

वैसिं भरुसेईयावारहवरषविसास अंतचोटपालीपडी डोडेवीचकपास २२ गरी
 वसवैसिं भरुसेईया रेसीत्रयाहदेह जमकंक्रतुजुलेगया सुषमैदेकरषेह २३
 गरीब आदसमेंचेत्यानहीं अंतसमै अधिकारमधसमैमायास्तेपाकरहीयेग
 बार २४ गरीब अंतसमैवीतैयणीतनमनधरेनधीरउससाहिबनैयादकरजि
 नपहुधत्यासरीर २५ गरीब धूमैकेसाधौरुहरबालुकेसीभीतउसषाहिंद
 कूंयादकरम हलबनायासीत २६ गरीब धूमैकेसाधौरुहर यहबालुकासा
 जउसषाहिंदकूंयादकरसाजीगैवअवाज २७ गरीब धूमैकेसाधौरुहरबा-
 लुजेहाभेवगैवीसैंगैवीमिलेनौप्रसैदिलदेव २८ गरीबगैवअजातिपिंडमै
 जाकागैवीनामसुनसनेहीजानियेमढीमहरुनहींठाव २९ गरीब भगतहेतग्र
 हबांधियासाटीमहरुमसानतैसाहिबजान्यांनहींभूत्यासुखजिहान ३०
 गरीबभगतहेतग्रहबांधियाघरनामीघटमाहबिनसतगुरकीबंदगीसाहि
 बपावैनाह ३१ गरीबभगतहेतग्रहबांधियाघरनामीघटमांहसाधूजनसे
 येबिनासांईपावैनाह ३२ गरीबभगतहेतकायाधरीघरनामीघटबीच
 निमरुगैनहींनारियरु भावैंप्रमरुसीच ३३ गरीब यहमाटीकामहरुहैजा
 सैकैज्ञानेहजेसांईमिरुजातैहैतौनारायणदेह ३४ गरीबयहुमाटीकामहरु
 हेषाषमिरुगाधूरसांईकेजानेविनागदहाकुतासूर ३५ गरीबयहुमाटीकामहरु
 रहैछारिमिलैछिनमांहचारसकसकांधैधरैंनडहटकूलेजांह ३६ गरीबजा-
 रवारतनफूकीयेहोगाहैहैकारचेतसकैतौचेतियेसतगुरकहैंपुकार ३७ ग
 रीबजारवारतनफूकियेमंडहटमंडगनांडयातनकीहोरीबनीमिटीनजम
 कीडांड ३८ गरीबजारवारतनफूकियाभेत्याषोजषलीरुतंजानैमेंरहूंगाड
 न्तोकछनढीरु ३९ गरीबजारवारतनफूकियाफोकटमिटैफिरकचेतसकै

र न्यान्यानहीं बिन शिवि जल रुंद दृष्ट जा रा दसै नहीं चित्त पू फिसाई-
 धू ध ६ गरीब भरनी धर न्यान्यानहीं जिन शिवि जल रुंद नादी सहसस
 वास्कर त्यापान षस ष गूत् ७ गरीब भरनी धर न्यान्यानहीं जिन श्रि-
 जात्न साज चेतस कै तो चेतिये विमर नाय गाका ज ८ गरीब पानी की
 मरु बूदसैं भज बवना याथा रु धरनी धर न्यान्यानहीं भाय पञ्चा जम
 ज ९ गरीब गरीब सुषी ज दर हेथे तठ सिरु पर पाव राषन हारे राषिया
 नठर अगन की लव १० गरीब अरु चामर गरु मस भकिसने की भा-
 गरु उदर बीच पोषन की या बिन जननी कै दूध ११ गरीब नरु ही तही कु-
 त कार्थी न पता अन पाना पा बहर भाय कर भमेया ब हुत उठाये पा
 १२ गरीब नरु ही तही त कार्थी ररे कार धुन ध्यान जिन पद सा न ब न
 रिया मारु के ह पिछान १३ गरीब भौ बूद गरीब सुष ज पै थार रकार धु
 निधिर नावाठ ब कृ पाद कर जिन य १४ गरीब भौ बूद
 उर्थ सुष ज पै था सुनी जिद गिहान बाहर सुद गवाया पूनित हें पाषा-
 न १५ गरीब नठर अगन सै राषी याना साई एण भूद भौ साहि बरु
 हाह है क्यू बोवत हैं सुद १६ गरीब अथ घटी की अथ घडी अथ घडी
 की भाध साषो सेती गोष्टी ओकी जै सो लभ १७ गरीब पाव घडी
 तो पार कर नी माना सन धोय सन गुर हे हा देत है विषे सरु न ही बोप
 १८ गरीब अलफ अरु इ कृ पाद कर का दर फू कर बान साई सेती तो ड कर
 राया अध मो विहान १९ गरीब अरु फ अरु इ कृ पाव कर बिन की न्हा फ-
 इ सा व स साहि व कृ पाद कर पात्या ज रु बिन नाज २० गरीब संसाठी
 में मान कर कहां की पारे सुद सवै सु भठ सेई पा लगे दो डे ट २१ गरीब

वैसिं भरुसेईयावारहबरषविसास अंतचोटपालीपडी डोडेवीचकपासरगरी
 वस्रवैसिं भरुसेईया येसीत्रयाहदेहजमकंक्रतुफलेगया सुषमैदेकरषेह २३
 गरीव आदसमैचेत्यानहीं अंतसमै अधिकारमधसमैमायास्तेपाकरहीयेग
 वार २४ गरीव अंतसमैवीतैघणीतनसनधरेनधीरउससाहिबनैयादकरजि
 नपडुधत्पासरीर २५ गरीव धूमैकेसाधौरुहरवालुकेसीभीतउसषाहिंद
 कुंयादकरमहरुवनायासीत २६ गरीव धूमैकेराधौरुहरयहवालुकासा
 जउसषाहिंदकुंयादकरसाजीगैवअवाज २७ गरीव धूमैकेराधौरुहरवा-
 लुजेहाभेवगैवीसैगैवीमिलैनौप्रसैदिलुदेव २८ गरीवगैवअजातिपिंडमै
 जाकागैवीनामसुनसनेहीजानियेमढीमहरुनहींठाव २९ गरीव भगतहेतग्र
 हबंघियामाटीमहरुमसानतैसाहिबजान्यांनहींभूल्यामूढजिहान ३०
 गरीवभगतहेतग्रहबंघियाघरनामीघटमाहबिनसतगुरकीबंदगीसाहि
 बपावैनाह ३१ गरीवभगतहेतग्रहबंघियाघरनामीघटसाहसाधूजनसे
 पेबिनासांईपावैनाह ३२ गरीवभगतहेतकायाधरीघरनामीघटबीच
 निमरुगेनहींनारियरु भावैप्रमरुसीच ३३ गरीव यडुमाटीकामहरुहैजा
 सैकैज्ञानेहजेसांईमिरुजातेहैतौनारायणदेह ३४ गरीवयडुमाटीकामहरु
 हैषाषमिरेगाधूरसांईकेजानेबिनागदहाकुतासूर ३५ गरीवयहमाटीकामहरु
 रहैछारिमिलैछिनमाहचारसकसकांधै धरै नडहटकुंलेजाह ३६ गरीवजा-
 रवारतनफूकीयेहोगाहैहैकारचेतसकैतौचेतियेसतगुरकहैपुकार ३७ ग
 रीवजारवारतनफूकियेमंडहटमंडगनांडयातनकीहोरीबनीमिटीनगम
 कीडांड ३८ गरीवजारवारतनफूकियाभैत्याषोजधलीरुतंजानैमैरंहूगाइ
 हांतोकछूनढीरु ३९ गरीवजारवारतनफूकियाफोकदभिदैफिराकचेतसकै

तीचेतियेसतपगयोलैसाध ॥४०॥ गरीबजारबारकोलाकियाहोग्यमज
 हटसुषाछिडेमसन्नमंत्रेरियाकाकोडेभजलाध ॥४१॥ गरीबदिकसिगकुद
 येतेचौरपासिकियंभीनेनेनगा सबावसेजमकूफेरालीनम ॥४२॥ गरीब प्रबपर
 वसगदबहेउरेअज्ञबिज्ञानबिनसारकीबदगीडूवमुयेदहमह ॥४३॥ गरीब
 अरबपरवलगदबहेरापनवेप्रतिअनतनाहकजागमिआईयाजिनसेयेनहीसंत
 ४४ गरीबमाम्यदूईतोक्याहूबाधुसरत्यानरभुतपीजप्रकहैगाकेनकूतूकेस
 कापूत ॥४५॥ गरीबकामामायाकान्हेनिनसाहिबवे नामवेगसकेतौचित्तियाबिन
 संतेनहीसाध ४६ गरीबकेसिआजजनयासियेसकेकेभुवनरायवमपिनधिरक
 सडसघटसंमनमम ४७ गरीबदूनीसंकटमेदहूजेबिसरेनहिमोहिजिनसं
 सारीचित्तधरीनहीछुडाऊतोहि ४८ गरीबसयकेराहीवंधेमतपरलेन
 छुटसंभेअरअतरनामहोतीदूनीवडूरनजाय ४९ गरीबसभमायाकेध्या-
 लेंहेसभमायकेचेल निनसाईकीबदगीजागलंहेगारोऊ ५० गरीब
 हसुटीचीनारनरवासपहरेभूवर्चनमसंनोदावेसेविनाभगतमहसुस ५१
 गरीबकेसुतीसंकटमेदहूटेहुनिचसबाय उरुप्रवेमराप्रहृजमकीनहीभिरा
 स ५२ गरीबजोअनहमरीअनहेजाकाहूमेदासभयतखनइदबदगीअपन
 लोकप्रकर ५३ गरीबबेसघप्रानीजाहिगेदीकिदुदकहीरजाअनरन्हीछ
 मरैनिनयडुमज्जासरीर ५४ गरीबयामाटीमहंनर्ममग्नभयाकूसूद
 करसाहिबकीबदगीदससाईकूद ५५ गरीबसमाटीकेमहलंममन
 वाधीचियपोट सहरनपरहीराध्याजाहूसहिधनचोट ५६ गरीबका
 घाहीएकिरकेनहीसहिधनभारयेसामनयहुकेरस्यालेघालेकमस
 ५० गरीबहीसाधनकीचेदसहिसचिकूनहीआचजाहूहमेक्याकहेंजा

पांच ५८ गरीबचेतसकैतौचेतियेसतगुरहेलादीनबनवस्तीमैलारहेलेजा
 तानमबीन ५९ गरीबचेतसकैतौचेतियेसतगुरकह्जापुकारबिनाभग
 तडूँटेनहीबहुविधजमकीमार ६० गरीबसंतोसेतीओरुनेंसंसारीसैनेहसो
 द्रुहमेंमारियेसिरमैदेकरषेह ६१ गरीबभगतगरीबीबंदीसंतोसेतीहे-
 तजिनकेनिहचलबासहैआसनदीजैसेत ६२ गरीबकुटलबचनकू-
 ङाडदेसगजमनीकूंमारसतगुरहेलादेतहैडूँबैकालीधार ६३ गरीबइसमा
 टीकैमहलमेंनात्रकीजैमोदराबरंकसभवलैगेआयेकूलेसो ६४ गरीबमात
 पितासुतबंधुवादेपैकूलकेलोकरेनरदेपतफुकियेकरतेहैसबसोग ६५ ग
 रीबमहरुमंडेरीनीमसबचैलैकौनकीसाथकागारौलाहोरह्आकलुनरान
 ग्याहाथ ६६ गरीबगरुतानागैबीचत्यासाटीपिडपजोषआयासोपायानही
 अनआयेकूंरोक ६७ गरीबयहुमनमंजनकीजियेरेनरबारंवारसाईसैक
 रदोसतीविसरजाईसंसार ६८ गरीबअंतसमैकीबातसुनतेरासंगीकौ
 नसाटीमैसाटीमिलैपौनहमिलैहैपौन ६९ गरीबयेबाद्रसभधूंधकैमन
 सायाचितराम दीषिसोरहतानहींसपतपुरीसभधाम ७० गरीबजन्म
 जन्मकैमैरुहें जन्मजन्मकीघातजबनरतुजसुजेनहींलैचालाचारवि
 रात् ७१ गरीबजातेकूंनरजानदेरहतेकूंलेराषसतसबदउरध्यानधर
 सुषसैकूडनभाष ७२ गरीबनिखानीकैनामसैहिरुमिररहनाहंसउर
 मैकरियैआरितीकदैनडूँबैवंस ७३ गरीबपंछीउडैअकासकूंकितकूं
 कीन्हागवंन यौमनऐसैजातेहैंजैसैउदबुदपवन ७४ गरीबधनसंचौ
 तौसंतका और नतेरेकामअठसठतीर्थजेकरैनाहींसंतसमान
 ७५ गरीबधनसंचौसीरुकादूजाप्रमसंतोप ज्ञानरतनमंजन

भरो भसरुयजानारोक ७६ गरीबदया धर्मदोषुकटहैं बुधविवेकवि-
 चारहरदमदानिरह्नियेसौदन्त्यारमत्यार ७७ गरीबनामभमैपदवि-
 मदाअटलमनूपमराक पदुसौदासतकीजियेवनजीवनजअलेष ७८
 गरीबयज्ञसन्नमसैरानकरयदुमनयद्वैरागबनवसवीकितहीर
 होरुमैत्रिद्वैकाग ७९ गरीबरानकरामसभारियेप्रपची कू मोह
 अत्रवषतभानवहोहिअटल भगतसूतोह ८० गरीबजापटभयत
 विहासहै जापटहीरानामजोरानाएधीपतिजाघरसुकतेदाम ८१
 परीषसाहिवसाहैवस्याकरैसाहिवतेरेपाससहसइकीसीसोजरुठ
 रुठअपूठास्वास ८२ गरीबगगनमडरुमैरमिरहातेरसमीसोषना
 हरभ्रमेहानहैअत्रदीपकजोय ८३ गरीबचितकेअंदरचादनाकोटस
 रसमि भानदिरुकेअंदवेहराकाहेपूतपषान ८४ गरीबरतनर-
 सापननामहैसुककामारुमनीषअपेकूस्त्रैनीभागीजैरुमगीठ
 ८५ गरीबनामविनानिवहैनहींकरनीकरहैकोटिसंतोकीसंभत-
 नजीषिषकीबाधीपोट ८६ गरीबफिरुबिरुदीपकतेजकैदसीदसा
 द्रहारु सतधरकीसेवाकरैपावेसुकतामारु ८७ गरीबलेकाल
 हालीजियेहैकीभरिहैभारहैकीबनिजीकीजियेहैकासाहूकार
 ८८ गरीबरतनषजानानामहैअरुअजोषअपारथोह सौदासतकी
 जिषेदुगनेतीमनेचार ८९ गरीबनिर्गुननिर्मलनामहैअबगतनाम
 अक्वनामरतेसोधनपतीभौरसकरुप्रपच ९० गरीबसेसहहाहीजि-
 येसतसमागमसेवसतधरसाहिवपकहैंतीनूअरुअभेव ९१ ग-
 रीबचेतसकैतौचेतियेकूकेसतसुमेरचीरासीकूकतहैफेरसकै

तौ फेर २ गरीब मनमायाकी डुगडुगी बाजत है मरदंग चेतसकै तौचे
 तिये जानातु जै विनंग ३ गरीब नंगा आया जगतमें नंग ही तू ही जाइ वि
 चकरषादी धारु है मनमाया भ्रमाय ४ गरीब फूक फाक फारक किया
 कहीं न पा पाषो ज चेतसकै तौचे तिये ये मायाके चोज ५ गरीब नै नानि
 मरुत्तरके बैना बानी सार आरत अंजन की जिये डारो सिरसै भार ६
 ॥ अथ ज्ञानतिलक लिषतं ॥ स्वामी कौन तुम्हारा पिता बोलिये
 कौन तुम्हारी माई कौन तुम्हारी जाति बोलिये कौन तुम्हारी दाई १ औ
 धूपदहमारा पिता बोलिये मूलाहमारी माई सुनहमारी जाति बोलिये दी
 नहमारी दाई २ स्वामी कौन तुम्हारा नाम बोलिये कौन तुम्हारी नगरी
 कौन तुम्हारी सिकरु बोलिये कौन तुम्हारी अगरी ३ औ धूसतसुहंगम
 नाम बोलिये सबदहमारी नगरी सिंधहमारी सिकरु बोलिये अरधहमा
 री अमरी ४ स्वामी कौन तुम्हारा श्रवर बोलिये कौन तुम्हारा हंसा कौन तु
 म्हारी प्रबी बोलिये कौन तुम्हारा बंसा ५ औ धूमानसरोवरसरवरबो
 लिये मनहमारा हंसा प्रषहमारी प्रबी बोलिये निरवानहमारा बंसा ६ स्वा
 मी कौन तुम्हारा ध्यान बोलिये कौन असनानं कौन तुम्हारा जाप बो
 लिये कौन तुम्हारा ज्ञानं ७ औ धूधुनहमारा ज्ञान बोलिये अकरुपाट अस
 नानं अजपाहमारा जाप बोलिये अनभैहमारे ग्यानं ८ स्वामी कौन तुम्हारे
 तिलक बोलिये कौन तुम्हारे छाणं कौन तुम्हारे छंद बोलिये कौन तुम्हारे
 धारुं ९ औ धूततहमारे तिलक बोलिये छाकहमारे छापं किनहमारे छंदबो
 लिये सबदहमारे थापं १० स्वामी कौन तुम्हारे विन बोलिये कौन तुम्हारे
 छंद कौन तुम्हारे तर बोलिये कौन तुम्हारे साधं ११ औ धूबबैहमारी बीन

बोलियेनिरतहमारेनादबिबलहमारे तरबोलियेअगरदीपकेसाधन
 स्वामीकौनतुम्हारीरहसबोलियेकौनतुम्हारीकरनीकौनतुम्हारा
 अचारबोलियेकौनतुम्हारीधरनी १३ श्रीधूयहमारीरहसबोहि
 येकीरतहमरीकरनी उजरुविबोदअचारबोलिये ध्यानहमारै धरनी
 १४ ॥ स्वामीकौनतुम्हारीचीपीबोलियेकौनतुम्हाराफरुवाकौन
 तुम्हाराचेठाबोलियेकौनतुम्हाराग्रुवा १५ श्रीधूचितहमारीचीपी
 बोलियेफुनिहमाराफरुवा हसहिस्वरचेखबोलियेपरमहसहैगुरुवा
 १६ स्वामीकौनतुम्हाराभेषबोलियेकौनतुम्हाराबानाकौनतुम्हारी
 सैरुबोलियेकहो कौनप्रवाना १७ श्रीधूबधविबैकभेषबोलियेबानि
 हमारैबाना अरसविहंगमसैरुबोलियेप्रपटनप्रवाना १८ स्वामी
 कौनतुम्हारीधूपबोलियेकौनतुम्हारेदेवकौनतुम्हारेगुरुबोहि
 येकौनतुम्हारेसेव १९ श्रीधूध्यानहमारिधूपबोलियेपारब्रह्महैदे
 व गमहमारागुरुबोलियेसुरतनिरतपदसेव २० स्वामीकौनतुम्हारा
 रासबोलियेकौनतुम्हारेरामीकौनतुम्हारीसंप्रदाबोलियेकौनह
 रैरामी २१ श्रीधूअनददहमरारासबोलियेरागभधरुभनरागीसं
 तहर्मरीसंप्रदाबोलियेब्रह्मरिर्वैरामी २२ स्वामीकौनतुम्हारीब्र
 ह्मबोलियेकौनतुम्हारामेठाकौनतुम्हारापाठबोलियेकौनतुम्हारासे
 २३ श्रीधूवनमनीहमरीब्रह्मबोलियेब्रह्मपिंथुहामेत्यनिर्गुनहमरा
 पाठबोलियेसस्यनहमरेसेदा २४ स्वामीकौनतुम्हारीजाऊबोलियेकौ
 नतुम्हारेसवाकौनतुम्हारेमरवगबोलियेकौनतुम्हाराडका २५।
 श्रीधूजोकहमारीजाऊबोलियेसीठहमारिसंपावुधहमारागमरवग

बोहियेडिहहमारिडंका २६ स्वामीकौनतुम्हारा रूपबोहियेकौनतुम्हा
 रमालीकौनतुम्हारे कूलबोहियेकौनतुम्हारी क्यारी २७ औ धूउर पह
 मारा रूपबोहिये रामरभईयामी लीकमलहमारि कूलबोहिये हिरदाह
 मरी क्यारी २८ स्वामीकौनतुम्हारा वागबोहियेकौनतुम्हारा बेला कौन
 तुम्हारा भवरबोहियेकौनतुम्हारा षेला २९ औ धूअषैहमारा वाग
 बोहिये सुषमनहमरा बेला उजरहमरा भवरबोहिये कुंजहमागषेला
 ३० स्वामीकौनतुम्हारी कुलफबोहियेकौनतुम्हारे ताला कौनतुम्हा
 रीपौरबोहियेकौनतुम्हारा द्वारा ३१ औ धूत्रिकुटिहमरा कुलफबोहि
 ये सबदसुषमना ताला वज्रहमारीपौरबोहिये इलापिगला द्वारा ३२
 स्वामीकौनतुम्हारा दरीबाबोहियेकौनतुम्हारा दीपं कौनतुम्हारा
 मोतीबोहियेकौनतुम्हारे सीपं ३३ औ धूदमदरबानदरीबाबोहिये
 छतलोकहै दीपं स्वातसुहंगममोतीबोहिये सुषदुषरहता सीपं ३४
 स्वामीकौनतुम्हारी गुफाबोहियेकौनतुम्हारा घाना कौनतुम्हारा
 अर्थबोहियेकौनतुम्हारा म्याना ३५ औ धूगगनहमारी गुफाबोहिये दमी
 धीररसस्वाना अनिनंहमारा अर्थबोहिये मूलहमारा म्याना ३६
 स्वामीकौनतुम्हारी सीसीबोहियेकौनतुम्हारा प्याला कौनतुम्हारी
 भाटिबोहियेकौनभेदमतवाला ३७ औ धूसुरतहमारी सीसीबोहिये प्रे
 महमारा प्याला गंगाजमनद्रभाटीबोहिये नामंमूलमतवाला ३८
 स्वामीकौनतुम्हारा चक्रबोहियेकौनतुम्हारी वारी कौनतुम्हारा जोग
 बोहियेकौनतुम्हारी तारी ३९ औ धूसूलहमारा चक्रबोहिये कंद्रपने
 सनारी उदीतहमारा जोगबोहिये अस्तअनाहदतारी ४० स्वामीकैदैं

सुन्दारेचकमहरीकेर २० ईकेवाको।८ने१६७काई
 होफनसोई १ औधूतीनसैसाठचक्रहैंमहरीनीदषपटणहोई ॥
 अठाराहकोटिमेरदडकहिंभेवकहूफनसोई २ स्वामीकौनतुम्हारा
 रावडुवाबोलियेकौनतुम्हारीकोरीकौनतुम्हाराभागाबोलियेकौन
 तुम्हारीडोरी ३ औधूत्रपहमारबडुवाबोलियेजुयतहमारीकोरी-
 भकरपायतोभागाबोलियेमंकरतारहैडोरी ४ स्वामीकौनतुम्हारा
 देसबोलियेकौनतुम्हारापंथाकौनतुम्हाराभेषहाबोलियेकौनतुम्हारा
 रीषंथा ५ औधूदषनहमारादेषबोलियेअहमारापंथासुनहमाराभे
 षहाबोलियेअहमारीषथा ६ स्वामीकौनतुम्हारासबबबोलिये-
 कौनतुम्हारीबानीकौनतुम्हारीजगबोलियेकौनतुम्हारीदानी ॥ ४ ॥
 औधूअकळअतीतसबबबोलियेअपूरबहमारीबानीउपदेसजग
 नोनारबोलियेसतगुरहमरेवानी ५ स्वामीकौनतुम्हाराकंदबो
 लियेकौनतुम्हारीफेरीकौनतुम्हारीसिधबोलियेकौनतुम्हारीचेरी
 ६ औधूविंदहमारीकदबोलियेअस्यडहकीसीफेरीअचरह-
 मारीसिधबोलियेमायाहमरेचोरी ७ अजरअमरअकळहैदेव
 सबदीकालहैयेवभासाहाडहेमिरास-सतपुरषकीकरहैसेव ५१
 येताम्पानगुटकाचरुतजाकलीन्युतिरभवसंकेतजुदहीविग्या
 नउदारसतगुरमिलकबीर दासगरीबबद्रसदीदार ५२ ॥

२० ३० इति श्रीज्ञानतिलकसमाप्तम् ११ २१ ५१

ॐ

श्रीगणेशायनमः

अथ रत्नसागर आरम्भः

गरीबजो सुमरथसिधहोई गननायकगलतानां करोअनुग्र-
 हसोई पारसपदप्रदाना १ आदगनेसमनाऊं गणनायक
 देवनदेवा चरनकमलल्योलाऊं आदअंतकरहूंसेवा २
 परमसकतसंगीतं रिधसिद्धदातासोई अबगतगुनहअतीतं
 सतपुरुषनिरमोही ३ जगदेभाजगदीसं संगलरूपसुराी
 तनमनअरहंसीसं भगतसुकतभंडारी ४ सुरनरसुनिजन
 ध्यावे ब्रह्माविस्ममहेसा सेससहंससुखगावे पूजैआदिगने
 सा ५ इंद्रकुवेरसरीषा बरनधर्मीरायध्यावे सुमरथजीवन
 जीका मनइच्छाफलपावे ६ तेतीसकोटिअधारा ध्यावेस-
 हंसअठासी उतैरभीजलपारा कटहेजमकीफासी ७ ॥
 गरीब नमोनमोसतपुरुषकूं नमस्कार गुरुकीन्हही सुरनर
 सुनिजनसाधुवासेतोंसर्वसदीन्हही १ सतगुरसाहिबसेतस
 भडंडोतंप्रनाम आगेपीछेमधहूंयेतिनकूंजाकूरवान २ नि
 राकारनिरबिषं कालजालभैंसंजनेनिरलेपनिजनिर्गुने अक
 लअनूपवेसनधुन ३ सोहंसुरतसमापतं सकलसमानानि
 रतले उजलहिरंवरहरदमे वेपरवाहअथाहहे वारपारनहीमधतं

अथशुद्धदेवकारांगलिव्यते

गरीबप्रपटनप्रलोकहे जहाअदलीसतगुरुसार भगतहेत
 सेउत्तरे पायाहमरीदार १ गरीबधैसासतगुरुहममिल्या य
 लसपेखकीमास कायामायानाउहा नहीपिडनहीमात २
 गरीबधैसासतगुरुहममिल्या उजलद्विरगरअद भसका
 तामकमानका घासनहेससपथ ३ गरीबधैसासतगुरुह
 ममिल्या सनधिदेसीध्याप रुमरुमप्रकाशहे देहाअजपा
 जाप ४ गरीबधैसासतगुरुहममिल्या मगनकियेमसता
 क प्यासापिलायाप्रेमका गगनमंडसगरगाप ५ गरीबधै
 सासतगुरुहममिल्या सिधसुरतर्कसीन उरअंतरप्रकाशित्वा
 अजबसुनायेवेन ६ गरीबधैसासतगुरुहममिल्या सुरत-
 सिधुकीसिल बजारपोसपटखोस्किकर सेगयाजीनीगेल ७
 गरीबधैसासतगुरुहममिल्या सुरतसिधुकेतीर तभसंतनसि
 रताजहे सतउमअदलकयीर ८ गरीबधैसासतगुरुहम
 मिल्या सुरतसिधुकेमाह शब्दस्वरूपीअंगहे पिंडमाणम-
 हिच्छाह ९ गरीबधैसासतगुरुहममिल्या गलतानागुल-
 जार चारपारकीमतनही नहीहलकमनहिभार १० गरीबधै
 सासतगुरुहममिल्या सुरतसिधुकेमउ अडपौषाउदयेसहे
 बेनसमायेकुंज ११ गरीबधैसासतगुरुहममिल्या सुरतसि
 धुकेनाल पीतम्बरताधीपस्यो चानीशब्दरिसाल १२ गरी-
 बधैसासतगुरुहममिल्या सुरतसिधुकेनाल गमनकियाप

लोकसें अलतपंखकीचाल १३ गरीबश्रेसासतगुरुहममि
 ल्या सूरतसिंधुकेनाल ज्ञानयोगश्रेरभगतसब दीन्हीनज
 रनिहाल १४ गरीबश्रेसासतगुरुहममित्या वेपरवाहश्रबंध
 परमहंसपुर एगुरुष स्तुतस्तुमरविचंद १५ गरीबश्रेसासत
 गुरुहममित्या हेजिंदाजगदीस सबविदेसीदिलगया छत्र
 सुकटहेसीस १६ गरीबसतगुरुकेलछनकहूं मथरेवैनविनो
 द चारवेदषट्शास्त्र कहांअठारांबोध १७ गरीब
 सतगुरुकेलदानकहूं अचलविहंगमचाल हमअमरापुर
 लेगया ज्ञानशब्दअगाल १८ गरीबश्रेसासतगुरुहममि-
 ल्या त्रियोकैरेतीर भगलविद्यावानीकहें छानेनीरअरुखीर
 १९ गरीबजिंदाजोगीजगतगुर मालिकसुरशिदपीव काल
 कर्मलोगेनहीं नहिंसंका नहिंसीव २० गरीबजिंदाजोगी
 जगतगुर मालिकसुरशिदपीर दहूंदीनकगरामड्या पाया
 नहींशरीर २१ गरीबश्रेसासतगुरुहममित्या मालिकसुर-
 शिदपीर मासाभलकाभेदसें लगेज्ञानकेतीर २२ गरीबश्रेसा
 सतगुरुहममित्या तेजपुंजकैअंग किलमिलनूरजहुरहे स्तु
 पेखनहिंरंग २३ गरीबश्रेसासतगुरुहममित्या तेजपुंज-
 कीलोय तनमनअरपींसीसकूं होनीहोयसहोय २४ गरीब
 श्रेसासतगुरुहममित्या खोलेहवज्रकिवार अगमदीपकूंलेग-
 या जहांब्रह्मदरवार २५ गरीबश्रेसासतगुरुहममित्या खो
 लेहवज्रकपाट अगमभूमिकूंगमकरी उतरेश्रीघटघाट २६

गरीबश्रीसासतगुरुहममित्या भारीग्यासीगिन हूसरुममे
 सासती पलकनर्हाहिंषिन २० गरीबसातगुरभलकार्सेचकर
 लायाव्याजयेक सासउभारेसासता पडवाकसीजेजेक २०
 गरीबसातगुरुमास्तवानकस्त वैवरसासीवेष भरमकरमसब
 जरगये लईकबुधसभश्रेच-२१ गरीबसातगुरुअयेदयाकर
 श्रीसेसीनदयाल वदीछोउविरदासका अठरअगनिप्रमिया
 ल ३० गरीबजठरअगनिसेराधिया प्यायाअमृतावीर
 जुगनजुगनसातसगहे समजकुठनवेपीर ३१ गरीबजोनी
 सकटमेटहे श्रीधमुखनहिआप श्रीसासतगुरसेईये जम
 सेलेतछुडाय ३२ गरीबजमजौराजासेडरे धर्मरायकेदूत
 सीदाकोड-नचपही सनसातगुरुकीकृत ३३ गरीबजम
 जोराजासेडरे धर्मरायपरथीर श्रीसासतगुरयेकहे अदली
 अदलकबीर ३४ गरीबजमजौराजासेडरे मिटेकर्मकेअ-
 क कागीअकीरेद्रगहर्ई चिदाहकोड-नचप ३५ गरीबज
 मजौराजासेडरे मिटेकर्मकेलेए अदलीअदलकबीरहे कु-
 लकेसातगुरयेक ३६ गरीबश्रीसासतगुरुहममित्या पडुच्य
 मकनिदान नोकानामचछायकर पारकियेपरदान ३७ ग-
 रीबश्रीसासतगुरुहममित्या भीसागरकेमाह नोकानामच
 छायकर लेराखेमिमडाह ३८ गरीबश्रीसासतगुरुहममि-
 त्या भीसागरकेबीच खेवटसभरूपखेवता क्वाउसभन्पानी-
 च ३९ गरीबचोरासीकौधारमे येहेजातहेजीव श्रीसासतगु

रहममिल्या लेमसायापीव ४० गरीबलाखचौरामीधारमें
 बहेजातहैंहंस असासतगुरुहममिल्या अलाखलिखायावं
 स ४१ गरीबमायाकारसपीयकर फूटगयेद्वैनेन असास
 तगुरुहममिल्या बासदियासुखचैन ४२ गरीबमायाका
 रसपीयकर होगयेडांवाडोल असासतगुरुहममिल्या ज्ञा
 नजोगदियाखील्ह ४३ गरीबमायाकारसपीयकर होगयेभू
 तघईस असासतगुरुहममिल्या भगतदर्ईवकसीस ४४ ग
 रीबमायाकारसपीयकर फूटगयेपटवार असासतगुरुहममि
 ल्या लोयनसंखउघार ४५ गरीबमायाकारसपीयकर डूबग
 येदहूंदीन असासतगुरुहममिल्या ज्ञानजोगप्रवीन ४६ ग
 रीबमायाकारसपीयकर गयेषटदलगारतगोर असासतगुरु
 हममिल्या प्रगटलियेबहोर ४७ गरीबसतगुरुहंक्यादीजिये
 देनैकूंकच्छनांह समनकूंसाकाकिया सेऊभेटचखाय ४८ ग
 रीबसिरसांटेकीभगतहै औरकछूनहिंवात सिरकैसांटेपाईये
 अबगतअलषअनाथ ४९ गरीबसीसतम्हाराजायगा करस
 तगुरुकंदान मेरीमेराछाडदे योहीगोपतैदान ५० गरीबसी
 सतम्हाराजायगा करसतगुरुकीभेट नामनिरंतरलीजिये जम
 कीलंगेनफेट ५१ गरीबसाहिबसैंसतगुरुभये सतगुरुसैंभये
 साध येतीनोंअंगयेकहैंगतकुछअगमअगाध ५२ गरीबसा
 हिबसैंसतगुरुभये सतगुरुसैंभयेसंत धरधरभेषदिसालअंग
 विलेआदअरुअंत ५३ गरीबअसासतगुरुसेईये वेगउतारेप

चीरासीधममेटर्ही आवागमननिवार ५४ गरीबअधेयुगे
 गुरघने लंगड़ेलोभीलाष सहिबसेप्रचैनर्ही कवचनवि
 साष ५५ गरीबश्रेसासतगुरसेईये शब्दसमानाहोय
 भीसागरमेंडुबते पारसगोवेसोय ५६ गरीबश्रेसासतगुर
 सेईये सोहेसिधमिलाप तुरियामधआसनकरे मेंटेसैन्
 माप ५७ गरीबतुरियापरपुरियामहल पारब्रह्मकादेस
 श्रेसासतगुरसेईये सबदविज्ञानानेस ५८ गरीबतुरि
 यापरपुरियामहल पारब्रह्मकाधाम श्रेसासतगुरसेईये ह
 सकरेनिहकाम ५९ गरीबतुरियापरपुरियामल पारब्रह्म
 कालोक श्रेसासतगुरसेईये हंसपठाविमोष ६० गरीबतुरि
 यापरपुरियामहल पारब्रह्मकादीप श्रेसासतगुरसेईये रा
 धीसेगसनीप ६१ गरीबगगममहलगाबीजहा पारब्रह्मचस
 यान सुनशिषरकेमहलमे हंसकरेविश्राम ६२ गरीबस
 तगुरहरणब्रह्महे सतगुरआपलेष सतगुररमतारामहे या
 भैमीनममेव ६३ गरीबसतगुरआदशमावहे सतगुरमधु
 हेगुल सतगुरकुंतिरदाकस्त एकपलकमहिभूल ६४ ग
 रीबपटनघाटलघाईया अगमभूमिकाभेद श्रेसासतगुरहम
 मिस्या अष्टकमलदलसेव ६५ गरीबपटनघाटलघाईया
 अगमभूमिकाभेव श्रेसासतगुरहममिस्या अष्टकमलदलसे
 व ६६ गरीबप्रपटनकीपीठमे सतगुरलेगयामेह श्रिसा
 देसोदाहूवा अगलीपिछ्छलीघोय ६७ गरीबप्रपटनकीपी

में सतगुरुले गया साथ जहां हीरे मानक विकें गरसला
 था हाथ ६८ गरीब प्रपटन की पीठ में हेस जगुब की हाट ज
 हां हीरे मानक विकें सौदा मरसूं सां ६९ गरीब प्रपटन की
 पीठ में सौदा है निजसार हम कूं सतगुरुले गया औघट घाट
 उतार ७० गरीब प्रपटन की पीठ में प्रेम पिया लेखूब जहां ह
 म सतगुरुले गया मत वाला मह चुब ७१ गरीब प्रपटन की पी
 ठ में मत वाले मसमान हम कूं सतगुरुले गया अमरापुर मस-
 थान ७२ गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेनी के तीर मानस-
 रोवर हंस हें बानी को कल कीर ७३ गरीब बंकनाल के अंत
 रे त्रिवेनी के तीर जहां हम सतगुरुले गया दै अमीर मधीर
 गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेनी के तीर जहां हम सतगुरुले ग
 या बंदी छोड कबीर ७४ गरीब भवर गुफा में बैठ कर अनी
 महारस जोष ऐसा सतगुरु मिल गया सौदा रोक मगेक ७६
 गरीब भवर गुफा में बैठ कर अमी महारस तोल ऐसा सतगुरु
 मिल गया बच्च पौल दई खोल्ह ७७ गरीब भवर गुफा में बै
 ठ कर अमी महारस जोष ऐसा सतगुरु मिल गया ले गया हम
 परलोक ७८ गरीब पिंड ब्रह्मंड में अगम है न्यारी सिध समा
 ध ऐसा सतगुरु मिल गया देखा अगम अगाध ७९ गरीब
 पिंड ब्रह्मंड में अगम है न्यारी सिध समाध ऐसा सतगुरु मिल
 गया दिया अंधे परसाध ८० गरीब औघट घाटी ऊतरे सत
 गुरु के उपदेश शरन पद प्रकासिया तान जोग प्रवेश ८१

गरीबसूनबोवरहंसमन न्हायेसतपुरभेद सरतनिरसप्र
 चाभया अष्टकमसुइतछेद ८२ गरीबसूनवेसनसैंअम
 महे पिडब्रह्मंडसैंन्यार शब्दसमानाशब्दमें अबगात
 रनपार ८३ गरीबसतपुररुकरवानजा अजवलषाभादे
 स पारअह्यप्रवानहे नियलभनिजनेस ८४ गरीबसत
 पुरसोहनामदे युजबीरजबिसतार बिनसोहसीजेनही
 मूलमंत्रनिजसार ८५ गरीबसोहसोहधुनलगे दरदब
 ददिलमाहि सतपुरप्रदाबोल्हही परालोकलेजाह ८६
 गरीबसोहजापअपहे बिनरसनाकैधुन चटकेमहल
 स्रषसेनपर जहापापनहींधुन ८७ गरीबसोहजापअज
 पहे बिनरसनाकैधुन सतपुरदीपसनीपहे नहींबसती
 नहींसुन ८८ गरीबसूनबसतीसैंरहतहे मूलमंत्रमनमा
 ह जहाहमसतपुरलेगया अगमभूमसाठोह ८९ गरीब
 मूलमंत्रनिजनामहे सुरतसिधकेतीर गैबीबानीअरशमे
 सरनरपरिनधीर ९० गरीबअजवनगरमेलेगया हमरुस
 तपुरआन जिलकेविंअगाधगत सुनेचादरतान ९१ ग
 रीबअगमअनाहददीपहे अगमअनाहदलोक अगमअना
 हदगमनहे अगमअनाहदमोष ९२ गरीबसतपुरपारस
 रूपहे हमरीलीहाजात पसकबीचकंचनकरै पलटैपिडा
 गात ९३ गरीबहमतासोहाकबनहे सतपुरबर्नल्लहार जु
 गनजुगनकेमोरचे मोडघडैघासा ९५ गरीबहमपु

वाजनजीवहैं सतगुरजातभिरंग सुरदेसैंजिंदाकरैं पलट
 धरतहैंअंग १५ गरीबसतगुरसिकलीगिरबने यहुतनते
 गादेह जुगनजुगनकेमोरचे षोविभरमसंदेह १६ गरीबस
 तगुरकंदकरहैं हमरीतुनकादेह स्वांतसीपकामेल
 है चंदचकीरानेह १७ गरीबअैसासतगुरसेईये वेगउ
 धोरहंस भौसागरअैवेनहीं जौराकालविधंस १८ गरीब
 पटननगरीघरकरैं गगनमंडलगेनार अललपंषजूंसचै
 सतगुरअधमउधार १९ अललपंषअनुरागहै सुनमंडल
 रहेथीर दासगरीबउधारया सतगुरमिलेकबीर २० ॥

अथ सुमरणाका अंगालिखते गरीबअै-
 साअवगतरामहै आदिअंतनहिंकोय वारषारकीततनहीं
 अचलहिरंबसोय १ गरीबअैसाअवगतरामहै अगमअ
 गोदरनूर सुनसनेहीआदहै सकललोकभरहर २ गरीब
 अैसाअवगतरामहै गुनहंभीसैन्यार सुनसनेहीरअरह्य
 दिलअंदरदीदार ३ गरीबअैसाअवगतरामहै अममफ
 रअलाह कादरहंकरवानहै वारषारनहिंथाह ४ गरीब
 अैसाअवगतरामहै कादरआपकरीम मीरंमालकमिहर-
 वान रमतारामरहीन ५ गरीबअलहअवगतरामहै वे-
 चगूनचितमाह तवदअतीतअगाधहै निरगुनसरगुनमा
 ह ६ गरीबअलहअवगतरामहै वेचगूननिरवान मोते
 मालकहैसही महलमखीनहीथान ७ गरीबअलहअव

गतरामहै निरधारंआधार नामनिरतरस्त्रीजीये रूमरूम
 कीलार १८ गरीबअलहअवगतारामहै निरवानीनिरवध व
 मनिरतरस्त्रीजीये ध्यानषकोरावद १९ गरीबअलहअवगत
 रामहै कौमंतकहीवनाय नामनिरतरस्त्रीजीये सुखतेकहि
 नसुमाय २० गरीबअलहअवगतारामहै निरवानीनिरव
 ध नामनिरतरस्त्रीजीये जूहिलमिलमिलसमुद २१ ग
 रोवदहुंदीनमधऐवहै सखहअनेषपिछान नामनिरत
 रस्त्रीजीये भगतहेतउरानान २२ गरीबअष्टकमसदसर
 महै बाहरभीतरराम पिछवहंउमैएमहै सकलहुंगस
 राम २३ गरीबसकलवियापीसरामहै म्मपबनागहसष
 रूमरूमधुनहोतहै सतएरबोनेआव २४ गरीबसूसकम
 लमेरामहै स्वादफकमेराम नामकमलमेरामहै हवेक
 मलविश्राम २५ गरीबकूठकमलमेरामहै विकुचीकमत
 मेराम सहंसकमलदसरामहै सुनवसतीसवडाम २६
 गरीबअचलअभगीरामहै गसत्यानादमलीन सरतनिरतके
 अनीरे बाजिअनहदवीन २७ गरीबरामकह्यातोकाहुआ
 उरमेमहीअकीम चोरमुसेंपरसूटही पांचपकीसोतीन २८
 गरीबयेकरामकहतरामहै अिनकेदिसहियेक बाहभीतर
 रमिरहा मरणवहअनेष २९ गरीबरामअमनिससार
 है मूलमबमनमाह पिउअहाडुसैरहमहै जननीजाया
 नाह २० गरीबएमरटजनहीळील करहरदमनामउचार

अमीमहारसपीजिये यद्गततवारंवार २१ गरीबकोटग-
 जजेदानदे कोटजमजौतार कोटकूपतीरथषनें मिटेन
 हीजममार २२ गरीबकोटकतीरथप्रतकर कोटगजकर-
 दान कोटअसविप्रोदिये मिटेनषेवातान २३ गरीबपार्व
 तीकेअरथरुप अम्रभईछिनमाह सुषदेकीचौरासीमिटी
 निरालंभनिजनाम २४ गरीबअगमअनाहदभूमहे जहां
 नामकादीय एकपलकविछरैनहीं रहतानैनोंवीच २५ ग
 रीबसाहिबसाहिबख्याकौ साहिबहैप्रतीत सैससींगसा
 हिबभया बांडेगोवेंगीत २६ गरीबरामसरिवागमहे संतस
 रीषसंत नामसरीषानामहै नहींआदनहींअंत २७ गरीब
 मिहमासुननिजनामकी गहेदोपतीचीर इसासनसेपचिर
 हे अंतनआयाबीर २८ गरीबसेनदंध्यापाहनलिने गजप्र
 कडेयेग्राह गनलाचूखीदिवानमें निरगुननाममलाह २९
 गरीबवारदजुरीकबीरेके भगतहेतकेकाज सेऊकूलोसिर
 दिया वेचवंदगीनाज ३० गरीबकहांगोशसकहांदतथे क
 हंसासुषदेकहांव्यास भगतहेतसैंजानिये लीनलोकरुप्रसया
 गरीबकहांपीयाकहांनासदे कहांधंनवाजीद कहांरेवाल
 कमालथे कहांथेफऊफरीद ३१ गरीबकहांनानकदादूहु
 ते कहांतानीहरिदास कहांगोपीचंदभरथहरी येसभसत
 गुरपास ३२ गरीबकहांजोगीचरपट्टने कहांअधमसुनतां
 न भगतहेतप्रगटभये सतगुरकेप्रवाण ३४ गरीबकहांनाय

दप्रह्लादये कहास्रगरकहासेस कहाभभीषनप्रदुते भ
 नद्विरत्रपेस ३५ गरीबकहाजेदेथेकपलसुन कहरामान
 दसाथ कहांडुखासाकूसये भगतीछादबनाद ३६ गरी
 बकहाब्रह्माश्रीरवेदये कहांसनकादिकघार कहांभूषी
 विसनथे भगतिहेमदीदार ३७ गरीबसिसानिरमलनामहे
 निरमलकौसरीर श्योरज्ञानमडलीकहे चकवेसानकबीर
 गरीबगमनामसदमेपिया वकरेकेउपदेस भ्रजामेलसेअथ
 रे भगतचंदगीपेस ३८ गरीबनामजलधरकूलीया पमा
 रिषप्रवान धनसतछरदाताधनी दईबदगीदान ३९ ग
 रीबगगनमडलमेंरहतहे अबनासीआपअलिष जुगनजुग
 नसतसंगहे धरधरलेलेभेषजुधर गरीबकपामायावडहे
 घंडरभअरपाट अमरनामनिजबंदगी सतछरसेंभईसांठ
 गरीबअमरअनाहदनामहे निरभेषप्रमपार रत्नतारमता
 गमहे सतगुरधरनजुहार ४० गरीबअवसासौनिहचल
 सदा करताकूकुरवान जपअजपाजपतहे गगनमंडल
 धरध्यान ४१ गरीबविनरसमाहिसंदगी विनषशमोदी
 दा विनअवाणायलीसुमे निरमलततनिहार ४२ गरीब
 भेसौरागरनामका यडेपड्यावहीर लदतेसदमेस्वारये
 बडरनफेरावीर ४३ गरीबनामबिनाक्याहीतहे जपतपहे
 जमध्यान घाहरभरमेमानवी अभअंतरमेजान ४४ गरी
 बउजलहिरबरभगतहे उजलहिरबरसेव उजलहिरबरना

महै उजलहिरंवारदेव ४८ गरीबनामविनानिपजेनहीं
 जपतपकरहेंकोट लषचौरासीत्पारहै मंडमुडायाघोट ४९
 गरीबनामससेवरसारहै सोहंसुरतलगाय ज्ञानगलीचैवै
 ठकार सुनसरोवन्हाय ५० गरीबमानससेवरन्हाईये हंसप
 रमहंसकामेल विनाचंचमोतीचुगै अगमअगोचरषेल ५१
 गरीबगगनमंडलमेंरमरह्या गलतानामहबूब चारपारन-
 हीछेवहै अबचलमूरतशूब ५२ गरीबअैसासतगुरसेईये
 जोनाअडिखावै भरमीगुरूयासतमिलो जोमूलगवावै ५३
 गरीबसोहंसूरतलगायले गुनदंड्रीसैंबेच नामलियातव
 जानीये मिटैसकलप्रपंच ५४ गरीबनामनिहचलनिरमला
 अनंतलोकमेंगाज निरगुनअगुनक्याकहैं प्रगटजासंतों-
 काज ५५ गरीबअबनासीकेनाममें कौननामनिजमू-
 ल सुरतनिरतसैंषोजले वासवडीअकफूल ५६ गरीबसू-
 लसहीअगुनकह्या निरगुनगंधसुगंध मनमालीकेबाग
 में भवररह्याकहांबंध ५७ गरीबभवरदिलंब्याकेतगी स-
 हंसकमलदलमांह जहांनामनिजतूरहै मनमायातहांनाह
 गरीबपंडितकोटअनंतहैं ज्ञानीकोटअनंतहैं सुरताकोटअ-
 नंतहै विरलेसाधुअंत ६० गरीबजिनमिलतैंसुषुउफजे मे-
 टैंकोटउपाध भवनचंद्रदसकूणियें परमसनेहीसाध ६०
 गरीबरामसरीषेसाधहै साधसरीषेराम सतगुरकृतिरदा
 कसूं जिनदीनानिजनाम ६१ गरीबभगतबंदगीजोगसभ

ज्ञानध्यानप्रतीत सुनसिखरगङ्गमेंहें सतगुरसबदप्रतीत ६४
 गरीबश्रेष्ठसतगुरसेईये पारउतारैहस भगतसुकतकीरत
 सै मिलहेसोहवस ६३ गरीबसोहवसवधानिये विनरस
 देहीजप्य सूरननिरतसैअगमहे सिसमाधगरगाप ६४ गरी
 बसुरतनिरतमनपवनपर सोहसोहहोय सिवमंत्रगोरजक
 ह्याअमरभईहेसोय ६५ गरीबररकरतोधुनलगी सोहसुरत
 समाय हदवेहदपरवास होयबहुनअविजाय ६६ गरीबउ
 जगायत्रिनामहे विमरसनाधुमध्यान मिहमासनकारिकल
 ही सिवसकरवलजाय ६७ गरीबअजयमहलबारीकहे अ
 जबसुरतबारीक अजयनिरतबारीकहे महलधसेविनबीक
 गरीबरामनामकेपटतरे देवेहनहींधीर सोउरमतादिनभये
 अमरकरीमदगीर ६८ गरीबसघदेसघमेंउपजे राईसौंगस
 मीय नानाअधरसिधुकीराती संगउपजयेदोय ७० गरीब
 सारामअगाधहे अबनासीगहरगंभीर हदजीऊसैंदूरहे वेह
 दियेकेनीर ७१ गरीबश्रेष्ठसारामअगाधहे वेकीमतकरतार
 सिससहंसकनरदमहे अजोमपायापार ७२ गरीबश्रेष्ठसाराम
 अगाधहे अप्रमपारअयाह उरमेंकिसखालहे मोलेकल्प
 अलाह ७३ गरीबश्रेष्ठसारामअगाधहे निरभयनिहचलपीर
 अनहदनादअपंडधुन तनमनहीसरीर ७४ गरीबश्रेष्ठसार
 मअगाधहे खाजीगिरभगवत निरसधनिरमलदेविया वा
 रपारनहीअत ७५ गरीबपारअह्लाविनप्रपहे कोमामोल

नमो ल विना उजन पूर्व राम है वह रे गी अनदी ल ७६ गरी व
 मिह मां अद गन नाम की जा ल त वि रे ले सं त आठ व ध न धु वि धा
 न है मु नि जन रे टै अ नं त ७७ गरी व चं द स र पा मि प व न
 पुर नी पी ल अ का स पां च त न हा ज र ष डे क्षि त न त दा र ष व
 स ७८ गरी व क ल क र म क रें चं द गी म हा काल अ र दा स
 मन मा या अ रु ध र म रा य स प ति र
 ना म उ पा स ७९ गरी व का ल ड रै क र ना रें में मन मा या वा नी
 ल चं द न अं ग प ल टै स भै लै की षा ली रह ग या वां स ७५ गरी
 व स ज न स लो नारा म है अ द ग न अं त न जा य बा ह र भी त र ऐ क
 है स भ अ ट र ह्या स मा य ८० गरी व स ज न स लो नारा म है अ
 च ल अ भं गी ये क आ द अं त जा के न हीं ज्यू का तूं हिं दे ष
 गरी व स ज न स लो नारा म है अ च ल अ भं गी म्ने न म हि मा क हि
 न जा त है दो लै म धु रै वैन ८१ गरी व स ज न स लो नारा म है
 अ च ल अ भं गी आ द स त गुर म ह र म ना स का सा ष भ ज स भ सा
 ध ८२ गरी व स ज न स लो नारा म है अ च ल अ भं गी पी र न
 रा ग क म ल हं सार है हम है दाम न गी र ८४ गरी व स ज न
 स लो नारा म है अ च ल अ भं गी आ प ह द बे ह द से न अ ग म है ज पे
 अ ज या जा प ८५ गरी व त्रै सा भ ग ली जो गि या जा न त है स व दे
 ल बी न व जा वे मो ह नी जु ग जं त्र स भ मे ल ८६ गरी व ब्र ह्मा
 दि क से मो हि या मो हे से स ग ने स सं क र की ता री ल गी अ डि ग
 स मा ध ह मे स ८७ गरी व ग न गं ध र प त्ता नी र नी अ ज व न दे
 ला ने ह क्पा मि ह मा क हं ना म की मि ट ग ये सं क ल सं दे ह ८८
 गरी व स न व दे सी व स र ह्या हम रे ने नों में ज अ ल ष प ल क में

घलकर्म सतपुरसवदसमज ५९ गरीबसुनवदेसीबस
 रत्ना हमोहिरदेमाह चंदसूरउगेनहीं निसकातरतही
 नाह ६० गरीबसुनवदेसीबसरत्ना हमोवेदिकुटीरीर सं
 घपरमछिंदबादनी बानीकोकसकीर ६१ गरीबसमबदे
 सीबसरत्ना सहंसकमलबलबाग सोहंध्यानसमाधुम
 प्रतीवरधिराग ६२ गरीबसुननतबहीजानिये तबससत
 मधुनिहोय कुजकमलमेवेडका मालाफेरेसोय ६३ गरी
 बसरतसुमनीहायसे निरसमिलेनिरवान ररकररमतास
 वे अससबंदगीध्याम ६४ गरीबअष्टकमलरससुनहे
 बाहरभीतरसुन रोमरोममेंसुनहे जहाकासकीधुम ६५
 गरीबतुम्हहीसोहसरतहे सुम्हहींमनधीरपीम इसमेंडूत
 रकीमहि, आविजायसकीन ६६ गरीबइसमेंडूसरकर्महे बं
 धीअविद्यागाढ पाचपचीसोलेगई अचनेअचनेबाट ६७
 गरीबनामयिनासुनानगरपद्मा सकलमेंसोर सुदनत
 टीवंदगी होगयाहसाभोर ६८ गरीबअगमनिगमकुंजोने
 बुधविवेकविचार उदेशसकारअवि नोविनानामवेगा
 र ६९ गरीबअसाकोनअभागिया करेभजनकृभंग सो
 हेसैकंचनभया पारसकैसतसंग ७० गरीबपारसत
 न्हारानामहे लोहाहमरीजात अउसेतीजडपलटिया त
 मूकुकैतिकवात १ गरीबविनाभगतवपाहोतहे धूंकैरखे
 जाय सुवासेरअनपावते अटलरामदियाताह २ गरीब

बिना भगत क्या होत है भावै कासी कवत लेह मिटे नही म
 न वासना बहु विध भरम संदेह ॥ ३ ॥ गरीब भगत बिना क्या
 होत है भरम र ह्या संसार रती कंचन पाया नही रावा चल
 ती वार ॥ ४ ॥ गरीब संग सुदामा संतथे दारिद्रका दरियाव कं-
 चन महल वक सद्दिये तू दल भेट चखाव ५ ॥ गरीब दोक
 बड़ी का जीव्या सेना जात गुलाम भगत हेत ग्रह अरिया
 धरिया स्वरूप हजाम ६ ॥ गरीब नामा कै वीठल भये और
 कलंदर रूप गऊ जिवाई जगत गुर पात शाह जहां भूप ७ ॥
 गरीब पीपा कूं प्रचाहुवा मिले भगत भगवान सीता सुध स्या
 वतरहे द्वारामती निधान ८ ॥ गरीब धना भगत की धून ल
 गी बीज दिया जिन जान सूका खेत हराहुवा कंकर बोई
 जान ९ ॥ गरीब वैदास रंगी लारंग है दिये जने ऊतोड जग
 जीनार चोले धरे ये करे दास एक गौड १० ॥ गरीब माजी म
 रद कबीर है जगत करे उपहास के सो बन जारा भया भग
 त वखाई दास ११ ॥ गरीब सोहं ऊपर और है सत सुकत इ
 क नाम सबहं सो का बंस है सुनवसती नहिं गाम १२ ॥ ग
 रीब सोहं ऊपर और है सरत निरत कानाह सोहं अंतर पे
 ठ कर सत सुकत ल्यो लाय १३ ॥ गरीब सोहं ऊपर और है विन
 मूल का फूल ताकी गंध सुगंध है जाकूं पलक न भूल १४ ॥
 गरीब सोहं ऊपर और है विन बेली का कंद राम रसायन पी
 जिये अब चल अति आनंद १५ ॥ गरीब सोहं ऊपर और है

कोऊकज्यानेभेव गोपगुसाईगैद्युन जाकीकरसेसेव १६
 गरीबसुखलगेधरुमनसगे लगेनिरतधुनध्यान-आरजु
 यनकीबंदगी ऐकपलकप्रदान १७ गरीबसुखलगेधरु
 रुमनलगे लगेनिरततिसठोर संकचकस्यामिहरकर
 अमरभईजवगौर १८ गरीबसुखलगेधरुमनसगे
 लगेनिरततिसमाह येकपलकतहासचरे कोटियापप्र
 घजाह १९ गरीबअवगतकीअवगतकथा अवगतहे
 सभध्याल अवगतसोअवगतमिले करजोरितवकाल २०
 गरीबअमरअनूपमआपहे श्रीरसकलसवर्षउ छुछम
 सेंछुछमसती एरनपदप्रचउ २१ गरीबअधमउधार
 नमगतहे अधमउधारनमान अधमउधारनसंतहे जि
 नकर्मिबलजाम २२ गरीबगजगनकाश्रीरभीलनीस्यो
 रीप्रेमसहेत केतेपमतउधारिया सतछरगावेनेत २३
 गरीबरामरसायनपीजिये यज्ञश्रीसरयदुदाव फिरपी
 छेपछिताहिगा ससाचलीहोभजाय २४ गरीबरामर
 सायनपीजिये शौचाहलचवाय सनमोवरहेसमन पी
 याप्रेमअघाय २५ कहतादासगरीबहे बादीजामयसा
 म नुमहोतिसीकीजिये भगतठिरंवरनाम २६ अथवे
 न्नीकाअगलित्यते गरीबसाहिबमेरीवेनती सनोगरी
 वनिवाज जलकीदूदमहसस्य्या भलाबनायासाज २७
 गरीबसाहिबमेरीवेनती सनियीअरजअवाज माद्रुपिद

करीमत्तं पुत्रपिताकुंलाज २ गरीबसाहिवमेरीवेनजी
 करजोरोंकरतार तनमनधनऊरवानजां दीजैमोहदीदा
 ३ गरीबपांचततकेमहलमें नौततकायेकश्रोत्र नौत
 तकेसैंअगमहे पारब्रह्मकीपौर ४ गरीबस्वरतनिरतमन
 पदनकूं करोइकतरयार द्वादसउलटसमोषले दिलअं
 दरदीदार ५ गरीबचारपदारथमहलमें स्वरतनिरतम-
 नपीन सिंभद्वाराएल्लहहीं जबद्रसैंचौदाभीन ६ गरी-
 बसीलसंतोषबिवेकबुध दयाधरमइकतार अकलअकी
 नइमानरष गहीवस्तुनिजसार ७ गरीबसाहिवनेरीसा
 हिबी कैसेंजानीजाय तिसरैनेसैंफिनहे नैनोरह्यासमा
 य ८ गरीबअनंतकोटब्रह्मांडका रचनहारजगदीस अं
 साबुद्धमरूपधर आनविराज्यासीस ९ गरीबसाहिवपु
 रुषकरीमत्तं अबगतअप्रमपार पलपलमाहेंबंदगी
 निरधारोंआधार १० गरीबदरदवंदइवेसत्तं दिलदाना
 महबूब अचलविसंभवसरह्यास्वरतमूरतबूब ११ ग
 रीबस्वासस्वरतकेमधहे न्याराकदेनहोय असासाखी
 भूतहे स्वरतनिरंतरजोय १२ गरीबस्वरतनिरतसैंजी
 नहै जगन्नाथजगदीस त्रिकुटीछाजैपुररहो हेईस
 नकाईस १३ गरीबकोटजगअसमेदकर येकपलकध
 रध्यान षटदमकेरीवंदगी नहींजगउतमान १४ ग
 रीबजितसेतीदमउचै स्वरततहांईलाय नाभीकुंड

लनादहै त्रिकुटीकमलसमाय १५ गरीबअठसठतीर
 यधमनात भटकप्रवासंसार बारहवानीब्रह्महै मार
 करोविषार १६ गरीबअठसठतीरयजार्इये मैसैबडामि
 लाय पथरपानीरजते कोईसाधुसतमिलजाय १७
 गरीबसनकादिकसेवनकरे सषदेवोसेसाध कोटअथक
 अरथहै सरतठिकानेएष १८ गरीबसाहिबतेरेसाहि
 बी कइकडूकतार पसकपसककीपीठमे एरणब्रह्म
 हमार १९ गरीबयेतेकताकहाहै ओहतासाहिबयेक
 जैसेरुटीआरसी इकडूकमेदेश २० गरीबकरीबेनती
 बदगी साहिबपुरुषसभान सखअसखोब्रनहैं कैसर
 आणहान २१ गरीबसाहिबतेरीसाहिबी सजजनप्रई
 मोह येतारूपजहानजग कैसैसिरज्पातोह २२ गरीब
 येकबीजयेकविंदहै येकमहलयेकवार चरनकमल
 कुरबानजां सिरजेरूपअपार २३ गरीबमोलाजलसेथ
 लको थलसेजलकरदेत साहिबतेरीसाहिबी स्पाम-
 कडूअकसेत २४ गरीबसाहिबमेरामिहरबान सति
 योअरनअवाज पंजाराधीसीसपर नर्महोहोततिरास
 गरीबमाद्रपिद्रप्रानतू साहिबससथआप रूमरूम
 धुनहोतहै सवदसिंधप्रगास २६ गरीबमीरोमापेमि
 हकर मैआयातकस्याम समरथतन्हूरेआसीरे बादीजा
 मगुलाम २७ गरीबतनमनधनजगदौसका रतीसमेर

निहर्दयाकरमुजदिया तनमनवारोप्रान २८ गरीब्य
 हमायाजगदीसकी अपनीकहेंगवार जमपुरथकेषांहिगे
 न्हिकबहेंविगार २९ गरीबरावनकैसंगनाचली लंक
 मभीछनदीन याहमायाअपनीनहीं सुनोंसतप्रबीन ३०
 गरीबकायाअपनीहेनही तोमायाकितसैहोय चरनक
 मलमेंध्यानरष इनदोनोंकोषोय ३१ गरीबयेतोजान
 अनीतहें कायामायाकाल इनदोनोंकैमधहे सोहंसव
 दरिसाल ३२ गरीबउंसोहंसारहे मूलकूलप्रवेस स्यो
 ब्रह्मादिकरतहें ध्यानधरतहैसेस ३३ गरीबमेंसम्वथके
 आसरे दमकदमककरतार गफलतमेरीदूरकर बडार
 हंड्रवार ३४ गरीबसुनोंपुरुषमेरीबीनती साहिबदी
 नदयाल पतनउधारनसाईया तुमहोनजरनिहाल ३५
 गरीबअबनासीकैआसरे अजरावरकीस्याम अरथध
 रमकाममोछिहेंहि सम्वथराजाराम ३६ गरीबसुम्वथ
 काश्रणालिया ताहिनचंपैकाल पारब्रह्मकाध्यानधर हो
 तनवंकाबाल ३७ गरीबनादुवननिरयुनजडी श्रैसात
 म्हरानाम तच्छकतीछापडतहै हरदमजपलेराम ३८
 गरीबआतमइंद्रीकारने मनभटकावैमोह जगन्नाथजग
 दीसगुर अनैआयातोह ३९ गरीबचरणकमलकेध्यान
 सें कोरविघनटलजांह राजाहोवैलोकका तोहपैहम
 छंह ४० गरीबहैमाछाहजापरपै प्रिथीनाथकहाय

पसपच्चीआदमसनास मुनषप्रषेताह ४१ गरीबदि
 वद्रीष्टीदेवादयाल सतगुरसतसजान त्रिलोकीकीव
 कू प्रषलेमप्रवान ४२ गरीबअगलेपिछ्छेजन्महं जा
 नतहेजगदीस रुंडमासस्यिकिगले पहररहेज्जूईस ४३
 गरीबकरनामईकरीमजप अलहअलषकाध्यान सत
 पुरषसुषसिधमे जपसमानेमान ४४ गरीबदमसदम
 क्लेसमजले ऊठतवेठअराध्य रिचकध्यानसमानसध
 सरनसकलसुराद ४५ गरीबअरधनामकूंजअज्या ग
 जग्राहभयेपार उमैमहूरतषटदस्लीप असातामउचार
 गरीबअनतकोटब्रह्मंडमे बटकबीअबिसतार सरतस
 रूपीपुरषहे मनमनधनसभवार ४६ गरीबसनसपेदा
 स्यामहे भूरभद्रवेराठ तिलप्रवानमेंपेठकर उतरोकी
 घटघाट ४७ गरीबरतनअमोलीरुलहे स्योसाहियके
 सीस जोरंगनाहींसिष्टमे देष्याविसवेषीस ४८ गरी
 बकोटध्यानअसनानकर कोटजोगवैराग कोटकुदुव
 अहतजगये इस्तनाअनराग ४९ गरीबरागरूपपरशु
 वीरहे छहधूपसेन्यार सषसरगपरसोमप्रे कैसेहो
 यदीदार ५० गरीबसतगुरअरथविधानदे हिरदेवेठ
 आप जदवाहपल्लैचीदनी पलमेदेहलघाय ५१ ग
 रीबसतगुरकेसदकेकरौ अनतकोटब्रह्माउ निरगुनना
 मनिरजना मेदतहेजमडड ५२ गरीबसतगुरकेसद

कैकरीं तनमनधनकरवान दिलकेअंदरदेहरा तहामि
 लेभगवान ५४ गरीबदिलकेअंदरदेहरा जादेवलमेंदे
 व हरदमसाहीभूतहै करोगासकीसेव ५५ गरीबज-
 लकामहलबनाईया धनसम्प्रथसाई कारीगीरकरवान
 जा कुछकीमतनाही ५६ गरीबकोटजतनकरराधिया
 जठराकेनाही अभावासकीवेनती सुनपुरषगुसाई ५७
 गरीबनेननाकसुषश्रवने लेसाजबनाया दस्तचरणधिं
 न्यामनी प्रहरनकाया ५८ गरीबकलीकलीकरजोडिया
 नाडीनिरदाना दससहंसकाबंधलाय नाभीअसथाना ५९
 गरीबतात्कंठरत्रिकुटी रसनासुषमांही दाड.बदंतब
 नाईया धनअलषगुसाई ६० गरीबपलकोंकेछ्जैवने
 महुंमहलमंडेरे जैजैजैजगदीसत्त धनसाहिवमेरे ६१
 गरीबगूदाहाडीरुद्रमें लेसिंधमिलाई उपरचामलपेटक
 र नषरूमबनाई ६२ गरीबतलवेयेडीआंगुली पीडीप्र
 वाना गोडेजांघबनाईया कादरकरवाना ६३ गरीबकम
 रकरेककरीमकू क्वाजोड.लगाई नसनाडीकाबंधदे घ
 हगाठबंधाई ६४ गरीबपेटपीठहरनकीये परमानंदरु
 मी भुजाषवेकुडुंणीवणी संम्रथघाणामी ६५ गरी
 बआंतउद्रमेंराषकरि क्वापड.दाकीन्हा एकडारदोदेह
 री अनजलकासीना ६६ गरीबअष्टकमलदलआरती.ह
 रदमहरहोई नाभकमलमेंप्राणानाथ राधेनिरमोही ६७

गरीबमायाकीभुरकीषडी मारगनहर्तीपावे दसइंशीलारे-
 लगी श्रवकीनछुटावे ६८ गरीबबडवानलकाहारहे ना
 मीकेनीधिं जेसतगुरभेदीमिले तहाधर्मव्रतसोधिं ६९ गरी
 बजठरप्रगमजाहूंकहे जोपुष्पासोधिं जलसेत्रिषामामि
 टे कोईभेदीपावे ७० गरीबतीनपेचहंकुंडलनी नभा
 केपासा जाकेसुषसेनीकसे जलभगनप्रकासा ७१ गरी
 बमलसूचकीकोथली दोन्यारीकीन्ही दमकादगडागग
 नकूं श्रीसाप्रवीनी ७२ गरीबमनमावामोमूरहे कप्याग
 कमाहीं बीषपुरेजनवसतहे सोपावेनाहीं ७३ गरीबपो
 थभारजाघादहे जाकेसगडोले तीनलोककूं पायगई सुष
 सेनहीयोसे ७४ गरीबबडीहस्तगमसपवनी स्वधुधधि
 सरधिं विंथाचेरीपूहरी नितमाववजधिं ७५ गरीबमहा-
 दास्त्रिकीमाठबधप्रगिधरदेवे तीनलोककेवितकूं निसख
 सरसेवे ७६ गरीबकामकीधरसिप्याजहो मधमोहमवासी
 लोभलप्रबहावटतहे जहंभारहमासी ७७ गरीबरागरे
 घरागीबडे नितगावेगीता हखसोगहाप्रवडे दोरहज
 नमीता ७८ गरीबबीषपुरेजनवेठकर बडुभाचनचावे
 लोकप्रगनेषाटकर बडदछपासावे ७९ गरीबध्याम-
 सिरप्राराध्या जेध्याबडुध्याधिं कृबधकलासीप्रारनी
 बिषप्यासाप्यावे ८० गरीबमनसामालनप्रायकर नित
 सेजबिछाधिं तहापुरेजनवेठकर नितभोगकरावे ८१ ग

रीवतीनलोककीमिदनी सभहाजरहोई मनरंगीकिरंगमें
रंग्यासभकोई ८२ गरीबआसनअसतलउठगये कुंछपि
उनप्राना फेरपुरंजनआनिकर घाल्याघमसाना ८३ गरी
बदुरमतदूतीऔरहे येकदारनमाया जैसेकांजीदूधमें घृत
घंडकराया ८४ गरीबद्वादसकोटकटकचखें कुंछगिन
तीनाहीं लालचनीचमकीबहे जिनफौजांमाहीं ८५ ग
रीबसंसासोगसरायमें सूतकदिनराती जीवतहीजूतीपरें
जमतोरेंछाती ८६ गरीबरहजनकोटअनंतहे कायागळ
माहीं ममतामायाबिसतरी त्रिगुनतनमाहीं ८७ गरीबबे
कोफौजपुरंजना कुंछपारनपावे मनराजाकेराजमें क्याभग
तकरावे ८८ गरीबमनकेमारेसुनिवहे नारदसेग्यानी सी
गीरिषपाराखरा कीन्देखधानी ८९ गरीबचळेपुरंजन
इंद्रपर करधाईधाई गोतमरिषकीदूसतरी संगकीन्ह
जाई ९० गरीबनारअहत्यासूरते सुरपतसेदेवा इंद्र
सहंसभगहोगये कुंछलष्यानभेवा ९१ गरीबदुरवासा
पकरेगये सुरपतकीनगरी नारउरबसीमोहिया मनमा
यासगरी ९२ गरीबजोजीतेसोत्तूजकहूं मनमायाषाये
र्योजोगीभागेफिरे लेमदनचुराये ९३ गरीबजाकैसंग
पुरंजनीमहमतीनारी उसूमछंद्रसंगलदीप कीन्देघर
बारी ९४ गरीबब्रह्माकाआषाडिग्या कुंछकहीनजा
ई जहांपुरंजनआनकर बडधूममचाई ९५ गरीबराजा

येकछंजना तिहूंलोकबडेरा सुरनरमुनजनसभडरे
 पकरेसमसेरा १६ गरीबतीनलोकतावतकीये कुच्छर-
 हीनवाकी अवलबसीवरियामहे चंदसूरजसाषी १७
 गरीबनीचोतारघरजनां धरआयेदेही श्रीहीराबनराणे
 भया मनमायायेही १८ गरीबहसूमानश्रीरामवत
 नसनीलकहावे अगदश्रीरसुग्रीवकू रनमाहमुदवि १९
 गरीबतीनलोकघाणीघसी मनमायाभाषी कसकेसवा
 नीरकू सिसपासनबाची २० गरीबरावणामहरासनघ
 ये हिरनाकसघाये संघाससेदरमसे कहीबोजनपम्ये
 गरीबसूरेसर्वतमंडलीक चकवेसभघाये चुनकटहोयक
 खुगसीये किन्हेभेदमपाये २१ गरीबडरेपुरेजनयेकसे जी
 जांएयाजाई निजममकाआरभकर सरतीस्पोसाई २२
 गरीबसीलसमोषबिबेकबुध स्मताजबअवि दयाधरमके
 चौतीरे गुरगपामसुनावे २३ गरीबसीलसंतोषबिबेकसे
 जाकेदरबाना कामक्रीधभायेअथे गच्छेद्विष्यासामां २४
 गरीबलोभमोहकारेपरे सेनासभभागी सतपुरकेपराताप
 से अखआतमजागी गरीबपुरखपुरेवपुरजनपाक्या ग
 छघेयाजाई निजमनकीफेजाधसी कायागछमाही २५
 गरीबअकनअकानइमानेरे मनसाभईधीरे अजवनासी
 धुनसगी जमकटेजतीरे २६ गरीबघाषीमनपिगसच
 छग प्रचामपरेषा कोटपरमकीदामनी यजतबहुमेघ

गरीबप्रानअपानसमानकर सुरतील्योलाह दहुब्रकोट
 खहाईया औरतहब्रषाई १० गरीबधूमबुधभानेसभे
 सोलहसुरधाई सतीसुरतीहंसनी सभषवह्याल्याई ११
 गरीबचख्याबिहंगमनादभर निरगुननिरबानी स्योसा
 हिवकेलिंगपर गिरगंगान्यानी १२ गरीबमानतलाई-
 मालवे त्रिवेनीतालं गंगाजमनासरस्वती जषछूटी
 दयालं १३ गरीबस्योसाहिवकेलिंगपर त्रिवेनीबूठे
 कलविषकुसमलकटगये सबबंधनछूटे १४ गरीबप
 रानंदनीदूजही दरवारहमारे अंब्रतकीभाठीजरे कल
 विषकुंजारे १५ गरीब्रह्मरंद्रकाघाटहै घटमटसेन्यार
 सुरतिहंसनीचळेगई लषएरबहारा १६ गरीबसतगु
 रमेरामहरमी कायाधरआया जिवमाटीकेमहसमे नि
 जब्रह्मलषाया १७ गरीबबाहरभीतरयेकहै पलजोड
 प्राणी हिरदेहीमेंदेखले वाहअगमनिसानी १८ गरीब
 सनसलहलापेथहै पदपारषलीजै जटाकुंडलीजाईये
 अम्रतरसणीजै १९ गरीबजटाकुंडलीपरबसे सतपुरष
 बनानी जहांसुम्रथकातछतहै धुनअनहदबानी २०
 गरीबजहांबहांरहनकबीरकी निजमंदरमहली चळे
 सहीगिरगिरपरे ओहपंथसलहली २१ गरीबपेडीपंथ
 नपगधरन कैसेकरजाऊं मित्यारहेऔरनामिते कहां
 सुरतलगाऊं २२ गरीबकुंचीभूमअकासमठ जहांजाय

नकोई सुरतनिरतसेबगमहे धुनध्यानसमेई २३ गरीब
 वदरसप्रसवेवसुधजा फरकेदिनराती जीतअवडतज
 गमगे दीपकबिनवाती २४ गरीबनभसेन्याराचरहे
 कीमेसेंजीना सानध्यानकीगमनहीं परधेपरबीमा २५
 गरीबसषकलपसुगहोगये जोटेरेनदाया घडवान्देधेन
 हीं हेअधरअधारा २६ गरीबभगलिकरीनाहीडरे बहुक
 पबनावे देरागरकीवानहूं धमधिरतीपावे २७ गरीब
 पधरमेंहीराचले धमधीरतिजाने साधलोगपासेवडे
 दसतपाषाणे २८ गरीबसातअवरणाबिधहे जोपावे
 हीरा कायमेंसेउडचले पसकोकेतीरा २९ गरीबउडग
 नहीरागहलीया सुरतीघरअन्यो सेतधजादेवसधिमें
 जहांकोरनिसाना ३० गरीबकमलरूपकरतारहे नेकी
 केमाहीं सातोकमसशरीरमें श्रीहन्यारसाई ३१ गरीब
 जागतसोवतहेनहीं कुच्छायनपावेचिराजवीवकियम
 नी जोबहुजुगर्जीवे ३२ गरीबकालकर्मआगेघडे स्वा
 वेजिसलागे भगलीभगलउचारहे विद्याअनरगी ३३ ग
 रीबकालकरमआगेघडे नितनाचकराहीं भगलीभावेसे
 करे जाकीगमनाहीं ३४ गरीबपलकबीवंपेमासके स
 षषंडब्रह्मडा अजबनवेलीमेवनी छिनमेंप्रचडा ३५
 गरीबअह्लाविसनमहेससे रुपेदिमराती निरदावेसोईम
 पे जिसकालनघाती ३६ गरीबअनहठकेटब्रह्मंडका च

खनकारलेई महाकालकीजाडमें आवेसभकोई २० ग
 रीबकालडैकरतारसैं करबंधनजोड़ी संषत्रसंबोचल
 मये स्योविस्तनकरोड़ी ३८ अकालप्रखसाहिबधनी
 अबगतअवनासी गरीबदासशरनेलाया काटोजमफां
 सी ३९ ॥ अथकुसंगतकायोगलियते ॥ गरीबकम
 लरुलमनभवरहै कांटाकर्मकुसंग पांचविषैस्पूबंधरहा
 कैसेलागेरंग १ गरीबकायासरवरमीनसन दसोदिशा
 कुंजाय विषैलहरदिलदेहमें भगतनरिंचसुहाय २ गरी
 बकुटलवासनाकमलमें पावतनहींसुराद सुरजीवामन
 कुंको जहांनष्टअगमअगाध ३ गरीबसुरहीबंधीचमार
 के ब्रह्मनबोईभाग चंदनघरकैलेपीये कुंदनबदलेरंग
 गरीबकर्मकटारीबंधकै करैभारथीजंग अपनेसिरलेवे
 नहीं प्राचितसौपैगंग ६ गरीबविनत्यारनीवकसदे हम
 रेप्राचितकाट पारब्रह्मसैश्रीलेके प्रमीन्हावेघाट ६ गरी
 बबगुलाहंसायेकसर येकैरूपरिभाल वौहसरवरमोती
 चुंगे वौहमछीकाकाल ७ गरीबसीपपीवनहेस्वांतकूं
 वचहैषारीनीर माहेमोतीनीपजे करनीबंधसरीर ८ ग
 रीबनघरुद्राविकतनहीं सारलीजैसोध हीरापत्यरसै
 वसै धमघरतीलेहबोद ९ गरीबकदलीमाहकररहे ग
 जमोतीअंदरून चुमकचिड़ीयाचूचभर पैठेगजनाष्ट १०
 गरीबयोतोसजसंगवजकहा कुसंगकहूंभैभीत स्वांतपडे

जीवरपसुष रुतियाजहरघनीत गरीबभूमपडेजैसाफ
 ले सरकोसगतकीन नीचनसुषनहिदेवना नाकोईमि
 नेहुसीन १२ गरीबलोहेचमकप्रीतडी दोन्येजडजग
 दीस चेतनचेतनतामिले ल्हीसमिलताहेल्हीस १३ ग-
 रीबदूमीबसवअंत्रा लोहेपारसबीच चारजुमनमेला
 नही रहतेनिकटमजीक १४ गरीबश्रीजीबमजानदे स
 हियकेदरवार समजगतहीअज्ञानसुध लगेरहेकमल
 गार १५ गरीबकनधमभारीसगे मनसाचचलघाव सु
 धवेधेतहीसरतअम महसनलगेरगाव १६ गरीबयि
 सुलघाटीमासुषी हृदफनशगीकसीस येहीनोंप्रसिद्धहे
 खालजमकेसीस १७ गरीबकीनकुसंगतनाँझ्या अडा
 पडदायोल्ह योहतनतालबहुदिया माहेरतनअमोल १८
 गरीबगदहमिसरीप्याईये जाकायोहीकाल मायीघृत-
 न्हावाईये प्रसतहीपेमास १९ गरीबज्वासाजलरोगहे
 उभसकयरघंत ओलाअगनयेकअ संसारीविचसन २०
 गरीबलोगनालपरपानपद विचमुनकादाव माहेअर
 उजोअगमे न्यारान्यारावाक २१ गरीबअठसठतीरथमे
 मिली देयोगगज्ञान न्यारीधाराचलतेहे गगासागरजा
 न २२ गरीबसनप्रसगतसारहे सकसकुसगसमजी
 व पानीमिनिकसेनहीं अनेकजतनकरधीव २३ गरीब
 परमानंदसेविच्छुडजा योहमनहंसाकाग सुकतनहीं

पुरबिना कहाँछापेलेदाग २४ गरीबकमलीकेर
 चके कोलानहींसफेद सतपुरबिनसीजैनहीं
 संपकृतहैंवेद २५ गरीबकोडीबदलेजातहे योह
 निकनपहंस पांचौसेतीबंधरह्या जुगजुगहोतवि
 स २६ गरीबपांचपचीसकुसंगनी सनसषरनहीं
 रह सतपुरस्योमेलानहीं पैंचौरासीजांह २७ गरी
 सतपुरसरतनगरसें आयेहैंवडकाज कऊवाक
 जानेनहीं हंसाचकेजहाज २८ गरीबकस्तूरीकी
 मसना मिर्गालेतसवास निर्धपरषआवेनहीं बोहर
 छोरैघास २९ गरीबकस्तूरीमहकेतहे सहिवहैसं
 हह नौकाचकेननामकी अथेडूबतकूंह ३०
 अधसंगतको संगतलियापते गरीबसंगतकीजे साध
 की संसारीभटकंत पिंजरसूबाबसतहे किसकूंबुजे
 पंथ १ गरीबसतपुरकीसंगतभली हंसाथीरसुकाम
 जुगनजुगनकेबीछरे परसेलोकनिदान २ गरीबस
 धोंकीसंगतकरे बडभागीबडदेव आपनतोंसंसानहीं
 औरउतारैवेव ३ गरीबसंगतसरकीकीजये असर
 नआवेओस बुधभिष्टीसूंसंगक्या उलटादेहीदोस
 गरीबसंगतसरकीकीजिये असरनसूंक्याहेन डालमूल
 पावेनहीं जूंमूलीकावेत ४ गरीबसंगतसरकीजोरहे
 असरोकीहैगंध सरहैंखसालोकके असरमलीनेजि

६ गरीबसेगतभईतो क्वाहुआ हिरदेनहीबिबेक
 चलनीकदाछानही कूकसराध्यादेव ७ गरीबसत्ता
 सतगुरकहतहे पिंजरेपरेमान धिड़कीपुल्हेउड़गय
 मंडलग्यानकान ८ गरीबअतरहेतनभीतपद स्तंवे
 जूंसंसार पिंजरवालीतासका उड़गयाबिनोमजर ९
 गरीबसतगुरदतदाताकहे बानीवड़ीबिलद मुषषे
 सेक्याहोतहे अतरहेतनअंध १० गरीबसवटाधाली
 रहगया पारपहुंचानाह एमएममानीकहे जमकी
 नगरीआह ११ गरीबसवटापठेसभानगत अतर
 नहींउचार कुजकरलचंडपोषहे कोससहसहजार
 गरीबकरलहरहेतनप अललपंषेनार हिरदासप
 सरीरषकछवद्रष्टनिहार १२ गरीबअसीसंगतजो-
 मिले तोसाईसेभेट ऊपरलीघरबादहे जममारेगाफे
 ट १३ गरीबकजीकछबअललकू किमसमजायाता
 न आडापडदाहेनहीं हिदेअंतरध्यान १४ गरीबवि
 नधिलेगऊध्यातहे धरमजाडीपसत्याग गोरषकूस
 पनापड़ी कछदेससनराग १५ गरीबअसीसगतजो
 मिले भगतगरवप्रह्लाद नारदसेसतगुरमिले तो
 सूजेअगमअगाध १६ गरीबसवदेयबहुगेसरे धूंक
 ध्यानअमान स्थायवस्तकेबहगये पंचदसपरवान १७
 गरीबजैसेमीनसमुद्रमें दसोंदिसाहंजय हिदेकमल

१ कर जोषीजैसोपाय २१ गरीबजूंकुंजरसिरधु-
 है अगलाजनमसूजंत अबकैहेलेनरकरे तोसे
 रसेत २० गरीबराजदवारेजायकर रापतरोवे
 २ पगजंजीरनडारिये नौकजलीवनहुंजाह २१
 ३ बसीसमहावतवसतहे अंकुसमोड़समोड़ वच
 फिरतहेपलकमें साईनाहीलोड़ २२ गरीबअैसा
 फजफ़ीलहे रापतगिइंदगियान राजदवारेबंधि-
 ४ बिनसारिकैध्यान २३ गरीबचक्रेफुहाराअरसकूं
 हुंचीषिलसुघट बिनबेलैजलसरगकूं भगलविद्या
 हेनट २४ गरीबसुनससुंद्रजेमनरहे नौनहींभ्रमेपा
 न अरसकुरससैभिंनहे देखैअकलअमान २५ गरी
 बसुनसरोवरसिषरअ सुभनालमताल मनसुरजी
 वाछोडिये ल्यावैहीरेलाल २६ गरीबसुनसरोवरसै
 लकर गगनउडालासन अगमभूमभूलैनहीं ल्यावैरा
 मरतंन २७ गरीबसुनसावरसंगतकरे भूलैषोजनपं
 थ फेरउलढहटहेनहीं रापतजेहादंत २८ गरीबस
 तीप्रकारैसलचक्री सुषबोलतहेराम कौतकदेषन-
 सीगये जिनकैतोसहकाम २९ गरीबसतीजलेअरस
 लजले कौतकदेषतहार धामजहांकातहांहे मेलै
 रूपसंसार ३० गरीबसतीबहुउपजैनहीं धरजा
 नैकीप्रीत सतीकहतहेरामराम कौतकगावैगीत ३१

(३४)

रत्नसागर

गरीबजनमपुरवलासूजही अरहेबारमबार
समाउरबसे तनहेकरहेबार ३२

जरनकी कामसबधघटबीस

जेसैसाममतीज ३३

मोसुरगापुरवास मनइच्छाफलपावही

निवास ३४ गरीबनारीपुरुषप्रेमसे

नवेकरोरदिववरसग पुरबतमनकीवास ३५

बकरनीभरमीभुगतकर पेठतहेमृतलीक

तभावेनहीं सभसंगतमेदोष ३६

कुंवहे पाचोरडीसाथ नहीइच्छादीदारकी भूले

दम्रनाद ३७ गरीबसावधमरकुंजेलकर

वादीजोगीहटकर चिनघीवरधोरत ३८ गरीबबादीजे

गीवंधरहा मनइच्छावउराज अतबेरयोमारिमे

तीतरपरबाज ३९ गरीबतनमीबबईहोगया

गईनबाम सरगपीहचदोजिगगये सतपुरलगेनका

न ४० गरीबतनकीनमोसावही मनसाजलेमसास

राजपायननरकैपरे वपीपोटजुवाल ४१ गरीबपनी

श्रीमनछठा फिरताडामाडोल सपतपुरीकराजमज

लगेतपसीजोल ४२ गरीबतपसेंधीरनहोतहे कीहम

रग्याराज साहिवकीनहीबदगी साज्ज्याजूटसाज ४३

गरीबतपनारीतनमेसगी परगन्योकीनकसीस माहि

वकीनहीं बंदगी सतगुरनावकसीस ४४ गरीबमनद
 च्छानिसत्कहे राजकरनमनलोभ बहुविधघटमेंका
 मना ज्युं बिरछापरिगोभ ४५ गरीबसंगतकुसंगतअं
 तरा इकसाईंमतजान जोसोवतहैसेजपर धरियेअं
 तमसान ४६ गरीबपारषप्रेमनआवतही नाकहीं
 हाटजुषंत सोदाजदहीहोतहै जबमेंसतगुरसंत
 गरीबजैसेमातागरवकूं राषेजतनबनाय ठेसलगेतो
 छीनहै अैसेभगतदुराय ४७ गरीबदमसुमारआधा
 रष पलकोंमधिवीन संतोंकीसंगतकरे समजबूज-
 गुरज्ञान ४८ गरीबइलापिंगलासोधकर चखगिरव
 रकेलास दोदलकीघाटीजहां भगलविधाहैदास ४९
 गरीबब्रह्मरिंद्रकेद्वारकूं षोल्हनहैकोईयेक द्वारेसे-
 फिरजानहैं अैसेबहुतअनेक ५० गरीबसंषभगल
 छलहोतहै नयहैप्रलेपार संगतसतगुरकीकरे जद
 पावेदीदार ५१ गरीबसंसारिखोंसाषक्या धूमरव
 रषादेश बौवैदीजनघेतहित तौक्याकाथैमेव ५२
 गरीबनावरतेनिरगुनकला मानसनहींमुरार ज्युंया
 रसलोहालगै कटहैकरमलगार ५३
 अथवेरागनामहेत्यागनामहेत्यागनामहेत्यागना
 महेत्यागका पांचपचीसोमाह जबलगसंसाअपहै
 तबलगत्यागीनाह गरीबवेरागनामहेत्यागका फं

चपचीसोसग ऊपरकीकवलीतजी अतरविधेभवा
 गरीबअसनवसनसभतजगये तजगयेगामगरेह
 संसासलहे डुरलभतजनायेह ३ गरीबबाजकु
 नज्ञानकी गगनगरजगरजन छूटेसमअकासते
 साअपभछत ४ गरीबनितहीजामिनिसमरे ससेम
 सरीर जिनकाससामिटगया सोपीरनसीरपीर ५
 गरीबज्ञानध्यामदोसारहे नजिततअनूप चौथेमन
 साम्यारहे सोभूपनसिरभूप ६ गरीबकासीकरवतसे
 तहे आनकटाविसीस बनवनभटकाघातहे पावत
 नाजगदीस ७ गरीबसतातोससारहे मनपरधीभेव
 मरकबहोहेकुम्हारके सन्यासीश्रीरसिध ८ गरीबम
 नकीजीनीनातजी दिसहीमाहदलाल हरदमसोदाक
 रतहे करमकुसगतकाल ९ गरीबमनसेतीयोटीव
 मनसेसमरनकीन मालाकेरेक्याहुआ दूरकुटनवेदीन
 गरीबतनमनयेकश्रीजूदकर सरतनिरतत्योलाम वे
 डापारससुद्रहोय जेम्पेकपसकबदराय १० गरीबदि
 सटपरेसोफहनाहे धरअवरकेसास किरतमवाजीजू
 ठहे सरतसमोबोस्वास ११ गरीबसरतस्वासकूयेक
 कर कुअकनारेसाय जाकानामवेरागहे पांचपचीसोपा
 य १२ गरीबपांचपचीसोभूनकर विरहअगनसनजार
 सोअवनासीबदाहे पैलेअधरअधार १५ गरीबत्रिकुटी

आगे जूलता बिनहीं बांसवरंत अजरअमरआनंदपद
 परवै सुरतनिरंत १३ गरीबयाहमहिमाकोसैंकहूं नैनों
 माहींनूर पलपलमेंदीदारहै सुरतसिंधभरहर १६
 गरीबजीतादरसेदासहूं पोहपरूपप्रवान बिनहींबेली
 गहवरे हैसोअकलअमान १७ गरीबअकलअभूमीआ
 दहै जाकेनाहींअंत दिलहीअंदरदेवहै निरमलनिरगु
 नतंत १८ गरीबतनमनसेतीदूरहै माहेंमंजमिलाप
 तरवरछायाविरछमें हैसोआपेआप १९ गरीबनोतत
 केनौपांचहै पांचततकेआठ आठततकायेकहै गुरु
 लवाईबाट २० गरीबचारपदारथयेककर सुरतनिर
 तमनपोन असलफकीरीजोगयोह गगनमंडलहूंगौ
 न २१ गरीबपंछीघाल्याआल्हना तरवरछायादेश ग
 रभजनकेकारनै मनमेंकीयविवेक २२ गरीबजैसेपं
 छीबरनम्या संज्यालेविसराम परानसमेंउडजातहै
 सोकहीयेनिहकाम २३ जाकेनादनबिंदहै घटमठन
 हींसुकाम गरीबदाससेवनकरे आदअनादराम २४
 अथलेकाचंगलिल्यनि ॥ गरीबलेलागीत
 बजानीये जगसैरहेउदास नामरटेनिरभैकला हर
 दमहीराखास १ गरीबलेलागीतबजानीये जगसैरहे
 उदास नामरटेनिरहुंदहोय अनहदपुरमेंवास २ ग
 रीबलेलागीतबजानिये हरदमनामउचार येकैअनये

कैदिसा साईंकेदरबार ३ गरीबलिसागीतबजानीये
 रदमनामउचार येकेमनयेकैदिसा घडाहैदरबार
 गरीबलेसागीतबजानीये हरदमनामउचार धरि
 यगा मोहअलहदीवार ४ गरीबलिसागीतबजानीये
 रदमनामहनेज विकरपयपावेनही नीनीकेसमोज
 गरीबलिसागीतबजानीये हरदमनामहनेज भेमेर
 पटकदे सिरसेठारोबोज ५ गरीबलिसागीतबजानीये
 सेकीलगेठुकान सिलेरसोदाकरे छाडमहातममान
 गरीबलिसागीतबजानीये सेकीलगेठुकान बघतपे
 दाकरे कोठेडारेस्तान ६ गरीबमहगाससतादिवले से
 दाकरेबिचार इनैमोनेबोएने करहेसाहकार ७ गरी
 बमहगाससतादिवले सोदाकरेसमोय हूभेतीनेबोए
 ने करलेजाताकोय ८ गरीबरंजीसाहकारकी बम
 ससहार हजीमालगवारिया नाहकयहेबिगार ९ गरी
 बयेप्रपटनयेगली बोहरनदेधेआय सतपुरसेसीदाह
 आ भरलेमालअघाय १० गरीबयेप्रपटनयेगली बो
 हरनदेधेआये सतपुरसूसोदाहृषा लीजेमालसदाय
 गरीबयेसुक्तिनिजपीठहे येसकतेबैजार सतपुरसोयो
 दाभया भरलेवास्तदतार ११ गरीबरामनामनिजसा
 हे रामनामनिजमूल रामनामसोदाकरे रामनामन
 भूस १२ गरीबरसहुनिपमिआयकर इनचास्योहूबेय

कामक्रोधछोहचुहरा लोभलपटीयाअंध १७ गरीबमे
हमवासीपकरले ममताकासिरताज डुरमतदामनगी
रहोय निहचलनगरीराज १८ गरीबज्ञानजोगओरभ
गतलेह सीलसंतोषसमाध लैलागीतबजानीये छूटे
सकलउपाध १९ गरीबज्ञानजोगओरभगतलेह सील
संतोषविवेक लैलागीतबजानीये जबदिलआवियेक २
गरीबगगनगरजभाटीचवै हीराघंटिकसार लैलागीत
बजानीये उतरैनहींषुमार २१ गरीबगगनगरजभाटी
ऊरे चौषाफूलचवंत सिरकैसांटेपाईये कोईसाधूज
नपीवंत २२ गरीबगगनगरजघनबरषहीं बाजेंदी
रघनाद अमरापुरआसनकरे जिनकेमतेअगाध २३
गरीबगगनगरजघनबरषहीं बाजेअनहदत्तर लैला
गीतबजानीये सनसुषसदाहजूर २४ गगनगरज-
घनबरषहीं दामनिषिमैअघंड दासगरीबकवीरहैं
सकलदीपनोंघंड २५ ॥ अथसाचकाअंगलि
एवले ॥ गरीबसाचासतगुरजोमिलें तोहसापा-
वधीर ऊकजोलेजूनीमिटे सुरसदगहरगंभीर १
गरीबसाचेकूंतोसाचहै कूडेकूहैकूड बिलहोतकंग
लका गलमेंपहरेजूड गरीबसाचेकूंप्रनामहै ऊठे-
कैसिरडंड ठौरनहींतिहूँलोकमें भरमतहैनीघंड ३
गरीबसाचेकासेवनकरों ऊठेकूँलेलूट साचशब्दसेयूँ

डरे ज्यूसानेकीमूढ गरीबसाचेकूसरदाकरो जूगळ
 लंकेमाहि तिरगुनअगनजलतहे जूढेवहवहजाह १
 गरीबसाचेकासुभरनकरो जूढेघोजेजाल साचासाहि
 आपहे जूढकपटसवकाल ६ गरीबसाचेकेचरनीलर
 जूढेकालूसीस साचसकलमैरहेगा जूढनबिसवेबीत
 गरीबसाचेकूसभसौपद्यो भगतबदगीनाम जूढकभ
 मारीये हमरेकोनिकाम ७ गरीबसाचेकूसुरगपुरी
 ठावोनगमाहि चदसूरकीआवलग दीजकनिकसैक
 ह ८ गरीबसाचेसंकररीजही ब्रह्माजेडिपीत बिसत
 करिपिरतपालहद सकलसतसमीत ९ गरीबसाहि
 बजिनकेउरवसे जूढकपटनहीअंग जिनकादासन
 नहे कहांपरबीफिरगग ११ गरीबसाचेसैसनमूषा
 हो जूढेस्पीक्यामेह सषजुगनजुगपरेगी जूढकेमुष
 वेह १२ गरीबजूढासभसंसारहे साचाहेसोयेक पा
 रब्रह्मसतधरषपद समबस्रधाकीटेक १३ गरीबसा
 चेसाईसंभजन जूढेहेसभलोक मीडकमछीतडफडे
 ज्यूसीछेजलजोष १४ गरीबसाचेसदामसदपर उ
 सचगेदरवार जूढ्योकेजूतीपडे जमककरकीमार १५
 गरीबजूढेकपटीजीवसभ साचेसंतसजान त्रिधाचा
 छुटेनही जूढ्योनाकरकान १६ गरीबसाच्योकेसग
 चालीये जूढ्योसगनहींजाह रावनमिलताहिनहीं ब

भीछनकीबांह १७ गरीबभभीछनलंकादई रावण
 कटहेंमूड साचेसाधूमवरहै जूठेगोबरभूंड १८ गरी
 बजूठाकंसामारीये फिरनानोरचमार रूकमनहंवा
 हनगया सीसकड्यासीसपाल १९ गरीबबालसहंस
 रावाहसे माँरेछानीतोरा साचाजनप्रहलादहै जूठीज
 लगईहोर गरीबहिरनाकुसकेउदरकूं नषसैंगेस्यापार
 निरगुनसैसरगुनभये धरनरसिंघश्रीतार २० गरीबद्वै
 पतिचौरबधाइया पीतम्बरअटनाल दूसासनसेपचगये
 कैरोसांग्याज्वाल २१ गरीबदुर्योधनकीमेदनी होगईपं
 डबिहंड द्रोनागिरभीषमपिता बचननजरसिरडंड २२
 गरीबगजगराहउबारिया पसूंजूनकेसंत दानमेरछाडी
 नहीं करनतडायेदंत २३ गरीबमहाभारथकेजंगमें
 पांचउचारेपंड जुगनजुगनकीसंतनी घंटालेरषअंड २४
 गरीबसांच्योंकेसंगीतहै जूठ्योंसेतीदूर पनमेंसरकर
 नामई रहेसकलघटशर २५ गरीबबालनीकबालेसरी
 सरपचायननाद पंडोजगअसमेदमें येकैपायासाध २६
 गरीबभेंषोकेलसकरफिरें बानीचौरकठोर सतगुरधाम
 नप्रसही चौरासीकेखोर २७ गरीबपारंगतप्रचैनहीं
 बाणीकहैबनाय धरमरायदरगहसरे जूठालीतरसाय
 गरीबकपटीकूंभावेनहीं भगतसकतकीगीत जूठाले
 गरफीरतहें ताधोंदोहतसीत ३० गरीबउरमेंनहींत्र

कौनहे फूटलंगडासाट सावेचठेविवामपर फूटनेले
 ३१ गरीबसाचेसूरेसंतहे मरदानेऊंजार लावरो
 पेनहीं येकनामकीसार ३२ गरीबसतसुकरतसावे
 गी जाउरज्ञानविबेक साधरूपसाईमिले हरसा
 लेष ३३ गरीबसतसुकरतसंतोषसर आधीनी
 र दयाधरमजिसउरवसे सोसाईवीदार ३४ गरीब
 दश्रतमध्यसतहे रिचकफूठजिहान रूपटीमुगजुग
 रुपटहे लषधीरासीषान ३५ गरीबसाचेरुसकान
 हीं जूठेभेघरमाह कोटकिसैक्याविनतहे फूटजुटे
 नाह ३६ गरीबसाईविनकितदीरहे सांईविनकितब
 स साधमिलेगासाचमे जूठेजाहनिरास ३७ गरीब
 साधसकतनरहररचि फूटारच्याजिहान फूटसभस
 सारहे साचेसाभूजान ३८ गरीबसतसुकरतकीवर
 गी सतसुकरतकाजाप फूटादीजकवीजिये साचा
 पेआप ३९ गरीबसाहिबतेतीदीसती सर्तीसेतीप्यार
 जिनरुसंकाहेनहीं धरमरायदरवार ४० ०/०
 विचारकाश्रंगलिव्यते ॥ गरीबज्ञानविचार
 नउपने कामुषवोलैराम सैषबजाविबांवरई रतेन
 त्रिगुननाम १ गरीबज्ञानविचारविदेकबिन कूदम
 तोरेस्वांस कहांहोतहरनामसे जेदिसनादिसवास
 गरीबज्ञानविचारविदेकबिन कभीकतहेस्वान दसजो

जनजलमें रहे भीजतनापाषाण ३ गरीबज्ञानविचार
 विवेकविन कूरीकतषरगीध कहाँहोतहरनामसे
 जेमननाहींसीध ४ गरीबसमजविचारेबोलना सम
 जविचारेचाल समजविचारेजागना समजविचारेष्वा
 ल ५ गरीबकरैविचारसमजकर षोजबूजकावेल
 विनामथेनिकसेनहीं हेतिलअंदरतेल ६ गरीबजे
 सेतिलमेंतेलहै योंकायामधराम कोल्हूमेंडारेविना
 ततनहींसहकाम ७ गरीबविचारनामहै समजका
 समजनप्रीप्रष अकलवंदयेकैघना विनाअकल
 क्पालष ८ गरीबपारषकरैसपीरहे बोलैसमजवि
 चार नरसरूपनरहरधर्या अरसकलाकरतार ९
 गरीबविनाविचारेक्पालहै कसतूरीभटकंत विनबूजे
 नहींपाईये गामडगरमघपंथ १० गरीबज्ञानसफा
 केचोकमें जहांविचारविवेक कुटलाईजीवौहतहैं नि
 रमलअंगायेक ११ गरीबविनाविचारेभरमहै सुरप
 तसरिखाहोय गौतमरिषपुरवाबड़े जाकीपतनीजो
 य १२ गरीबविनाविचारेविचरता देरगौसखदेव
 सपनररीमेंगमनकर ऊंछेजनकबदेह १३ गरीब
 गौरषनाथसुनाथहै जंत्रमंत्रजोग सतपुरमिलेकवी
 रसे काटैदीरघरोग १४ गरीबगंदरपसेनगदहभ
 या पुत्रपितासराफ विनाविचारेपैठना सन्याउरव

सीलाय १५ गरीवडरवासाकृतपकिया चौरासीसहस्र
 प्रवान इंद्रलोकबंधगये भवरकुचीकृष्णान १६ गरी
 वजादोगयेविचारविन भरमेछपनकोड डुरवासास
 छलकिया लागीमोठीघोड, १७ गरीवडजेविजेथेपो
 लिया विसनपीलदरवान विनविचारराकसभये बड
 कलकहेमान १८ गरीवरावणाशिवकैतपकिया दी
 नेसीसचळाय दशमस्तकबीसोभुजा सोदीनेसोपा
 य १९ गरीवलंकराजरावणादीया घोस्याविनाविचा
 र पलकबीचपरलोभये लकाकेसिकदा २० गरीव
 सीतासतवतीसही रामचंद्रकीनार रवणादानेछलई
 विनहीसानविचार २१ गरीवामीनवचनसमजीनही
 मेटरामकीकार समुद्रसेतबंधबाधकार हशुवमल्लक
 सघार २२ गरीवपाराशरसेवनकरे कुरुलकलाघट
 माह घचीस्थीसंजमकिया ज्ञानविचारपानाह २३
 गरीवउद्दालककेनासकेन गयेकुलवनराय पिताव
 चनजबमेरिया मौजमनगरीजाय २४ गरीवनार
 दसुनिनिरगुणाकला ततवेतातिहलोक नरसेमीना
 रीभया योहहानाखडधोय २५ गरीवसुप्रबहत्रवा
 कल्ल नरसेनारीकौन्ह मामडिभहूड्यामही तत
 वेमामतहीन २६ गरीवधिगधमभेवहगये कीनान
 हीविचार विभुवननाथविश्वस्वर त्वातघातकरतार


गरीबबिनबिचारेतनक्याधरे कुटलाईपसमान नाही
 सरतशरीरकी नाघटकेसाज्ञान २५ गरीबगोपीलूट
 गईरुसकी अरजनसरिषेसंग लषसंधानीवानकर
 नीतेबड़ेबड़ेजंग २६ गरीबकाल्योगोपीलूटिया अ
 रजनचलेनवान होनीहोयसहोतेहे समऊबूजयोह
 तान २७ ~~अज्ञानकीअंगलित्ति~~ २८
 गरीबऐसीजरनाचाहिये ज्युंष्टयिवीततथीर वोदेसेक
 सकेनहीं ऐसाबजरसरीर १ गरीबऐसीजरनाचाहिये
 ज्युंअपतेजअक्षुष न्हावेधोदेषुकदे तामसनहींसरूप
 गरीबऐसीजरनाचाहिये पौनततपरदान कुटलबचन
 जोईरुहो मानेनहींअमान ३ गरीबऐसीजरनाचाहि
 ये ज्युंअगनिततमेंहोय जोकुछपरसोसभजरे बुरा
 नबाचिकोय ४ गरीबऐसीजरनाचाहिये ज्युंगगन
 ततगलतान बुराभलावाचैनहीं तामेंसकलसमान ५
 गरीबऐसीजरनाचाहिये ज्युंत्रवरकेतीर काटेचीरेकष्ट
 हूं तौवीमनहेधीर ६ गरीबबृहन्नदीओरसाधजन
 तिहूवायेकसुभाव जलन्हावेफलबृहद्वे साधलवा
 वेदाव ७ गरीबऐसीजरनाचाहिये ज्युंघनहरजल
 मेह सबहीऊपरदरषता नादिलदोषसनेह ८ ग
 रीबदीठीअनदीठीकरे जिनकीलूंमेदाद संगमेंकदे
 नीनं खेलांआदअनाद ९ गरीबदीठीअनदीठी

करे जिनकी स्मृतिदाद संगसंकदेनवीछरूं परम
 सनेहीसाथ १० गरीबदीठीअनदीठीकरे जिनकी स्मृति
 मेंदाव संगसंकदेनवीछरूं हरदमनामअराध ११
 गरीबदीठीअनदीठीकरे सबअपनेस्मिरसेह संगसंक
 देनवीछरूं जोमुजसरवसवेह १२ गरीबदीठीअन
 दीठीकरे जिनकेहूमेंसंग भगतपरात्मदेतहू चख
 मनवेसारांग १३ गरीबदीठीअनदीठीकरे जिनकेहू
 मेंसाथ भगतपरात्मदेतहू पीडालगेनगातर १४ ग
 रीबदीठीअनदीठीकरे जिनकेहूमेंतीर वजरहूदते
 रावहू पीडानहींशरीर १५ गरीबदीठीअनदीठीकरे
 सोसाधूपरवीन नामरतेनिरबंधहैं छाडेदोनर
 दीन १६ गरीबदीठीअनदीठीकरे सोसाधूसिरपो
 स जोवतिसोसिरधरे रेहनकाहूंदोस १७ गरीब
 दीठीकरेकहेरेतहैं जिनकेदिलनहींधीर जाकेसंग
 हमनारहैं सोकुटनबेपीर १८ गरीबजरनाजोगी
 जगतगुर जरनाहैजगदीस जरनाआपअलेषहै रा
 धीअपनेसीस १९ गरीबजरनाजोगीजगतगुर जर
 नाअलहअलेष जरनाकदेनडिगमरी जरनानिह
 चलदेष २० गरीबजरनाजोगीजगतगुर जरनाअ
 पकरीम जरनाहमरेउरवसें जमनहीचिपैसीम २१
 गरीबजरनाजोगीजगतगुर जरनाअलषअलाह ज

रत्नांकुंकरवानजो जरनावेपरवाह २२ गरीबजर
 नाजोगीजगतपुर जरनारसताराम जरनांकुंकरवा-
 नजा जरनाहेतिहकाम २३ गरीबजरनापुराब्रह्म
 हे जरनाकरनाआप जोकुच्छलेषसोसवजरे जरनाहे
 गरगाप २४ गरीबजरेसअधैनिरेजनकहिये जरेस्त
 लमेंदेव जरनाजोगीपुरसुखी जरनाअलषअभेव २५
 गरीबजरनाजोगीजुगजुगजीवे जरनाप्रलोजाय ज
 रनाजोगीजगतपुर पदमेंरहैसमाय २६ गरीबजर
 नाजोगीजुगजुगजीवे जरनापरलोहोय जरनाजोगी
 जगतपुर सब्दसमानासोय २७ गरीबकसनीकसे
 कहरज्यं करनीकरेकरार जरनाजोगीजगतपुर आप
 तिरेजगत्यार २८ गरीबसिंधसाधकायेकमत जीव
 तहीकंधाय यहुजगसुर दफरोसहै परदारेनहिंजा
 य २९ गरीबसिंधसाधकायेकमत भछनकरेविचा
 र योहजगसुरदफरोशहै नाजार्हीआनदवार ३०
 गरीबअेसीजरनाचाहिये ज्यंअललपंषकेअंग अंडा
 छुटैअकासतें बडुरमितैसतसंग ३१ गरीबअेसीज
 रनाचाहिये ज्यंअललपंषकेहोय सतसंगतस्यावतर
 ह्या विछरगयादिनदोय ३२ गरीबअेसीजरनाचा
 हिये ज्यंचंदनकेअंग सुषसैंकछनकहतहै ननकं
 षानभवंग ३३ गरीबअेसीजरनाचाहिये ज्यंपारसकें

होय लोहेसँसूनाकरि कहनसुनाविकोय ३४ गरी-
 बऔसीजरनाचाहिये अँएथीपतिइंद मोतीमुक्ताहो-
 तहे बूठेस्वानसमुंद ३५ गरीबजरनाखिनजोगीअफ-
 ल बसतमलागेहाय बिनजरनाक्यापाईये भाटव-
 केपरवात ३६-गरीबकथनीसँक्याहोतहे करनीकर-
 रनसूल करनीकरजरनाजरे लगेपानफसफूल ३७
 गरीबकथनीमिकथहेनहीं करनीभिरिगसाग करनी
 करजरनाजरे सोजोगीबडभाग ३८ गरीबअनंतको-
 टधुनहोतहे अनंतकोटजनकार येमीसुनजरनाज-
 रे सोजोगीकरसार ३९ गरीबअनंतकोटधुनहोत
 हे अनंतकोटिछुविरग येमीलयजरनाजरे सोसाधु
 पावविहग ४० गरीबअनंतकोटबामेवजे अनंत
 कोटरवीनेज येमीलयजरनाजरे सोसाधूपरसैसेज ४१
 गरीबसाहिवसँप्रचेभये पुनीयावीचअदीन येमीलय
 जरनाजरे सोसाधुप्रवीन ४२ गरीबसाहिवसँप्रचेभ-
 ये उसदरवारअदाद इदानप्रगटहोतहे परमसमेनी
 साथ ४३ गरीबकाळवाळप्रबधहे सतवादीनरस-
 र साहिवकेदरवारमें जिनसुघरहसीनूर ४४ गरी-
 बकाळवाळहोकसरहे सतवादीनरयेक साईजेर
 वारने रहेजिनोकीठेक ४५ गरीबजरनासाहिवसा-
 हे जरनासतगुरसाच जरगणंचोतगहे औसीजरना

काछ ४६ गरीबजरेसअबचलरहेगा जैसेपरलोसा
 ह जरनाजोगीनामरे आवागमननजाह ४७ गरीब
 जरेसनिरगुणानूरहे जरेसनिरगुनतत जरेससाहिब
 आपहे जरेससतभगवत ४८ गरीबज्ञानजोगकूं
 सबजरे जरेनामनिरधार अठसिद्धनौनिधकूंजरे आ
 पअधमउधार ४९ गरीबभगतसुकतकूंसबजरे ज
 रेजोगवैराग आपाठहरावेनहीं यदुमतहरनभाग ५
 गरीबदयाधरमकूंसबजरे जरेसीलसंतोष मनीकु-
 फरव्यापेनहीं मिलपदरहेअजोष ५१ गरीबसुधसें
 कहेससबजरे अवाणसुनैससोय मनकीधारनसबज
 रे सोजननिहचलहोय ५२ गरीबचारसुकतजरना-
 जरे भिहिषातवैकुंठविलास कायामायासबजरे सो
 साधूनिजदास ५३ गरीबप्रपटननगरीबसे भेदन-
 काहंदेत कीड़ीकुंजरपोषता अपना नामनलेत ५४
 गरीबप्रपटननगरीबसे निरधारआधार लषचौरासीपे
 षता औसीजरनासार ५५ गरीबचौरासीभानैघड़े वेलै-
 वेलअनंत जाकीजरनादेशकर जेकोईसाधैसंत ५६
 गरीबचौरासीभानैघड़े वेलैवेलअपार घानपानसबदे
 तहे औसासुमरथसार ५७ गरीबकहनसुनाविऔर-
 कूं जोकुलकरेसलीन जाकीजरनादेशकर संतभयेवे
 दीन ५८ गरीबपरचेकोटअनंतहे अजमतकोटअ-

गाह ३ न्हिचेऊपरनामदेवकू पाहनदूधपिलाया
 न्हैससीगर्मेसाहिवआये नामलपोचनपाया ४ न्हि
 चेहसिदेवसफेर्या सजोकूनपहारा नामदेवदरवाजे
 वैठ्या पेडितरूपछ्वारा ५ न्हिचेहसिंगऊजिवाइ
 न्हिचेबछाचूगेदेसादिसंप्रभगतीभाईहे फिरीकीनल्प
 धाभूगे ६ गोपीचंदभरथरीजोगी न्हिचेराजविराजी
 न्हिचाहोयतीनेडेनिपसे क्यारुडितक्याकाशी ७ न्हि
 चेसेऊसीसचखाया चोरीसंतसिधारे चनियाकूजहाप
 कडसियाहे करदेसीसउतारे ८ पितासमनधीरमा
 तानिकी जिनकेन्हिचाभारी अर्हाकबीरकमालफरीदा
 भोजनकीभईतयारी ९ सिऊकेधडपरसीसचखाया
 मीममेवनहींकोई हाजरमाजरमितेदिसभर भिसान्ही
 चाहोई १० तपियाकेभोजकतककीनालीदियाकेघर
 आये गाडीघाल्लियेपमर्मेसरन्हिचेहाथबधाये ११
 न्हिचेऊपरिवालदिआई धीरकेसोवनजारा नौसववो
 डीलबासदीनाकासीनगरमजारा १२ न्हिचेपडापाव
 चुजाया जगन्नाथकेमाहीं अटकालुटपरुपापावनपर
 अदह्यातमभाई १३
 सान्हिचाकहिये सतपुरसु  जिलेभाई
 थिररहिये १४ कासीम

काशीकेतोपंडितरूके मघदुरमरोनभाई वातोष्ट्वीस
 चीनाहीं त्रिसंघपस्याबिललाई १६ काशीतजमघहर
 कंचाले कियाकबीरपियाना चदरफूलविछेहीछाडे
 शब्देंशब्दसमाना १७ मघहरमेतोकब्रवनाई विज-
 लीषानपटाना काशीचौराउडगनभोंरा दोन्यूदीनदिवा
 ना १८ कनकजनेऊकंददिषाया हैरेदासरंगीला ध
 रेसातसेरूपतासकूं औसीअदबुदलीला १९ पीयातोद
 रियामेंकूदे औसान्हिचाकहिये मिलेबिसंभरनाथतास
 कूं जूठीभगततगहिये २० सेनाकेघरसाहिबअये
 करीहजामृतसेवा संतोंकीतोसरदाराषी पारब्रह्मनिज
 देवा २१ बिसीलाकीहुंडीजाली कागजसीसचखाया
 ध्योतीकातोव्याहभयाजद भातभरनकूंआया २२ त्रि
 लोचनकेभयाप्रितिया औसीभगतकमाई संतोंकेतोना-
 लफिरे औरतीनलोकडकराई २३ जीवनमूलविसंभर-
 साहिब आत्मदेवबिनानी जहांजहांभीरपरीसंताहूं
 छात्यांदूधरपानी २४ प्रहलादभगतहूंदईकसीटी चो
 रासीवरताया नरसिंघरूपधरेनाराया वंभफारकर
 आया २५ धूकाध्यानअमानअगोचर डिगेनडोलैभा
 ई सपतपुरीपरतारीलागी कोटकलपजुगजाई २६
 नारदपुंडरीकऔरव्यासा गोरवजनकवदेही द्वादश
 कोटबंधजिनतोरी भगतापरमसनेही २७ सुलता

नीबजीदफरीदा दतततगलताना जडुराजाहंन
 मदियाजद सर्वदेसबदसमाना २८ कहांबधानोके
 टनिननें राजापारंगकीन्हा अरुसअजीतउदीतअ-
 ध्यात्म गोरषसेप्रबीना, २९ वासिष्ठविश्वामित्रमते
 मनमायाजिनजीते कागसुसुडंडेडनहींजाके अरुवग
 तअनंदचीते ३० रोमीरिषश्रीरमास्कउरूं ध्यान
 सगायापक्षमें अविनासीसैअरसअसहि ध्यानसअअ
 नहदमे ३१ मोरधजतामरेधुजराजा अमरीकअतुरा
 गी हरीचंदपदहाजरनजर मनसिमायाअपागी ३२
 द्रोपतसताकेचीरखळाये पीतंवरपहराना अनंतभये
 कछुवारनपारा दूसासनहेराना, ३३ साधीगरीबपडे
 जगअश्वमेदमे सपचबजायासष द्रोपतिकेदिसमेंर-
 थी काळीमनकीवंक ३४ गरीबन्हिचेऊपरनामरुप
 कहांज्ञानकहाध्यान न्हिचेवेतनिपाईया काकरबोई
 जान ३५ गरीबकामसबधपाषडरच्या धरेविश्वभर
 रूप अिसान्हिचाचाहिये मारेराजाभूय ३६ गरीब
 सीलसेतोषधिवेकबुध दयाधरमइकतार विनन्हिचे
 पावेनहीं साहिबकादीदार ३७ गरीबसमवेनिसा
 चिकहे दिममेपरेनवाक असकीछोरसेतहोय अरु
 लअकीनेजाक ३८ गरीबन्हिचेयोकरसगूजरी बीन
 हिवेडेपार पठितकेदिलडईथी गुरुवारहगयेवार १

गरीबजूमीरांगठोरुक्कं राधीनहीउधार पकरपालो
 हाजानका कौट्योकटकसिंधार २० गरीबमीराहाथ
 सुतारथा पदगदैर्योलाय पथरलीथीप्रितमा जा-
 मैगईसमाय ४१ गरीबभवनतेगथीकाटकी जैसेंचम
 काबीज ओटनहाराकोनहीं अबगतअलषअच्छीज
 गरीबभवनगसनगगनूंकीयाघोरिसुधागुलाम स्त्र
 मिसरीसाहिबमिले बरछीलोहलमाम ४२ गरीबद
 रनजाचेआनकर संगतकीयाजुहार मोकूंपारसदी-
 जीये दालइवेडार ४४ गरीबतुकाहरनवसतमें
 सोचपरीबडभीर धरतीकूंषोदनलग्या भेटीजनकी
 पीर ४५ गरीबपारसठहक्याआनकर लगीतीरकी
 माल प्रसतहीसोनाभया कीन्हाकाबनिहाल ४६
 गरीबअैसान्हिचाचाहिये पारसहरनहाथ जोरंगेसो
 ईरंगे सांईजेहीदात ४७ गरीबगगनमंडलडुंनिब्र
 विया तीनवेरततसार सीतालछमनरामकी मध
 सूरतकरतार ४८ गरीबसोमूर्तकूंनाएजहीं पथ
 रडेलाडार सीतालछमनरामके लीजेचरनजुहार ४९
 गरीबग्यारहरुद्रोंपरतपै द्वादशमधमिलाप छ्छमसू
 रतमेंरते ब्रह्मशब्दगरगाय ५० गरीबकोडिधजाकि
 सकामका स्त्रमसकलहैचाल असीगंजबांटेनहीं प
 स्यातासपरज्वाल ५१ गरीबदिलदानीहैतासका सदा

ब्रतमनमाह पृथ्वीपारसहोःही दुनिद्वयीजिसकाह ५
 गरीवसूरगऊकृपातहै बिसमलकरेहमेस दहूदीनदो
 जगये जमरूपकरेकेस ५३ गरीवकदीकवचसाबही जी
 वजोनप्रजाय नैनधेनसौमिसीरह्या छातीप्रदेपाय ५
 गरीवयोहनीकाफरकर्महे धरमनहींयोहपाप दोहीन
 बीरसूलकी हूवेगेगरगाप ५५ गरीवजीवहिंस्वजेक
 रतहै याआगेक्यापाप कंटकजूनिजहाममें भेड्यासिं
 षधरसाप ५६ गरीवआत्मप्रानउधारहीं धेसाधरमन
 श्रीर कोटजगध्रश्चमेधफल शब्दसमानाभीर ५७ ॥
अथसाधमहिमाकाश्रंगलिव्यते ॥
 गुरीवधनजननीधनभूमिधन धननगरीधनदेस ध-
 नकरनीधनकुलधन जहासाधूप्रवेस १ गरीवजाउद
 रसाधूवसे सोउदरहेपाष सबकादिकसेउपजहीं स
 षदेवैसेसाष २ गरीवगंधाश्रुतागरदमिल पर्यावि
 रच्छकैषोळ संकरततसुमार्द्रया पारबमीगईपोळ ३
 गरीवधनसंकरधनगौर्या धनस्रषदेधनव्यास धन
 जननीस्रषदेवकी हादशावरषविलास ४ गरीवजहा
 साधूजनउतरे महाभगतकाभेव गोरषउपजेग्यानसे
 भभूतदईमहादेव ५ गरीवसुईयाअनसुईयामिसै
 तीन्हीदेवाध्यान शब्दसरूपीऊतरे दत्तात्रेपरवान ६
 गरीवसंतसरसरीचलतहै मासूदेसबहंन खागडम

प्रविलासहोय नदीसुरसरीसंत ७ गरीबसाधनदीदी
 प्रगमनघ इनसमतुलनहींऔर साधभगतकेवर्भहैं न
 दियां विरच्छामौर ८ गरीबसाईसरिषेसंतहैं यामेसीन
 तमेघ परदाअंगअनादेहे बाहरभीतरयेक ९ गरीब-
 साईसरिषेदेघले परतावेजेकोय सपतकोसजलचखग
 या जहांसाधूसुषधोय १० गरीबसकलमेदनीमरगई
 सबदनरुठाफेर सपतकोसक्याबातहे डूबेमेरसुमेर ११
 गरीबअैसेसाधूसंतजन पारब्रह्मकीजात सदारतेहरना
 वसें अंतरनाहींघात १२ गरीबसाधअगाधअपारजन
 परमानंदसेप्रीत कहवतकेतोसंतहे अबगतअलषअती
 त १३ गरीबसाधसगेहैंजगतमें संतसगाईसाच साधू
 खूंखननीकलं बौहविधकाछूकाछू १४ गरीबसाधस
 सुंदरगगनगत सुनसुमानेसोय परमानंदकेपरमहंस
 येककहूंअकदोय १५ गरीबसाधससुंदरलालनघ सं
 तहीस्वौकीषान सतगुरवेदीबांचहीं सुनतेहीपरवान
 गरीबसहिमाकीजेसंतकी तनमनधनसभदेह सिरमा
 गेटालानहीं मोरधजलषलेह १६ गरीबसंतसलहली
 सेजके जिनमेंकेसीभिंन साहिबसाईऊतरे नामधर्या
 याजंन १७ गरीबसंतसहलीसेजके जिनकेकेसीभिंन
 साहिबप्रगटसंतहे जिनकायेकेसन १८ गरीबमोड
 अमोडंसगतहे हदवेहदमेसैल साहिबसाधूपावहे उम

जीवाजीमिल २० गरीबमैलमुलकसवधारेहे विन
 तांईकेनाह दुनियाअसगविजोगहे साधूताहिवम
 ह २१ गरीबमालमुलकसभधारेहे पाषपरमशरतंत
 जिनसेसाहिवनिकटहे जिनमेकेताअंत २२ गरी
 बजिनमेंनाहींअंतरा असप्रसपरवान साहिवता
 धूयेकहे दुनियादूजीजान २३ गरीबसंतसमाना
 संसर्मे दुनियाहेसोन्या जिनमेदूजीभिन्नक्या राते
 सिरजनहार २४ गरीबसाधसुंदरकमलगज मा
 हेसाईगध जिनमेदूजीभिन्नक्या सोत्तधूनिरबंध
 गरीबकमलनडूवेजलचढे माहेमधकरवास जेहे
 वेदकमोदनी चूतांईनिजदास २६ गरीबनेनेजेजो
 जलचढे कमलमभजिगम माहेज्ञानसंगेधत्तर
 दअंसकासाय २७ गरीबनेनेजेजोअलचढे हूंदनला
 गेपान ऐसेसाधूअगमगत संसारीपरवान, २८ गरी
 बकमलपत्रकीवासना जांकाकवनसरूप महकेगंध
 पारगत स्रधतदडेवडेभूप २९ गरीबभूपसतसाधुक
 हे जगनभगनकेराव सपतघरीनहीवासना जिनकेभ
 गतपसाव ३० गरीबमनमधकरकापाकेदडा महकत
 गेधअजोष हूंदहाथगळअगमहे रचरावेसभलोक
 गरीबस्वरगसलेमावाहे विदिनीकेघाट आगीअगमअ
 गाधगत अवरन्हुष्टीआठ ३१ गरीबसंतसरोबरहसं

भङ्गनकौबिचार पौसपवासनाज्यूरहैं राईरिचनभा
 ३३ गरीबश्रद्धेहबैलेदाउदेह पड़ेबेलसमूल औसे
 भेषविटंङगत बहुवनजोगेमूल ३४ गरीबसाधकमल
 मधवासना औसाहलकाञ्चंग मैलमनोरथनारहैं नि
 रमलधारागंग ३५ गरीबसाधसंगतहरिमगतविन
 कोईनपावैपार निरमलआदअनादहै गंदासभसंसार
 गरीबसाधसाधसभकोकहै साधुसुमतसैजान कुमत
 कसादेजीवहैं जैसेजलपावान ३७ गरीबज्युंजलमेंपा
 षानहै भीजतलाहीञ्चंग चषमबलागेअगनहै कहां
 करेसतसंग ३८ गरीबगिरवरजौड़बड़ेरहैं मायाके
 धनवंत रावनकेज्युंलूटिये जहांपाहुनडेनहींसंत
 गरीबजहांपाहुनडेसाधजन हभिवंदजेहांसंत स्तोनग
 रीसूबरबसै सतगुरजिनौअरथ ४० गरीबजहांमहिमा
 हैसाधकी चरनकमलसैहेत जुगनजुगनउरमेंरहूं धूं
 प्रहलादसंकेत ४१ गरीबसाधसुरनकेगेनमे बसैहजू
 रअमान जाषरनिद्यासाधकी सोघरडूबेजान ४२ गरी
 बलषल्लच्छिद्रमेकरूं अपनेसंतोंकाज हिरनाकुसज्युं
 मारहूं नरसिंधधरहूंसाज ४३ गरीबस्तरगपतालोंस
 कलमें हैअनरागीराम नरसिंधहीबकरऊतरे प्रहला
 दभगतकेकाम ४४ गरीबजहांजनकीमहिमासनों त
 होंमेंगमनकरंत वेतौनगरअमानहै जहांमेरेप्यारेसंत

गरीबसाधसाधसभकोकहे साधससुदरोमीर अबगत
 कीगतकीलैषे मिलगयेमीरकबीर ४६ गरीबनीरकबी
 रनिरजमं अजनधरेसदेव अजनमजनमाजीये जबही
 वैप्रवेह ४७ गरीबसाधकहावनकठनहे मघपरिधरे
 नपाव सोहगीसगतहेनहीं चढोनामकीनाव ४८
 गरीबसाधकहायाजगतमे प्रचेपडेनपिराम जगसेम्भ
 नदहोयगी मिलिअलघनिरवान ४९ गरीबसबदमिस
 वाअगरस प्रसमहेदीदार रूमरूमतारीसगे जिलमि
 सकिरनअपार ५०- गरीबबरेषेकिरनअबरमगत रिम
 फिमरिमछिमरंग जोदेषेसोईकहे असपरसप्रसंग ५१
 गरीबसेनसकलकेसुकटहे सार्वसाधसमान बडभाम
 वेहंसहे जहांसमोनालपिछान ५२- **सेऊसमन**
का इतिहास ॥ गरीबसमनकेसतगुरगये संग
 फरीदकमाल सतटीहनकूठनरे होसतगुरअबद्याल ।
 गरीबसमननेकीसखिया अनकाकहोविचार सतगुर
 अयेपाहुमे क्यादीनेजीनार २ गरीबनेकीसमनसेक
 हे अनमाहींघरमोर सतगुरकेप्रसादके घरल्पावोकोई
 फोर ३ गरीबमाग्यामिलिनकरजदे आनदमीबहुभीर
 कहनेकीक्याकीजिये स्वाधरेसहाराधीर ४ गरीबधर
 नेलायकचीरकित पात्थापटलमोह समनसेनेकीकहे
 चोरीजावोमोह ५ गरीबसेऊमानसेकहे चोरीघट्या

ह मालविरानासुसहरे जिनकेअवसजाह ६ गरीब
 मातापुत्रसेकहे सुनसेऊसरतान यामेंनहींअकाजहे
 चोरीकरदेदान ७ गरीबसतगुरदीन्हाबैठना आसन
 दीयेविद्याय शेषफरीदकमालकूं लियेसुतारचखाय
 गरीबशब्दउचारेधुनकरे सतगुरआयेआज समनसे
 नेकीकहे घरमेंनाहीनाज ८ गरीबसुनेसबदचित
 लायकर होनीहोयसहोय सबविधकाजसुधारहे च
 रनकमलचितपीय ९ गरीबसतगुरआयेपाहुने नि
 हमानीकरस्याह सेऊमातासेकहे सीसबेचधरस्याह
 गरीबसुनिरपुत्रसरोवनी निकीकहेनिराठ सतगुरआ
 येपाहुने करोसीसकीसांड १२ गरीबशेषफरीदकमा
 लकूं बोलेबचकसुसील समनसेसतगुरकहे भोजन
 कीक्याखील १३ गरीबसतगुरसेसमनकहे करोध्यान
 असनान भोजनपाषतिलायस्या जग्मतेहीभान १४
 गरीबअरधरातचोरीचले सेऊसमनसायकूं भलदीना
 जायकर नाजलग्याजहांहाथ १५ गरीबकूंभलमेंसेऊ
 बड़े लाईवडीजवेर हमतोफाकेहीरहे तुमत्याईयोती
 नेसेर १६ गरीबतीनसेरअनबांधकरि पहलीदीयाचला
 य पीछेवनियाजागिया सेऊपकवेपाप १७ गरीबचोरचे
 रदतियांकरे सेऊपकरीमोन टाख्योंकाहेबोलिये तीनसे
 रतियाचोन १८ गरीबवनियेरसाघालकर दीयाषभसे

ल ४४ गरीबअसीगजसतगुरदिये घेरायतमहीयिक
 पातशाहनीशेरवेहूँ बाटेअनंतअनेक ४५ गरीबबुग
 दावविलायतवलकलग दिल्लीअकबराबाद पातशाह
 नीशेरवेकी इतलगसहसराद ४६ गरीबफिदजमाल
 वलीलपर कुफरपरपासभआन पातशाहनीशेरवेहूँ
 सतगुरभेटेजान ४७ गरीबपजादसनकवीरका सिरपर
 अरसअमान पातशाहनीशेरवेसे आनभयेसुसताम ४८
 गरीबठारानाषापुराहदिया सोलासहसकुरेभ सतगुर
 मिलेसिकारमें सास्यावानअसेभ ४९ गरीबअजबनवे
 लीपदमनी अजबनवेलाभोग देषअधमसुलतानहूँ के
 सेलीन्हाजोग ५० गरीबअजबनवेलेमहलहै अजब
 नवेसीसिज अजबनवेलीकामनी केसेखूँकडाहेज ५१
 गरीबअजबनवेलातघनहै अजबनवेलीफौज वैधन
 दूटेमोहिके भईसतगुरकीमौज ५२ गरीबमाससमा
 नेसभतजे नजेराजअरपाद सतगुरसेंसीदाभया क
 रीकचीरासाठ ५३ गरीबगगनमंडलसेकतरे साहिव
 अरुषकवीर घोलाधत्याषवासका तोरेजमअंजीर ५४
 गरीबकाटेफधनमोहिके निरभैभयेनिसक अनहोनी
 होतीकरी मिटेकरमकेअंक ५५ गरीबकफनीगाष्ठीपह
 रकर चलेअधमसुलमान यलकवलकरोवतरहा छुडे
 श्रीरदिवान ५६ गरीबअध्यालगीसुलतानहूँ मानन

बैचेवेर सवालाषकीपावड़ी दईपलकमेंगेर ५७ गरीब
 सेरवेरमालनदीये येकवेरकीआस येकवेरकैकारने बीती
 बडुततिरास ५८ गरीबदीनडनीसभहीतजी छाडताव
 लषबुषार येकवेरकैकारणे घाल्याहाथगवार ५९ गरी
 बयासघतेसवसंषयुन ब्रह्मशब्दकैमाह सतगुरमीले
 कबीरसे तोसतलोकलेजाह ६० गरीबजैसेबादलगग
 नमें आनधरतहेंदेहि घटागरजऔरदामनी वरषनल
 ग्यामेह ६१ गरीबकितसेतीउदगारहे कहांहोतहेलीन घ
 टागरजऔरदामनी कहांगयेयेतीन ६२ गरीबजैसेबा
 दलगगनमें चलतेहैंदिनयाय असेंपुरषकबीरजो सनमें
 रहेसमाय ६३ गरीबजैसेबादलगगनमें चलैपीनकेतेज
 नूरेकापिंडाधर्या नूरतषतहैसेज ६४ गरीबजैसेबादल
 गगनमें चलतेहैंदिनपंथ रसनासभरसलेतहे स्वादनजा
 लेदत ६५ गरीबसठसंथ्याकहांजानहे दंतरूपतनदेह
 रसनारूपीसंतहे मेंटेसकलसंदेह ६६ गरीबजुंकेतुंही
 कानहे बहरासुनेननाद चशम्यांवालेअंधहैं सृजेनहींअ
 गाध ६७ गरीबयेकहसतीकीपैडमें सभजीयोकीपैड सार
 सबदचीन्हेबिना डुनीयाघालैपैड ६८ गरीबआदअनाद
 कबीरहे चौदाभवनविसाल हीरमोतीबडुतहैं कबीरलाल
 नसिरलाल ६९ गरीबदहनेदसतदयालकै फूलयेकगुल
 जार छत्रजपरआयरहा किलमिलरंगअपार ७० गरीब

बांध समनडैरैलेग्या नेकीरोटीछाव १९ गरीबकरव
 लियाइकहाथमें उसटेषलेसमन सेऊडुकवजलायत
 सनापस्याभवन २० गरीबवमियासिसेऊकहे बाहर
 मराबाप फूठीसाधनबोलनू सीसचूतमोहपाप २
 गरीबभ्रमैपगवाधदे बाहरकाछेसीस बोयबातवा
 लायल्ले साधीहैजगदीस २२ गरीबपितासीससिरव
 टले सनसुषकरवचलाय मकबीचधरदीजियो वरि
 र्यपकरपाय २३ गरीबसमनकरवचलाईया सनसुष
 काठ्यासीस काटतहीकसकानही डिछहेविसवेबीस
 गरीबसीसकाठघरलेग्या ताकबीचधरदीन नेकीव
 रैरसोईया ज्ञानध्यानपरवीन २५ गरीबसमनसेने
 करी सेऊकासिरकाट ननदेहीकितडापिया फेराकर
 यीहाट २६ गरीबसमनसेसतगुरकहे सेऊआयान
 ह देहीनोसूलीधरी सीसताककेमाह २७ गरीब
 मनसेसतगुरकहे नेकीमनआनंद सीसकाठघरमें
 स्था मानपिताधनधन २८ गरीबसतगुरसेसमन
 कहे सुनोफरीदागल इवकेसतगुरआयसी देस्या
 सपहल २९ गरीबसतगुरसेनेकीकहे सुनोफरी
 बात आधीभगतकमाइया रहेपुत्रपितानहीसाथ
 गरीबभौहोकरिहैआरमा पलकोचौरकराय समन
 नेकीकहे धीअपनासीसचछाय ३१ गरीबकहेक

रकमालमें सुनोफरीदाफेर समनकेघरसाचहै इत
 नतलावोदेर ३२ गरीबकहैकबीरकमालमें सुनो
 फरीदायार समनकेघरसाचहै येधरहैंसीसउतार ३३
 गरीबकहैंकबीरकमालमें सुनोफरीदाबात समनके
 घरसाचहै सीसचकैस्योगात ३४ गरीबकहैंकबीर-
 कमालमें सुनोफरीदासेन समनकेघरसाचहै येयो
 लैआइवेन ३५ गरीबकहैंकबीरकमालमें सुनोफरी
 दाष्याल समनकेघरसाचहै येकीजेनजरनिहाल ३६
 गरीबजेतेआंबरतारिया नेतेओगनमोह धड़सूलीसिर
 ताषमें सतगुरनहींविसरेंतोहि ३७ गरीबछहदोना
 सुरोसीया सतगुरपुर्वकबीर सेऊबोलेताषमें मैहोद
 मनगीर ३८ गरीबआवोसेऊजीमल्यो बहुप्रसादप्रे
 म सीसकटतहैंचोरके साधोंकैनिनवेम ३९ गरीब
 सेऊधड़प्रसिरचख्या बैठपंगतमाह नहींघरहरानाड़
 कै अहोसेऊअकनाह ४० गरीबछपनभोगकरेधनी
 भयेसमनकेठाठ कहैकबीरकमालमें चलोफरीदाबा
 ट ४१ गरीबअसटसिधनौनिधआंगने अनधनदीये
 अनंत सेऊसमनअअकंछ नेकीपदवेअंत ४२ गरीब
 पादशाहनौशेरवां अनधननाहीफेर असीगंजलेपीर
 के दियेयजानेमेर ४३ गरीबअसीगंजकोलेभये गर
 केजिंदजमाल पादशाहनौशेरवैहूँ देषलायाहैष्या

ल ४४ गरीबअसीगजसतगुरदिये घेरायतनहीयेक
 पातशाहनौशोरवेकू वाटेअनंतअनेक ४५ गरीबबुग
 दादविलायतबलकलग दिल्लीअकदरावाद पातशाह
 नौशोरवेकी इतलगसक्तसराद ४६ गरीबजिदजमाल
 फलोलपर कुफुरपस्यासभअन पातशाहनौशोरवेकू
 सतपुरभेटेजान ४७ गरीबयजादसनकवीरका सिरपर
 अरसअमान पातशाहनौशोरवेसे अानभयेसलतान ४८
 गरीबदारासावतुराहदिया सोलासहसदुरभ सतपुर
 मिलेसिकारमें सास्यावानअसेभ ४९ गरीबअजबनवे
 लीपदमनी अजबनवेलाभोग देषअधमसलतानहूँ के
 सेलीन्हाजोग ५० गरीबअजबनवेलमहसहैं अजब
 नवेसीसज अजबनवेसीकामनी केसेयूँकवाहेज ५१
 गरीबअजबनवेलातघतहे अजबनवेसीकौज वधन
 दूटेमोहिके भईसतगुरकीमौज ५२ गरीबमालधम
 नेसभतजे तजेराजअरपाट सतपुरमेंसीदाभया क
 रीकबीरासाठ ५३ गरीबगगनमेंडलमेंऊतरे साहिव
 सरुषकबीर सोलाधसाववासका तोरेअमजंजीर ५४
 गरीबकाटेफधनमोहिके निरभैभयेनिसक अनहोनी
 होतीकरी मिटेकरमकेअंक ५५ गरीबकफनीताषीपह
 रकर चलेअधमसलतान बलकबसकरीवतरसा छडे
 मौरदिवान ५६ गरीबसुध्यालगीसलतानहूँ मसन

वैचैवेर सवालाषकीपावड़ी दर्ईपलकमेंगेर ५७ गरीब
 सेरवेरमालनदीये येकवेरकीआस येकवेरकेकारने बीती
 बडुततिरास ५८ गरीबदीनडुनीसभहीतजी झाडताव
 लषडुषार येकवेरकेकारणो घाल्माहाथगवार ५९ गरी
 बयासघनेसुषसंषयुन ब्रह्मशब्दकेमाह सतगुरमीले
 कवीरसे तोसतलोकलेजाह ६० गरीबजेसेबादलगग
 नमें आनधरतहेदेहि घटागरजऔरदामनी वरषनल
 ग्यामेह ६१ गरीबकितसेतीउदगारहे कहंगहोतहेलीन घ
 टागरजऔरदामनी कहंगयेयेतीन ६२ गरीबजेसेबा
 दलगगनमें चलतेहेबिनपाय असेंपुरखकवीरजो सुनमें
 रहेसमाय ६३ गरीबजेसेबादलगगनमें चलेपौनकेतेज
 नूरेकापिंडाधत्या नूरतघतहेसेज ६४ गरीबजेसेबादल
 गगनमें चलतेहेबिनपंथ रसनासभरसलेतहे स्वादनजा
 नेदत ६५ गरीबसठसंष्याकहांजानेहे दंतरूपतनदेह
 रसनारूपीसंतहे मेंटेसकलसंदेह ६६ गरीबजूकेतूंही
 कानहे बहरासुनेननाद चशमींवालेअंधहे सृजेनहीअ
 गाध ६७ गरीबयेकहसतीकीपैडुमें सभजीयोकीपैडु सार
 सबदचीन्हेबिना डुनीयाघालेपैड ६८ गरीबआदअनाद
 कवीरहे चौदाभवनविसाल हीरमोतीबडुतहे कवीरलाल
 नसिरलाल ६९ गरीबदहनेदसतदयालके फूलयेकगुल
 जार छत्रऊपरआयरहा किलमिलरंगअपार ७० गरीब

दसोदिसाहस्रराहो दसोदिसाहस्रीस दसोदिसाहस्रजदत्त
 तर्हे हेअबगतजगदीस ७१ गरीबदसोदिसाहस्रनहे २
 सोदिसाहस्रवेन दसोदिसाहस्रसरवनं अबगतमूरतमेन ७२
 गरीबरापतिकेसीदेहहे चीटीकेसीपेडु बिनसतपुरसीजेनही
 मीमलोकमेपेडु ७३ गरीबरापतिकेसाअंगहे चीटीकेसेपाव
 बिनसतपुरसूजेनही मीनलोकफिरप्राव ७४ गरीबरापतिके
 सेचराहि चीटीकेसाअंग व्यादसंतजकेमही मूरतअवलअभ
 ग ७५ ग-अथाराधुनिलिएयने ॥ आजहोअयेसतसुअन
 तममनधमवारीगीमान देक चरमकमसरजडारींसीस मार्गे
 पमितेजगदीस १ सतोकीमहिमाकहीमजाय अठसठासीरथचर
 नोपाय २ सतोकीमहिमाअपरमपार इराणअहामितेकरतार ३
 सतोकीमहिमाअगमअगाध अमदसेउदरेमहसाव ४ भूमेदेनास
 निरवान अमरापुरीपरचेबिबान ५ सतोकीमहिमाअगमअगमह
 दूउतेराधेगअग्राह ६ सतोकीमहिमाअहिचलथीर द्रोपतसुअ
 केवळगपेची १० सतोकीमहिमाअधकसमे १ भीसतिकेजूके
 घापेवेर ११ सतोकीमहिमानहिचलअंक वालनीककावा-
 ज्यासय १२ सतोकीमहिमाअममअर्मन देवोगनिकाचळीविवा
 न १३ सतोकीमहिमापदगरगाप त्रिलोचनकेप्रतियाअप
 पुडरपुरनामानिर्बान देवलफेरछ्वादेईछान १४ काशीपुरी
 कशीरकमाल गेथीवालदयाईरिसाल १५ दीवामेठाराजने
 दास कमकजनेऊपदप्रकास १६ सतोकीमहिमाकहीमजाय

पीपाकृदपरेदरियाम् १५ दासगरीवसंतोंकूंसेव चौरासीमिट
 गईसुषदेव १६ ॥ अंतदेवकी... लिखिते ॥ आरतीअंत
 देवतुम्हारी जासैंकायापलेहमारी रोटीआदिरोटीअंत रो
 टीहीकोगावेसंत १ रोटीमधसिधसभुसाध रोटीदेवाअगम
 अगाध रोटीहीकेबाजेत्तर रोटीअंतलोकभरसर २ रोटीही
 केराटारंभ रोटीहीकेहैरनवम रावनमांगनगयाचून तातेलं
 काभईवेसून ३ मांडीबाजीषलजूवा रोटीहीपरकैरोंपंडों
 मूवा ४ रोटीप्रजाअतुसुदेव रोटीहीपरसात्सेव ४ रोटीही
 केहैसभरंग रोटीविना^{जी}नतेजंग रोटीमांगीगोरवनाथ रोटी
 विनातचलेजमात ५ रोटीकृसदेवकूंपाई सहैसअठासीकी
 पुध्यामिटाई तुदलविमकूंदीयिदेष रची सुदामांपुरीअले
 आधीनविधरंकेभोजनपाई कैरोंबूजेमानबछाई मानबडा
 ईसैहैदूर आजिजकेहैसदाहजर ७ बूकबाकलेहीयेविचार
 भयाचकवेकईयेकबार बीठलकैकरोटीपाई नामदेवकीक
 लाबधाई ८ धनाभगतकूंदीयाबीज जाकाषेतनिपायारंज
 द्रौपतसुनाकूंदीयालीर जाकेअंततवधायेचीर ९ रोटीचार
 भारजंग्गाली नरसीलाकीहुंडीजाली (तातेटूटैजमजंजीर
 रोटीतिमरलंगकूंदीह्नी तातेंसानपातशाहीलीह्नी) सावल
 शाहसदाकासही जाकीहुंडीततपरलई १० जळकूंदूधपि
 लायाजान प्रजाघायगयेपाषान बलिकूंजगरचीअश्वमेद
 बावनहोकरआयेउमेद ११ तीनपेंडजगदीयादान बावनकूं

वलिच्छलेनिदान नित्युनकपडादेतेभई जाकेनीसबबास
 दबाई १२ अखगतकेसोनामकवीरू रोटीहीकेरजरपाठ
 रोटीहीकेहेंगजठाठ रोटीमातारोटीपिता रोटीहीसबका
 शिष्या १४ दासगरीबकहेदरवेसा रोटीवाटोसदाहमेका
 अथजेदेवकाइतिहास ॥ गरीबरासीपुत्रछाडकर जेदेरा
 मतकीन राजारज्याजानकर मोहरअशरफीदीन १ गरीब
 येकवरषजेदेरहे राजाकेअसुपान संतचलेहेंनगरहूँ स
 जाकरीनिरान २ गरीबछूपितिसकबनायकर ठगचासे
 हेंसाथ गलमेंफांसीडालकर काटेदोनूहाथ ३ गरीबकी
 देउरे हूँपमें लईमातरामाग बालदउमरीअनकर बनज
 र्हीकीदाग ४ गरीबजेदेकाकूतारूपसे मायकहूजीबास
 कहेजहापहेंचायई ओघदलदहाथ ५ गरीबजेदेमार्नेमि
 ठकर गयेनगरउसधाम राजाआगेइमिले सुन्यासंतकाबा
 म ६ गरीबहादशवरषदयाकरी बैठेबागमजार राजारानी
 सिषभये दीन्हीमगजीनार ७ गरीबवीतिहादशाबरषअद
 परिनीनहुपांछ बैठेगमागतआईया जेदेदरशानहुँछ गरी
 बजेदेकूआवरकोया ठगधिठायेपास करेअधीमोबंदमी बे
 गभयेउदास ८ गरीबरजासेजेदेकह्या येदोमित्रहमारा इन
 कीरजाकीजीये सेअपनाजन्मसुधार ९ गरीबयेकबरष
 घेतर्हा छपनभोगपुषाय चासजवसजाकरी दीनामाससरा
 य ११ गरीबघोडेओडेवहुदिये थिसीदीनीबीस जेदेराजा

ताकरी देनेचलेअसीस १२ गरीबसंगबुलायेतोबची दीये
 कुमैतीसाथ आनंदमंगलबहुभये चालेकरतेवात १३ गरीब
 हदसेतीबाहरभये कीनाठगोजुहार जेदेतुमराकालो हम
 सेकहोबिचार १४ गरीबफूटेकपटीचोरठग किरतघनीकल
 माह जेदेकीनिंघाकरी साहिवसोचिनाह १५ गरीबरातीसे
 षोटाकीया जेदेपकोआप जादिनइसकेकारकटे हमेंछुटा
 याजाय १६ गरीबसिलाछुटीअसमानसे आयेसंपटबीच ध
 रतीमेंगारतगये बैठगदोनोंनीच १७ गरीबजबजेदेकंकरम
 ले हरहरकीयाहजूर दोनूंपंजेदसतके होयगयेभरहर १८
 गरीबजेदेसेराजाकहे कारनकोनअगाध विधसंजोगवताई
 ये परमसनेहीसाथ १९ गरीबसाधसिलानीचिदये मित्रहमारे
 प्राण राजासैंजेदेकहे ब्रजहभारात्तान २० गरीबकरनासे
 नीकरबधे परसनकरोदयाल वैदोन्गारतगये सिलापरी
 अबदाल २१ गरीबसरबलासंजोगकुछ मेंजानतहंकाह मि
 त्रहमारेभरगये जेदेदीनीधाह २२ गरीबतेजपुंजकेहोगये
 जेदेसंतसुजान पिंडतुम्हारानूरका दरगहआवदिवान २३
 गरीबचाकरचरवादारसभ आयेराजापास कैसेवैदोनोंमुये
 हमसेकहोसुवास २४ गरीबस्वामीकीनिंघाकरी काखेब्रैव
 सवाब सिलापरीअजगैबसे आयानहींजुबाब २५ गरीबजेदे
 सेराजाकहे कारनकोनदयाल बदनतुम्हारानूरका वैभछ
 नकरेकाल २६ गरीबराजासेजेदेकहे लीलाअगमअपार २७

रबलासंजोगकुच्छ हुईजहोनेहार २७ गरीबहृगहबो
 चनिसाफहे दमदमसिखाहोय जिदेकेकरकटगये ज्ञाननहे
 सबकोष २८ गरीबजिदेहुंनाहीकही तीन्सोकश्रबाज का
 नाऊपारहोतहे सबहीहरनकाज २९ अथपारखकाभंगलिष्य
 ते ॥ गरीबघनंतकोटअवतारहे नैचितबैबुधनास घाल
 करवेसेषलकमें छेहहतवबराहमास १ गरीबपीछेपीछेह
 राफेरे अमीसंतसजान सतकरेसोईसाचहे चारतुगप्रबान २
 गरीबसाईसरिसिसाधहे इमसमचूलनहींश्रीर संतकरेसोईहो
 नहे साहिवअपनीठोर ३ गरीबसतीकमणसभरण्या सकल
 जिमीअसमान चदस्तरपामीपवम जगतीरथश्रीदान ४ ग
 रीबजूबछागऊकीनजरमें योसांइंधीरसंत हरजनकेपीछे
 फिरे भक्तवत्सलभगवत ५ गरीबधारीमेरेसंतकी मुजसे
 मिदिनअंस बुरीभलीवाधेमहीं सोईहमराबस ६ गरीब
 संवोजीवप्रलोकरे संवोउतपतिरब्याल छेसिसमरथसंतहे
 येकाधिसेनहींवाल ७ गरीबगर्जिइंद्रअनमदल बहुविध
 बाधाहोय संवोजीवप्रलोकरे संवोउतपतिहोय ८ गरीबइ
 छकरमारेमहीं बिनइह्यामरजाहि न्हिकामीनिजसंतहे
 तहांनहींपापसगाहि ९ गरीबहदीतोखूटेमहीं कीडीबदल
 दीन महमदकीबेगमगुंसे काटसईअसथीन १० गरीबबरे
 जकेडीबदे म्यारेनीन्योसोक श्रीसेहरजनसंतहे संवोदारोकम
 रोक ११ गरीबवहतछहमछेकरी पुनकरपीस्वरदेष रूप

लसिंधारेसघड़के पापलग्यानहींयेक १२ गरीबद्वादश
 कोटनिनाएवि गोरषजनकवदेह यूंत्यारेयूंडेबदे यामे
 नहींसंदेह १३ गरीबसीलमाहींसरबलोकहे ज्ञानध्यान
 वैराग जोगजगतपहोमनेम गंगागयापराग १४ गरीब
 संतोषसरगपंतालसभ औरकहांमृतलोक फिरपीछे
 कूंकारह्या जबआयासंतोष १५ गरीबबिवेकविहंगम
 अचलहे आयाहिरदेमाहि भगतसुकुअरग्यानगत फिर
 पीछेकूछनाह १६ गरीबदयासरबकामूलहे छिमाकूपा
 जोहोय त्रिलोकीकूंन्यारदे नामनिरंजनगोय १७ गरी
 बदसहजाररापतिबली कामदेवमहमेत नाहिरअंकु
 ससीलका तोरतगजकेदंत १८ गरीबक्रोधबलीचेडालहे
 बलरापतिद्वादशसहंस येकपलकमेंडोबदे अनेतकोटजी
 वहंस १९ गरीबतासिरअंकुशाछिमाका मारित्तसत्तसबी
 न त्रिलोकीमेंकाटदे जेहोयसाधुप्रबीन २० गरीबलोभस
 दालहस्यारहे त्रिलोकीमेंइछ बलरापतिबीससहंसहे
 पलकपलकप्रपंच २१ गरीबताअंकुशसंतोषहे त्रिलोकी
 सेकाळ काटेकोटकटकदल संतोषतेगवळबाळ २२ गरी
 बमोहमवासीमसतहे बलरापतितीससहंस त्रिलोकीप
 रवारहे जहांउपजैतहांबंस २३ गरीबसिरअंकुसबिवेकहे
 हरनकरैसुगद त्रिलोकीकीबासना लेबिवेकसबसाथ २४
 अथप्रबलछनायेयलियायेते ॥ उतमकुलकरतारदे द्वादश

भूषनसंग रूपद्रवदेदयाकर सानभजनसतसंग १ सील
 सुतोषविषेकदे छिमादयाद्रकतार भावभगतवैरागदे नाम
 निरालभसार २ जोगजुगतजगदीसदे सूक्ष्मध्यानदयाल
 अकलशकीनअजनमजत अष्टसिधनीनिधाय्याल ३ सर
 यनरकबान्वेनही मोक्षबंधनसैंदूर वड़ीगरीबीजगतमे
 संसचरनरजधूर ४ जीवतमुकतासोकही आसाहस्याखड
 मनकेजीतिजीतिहैं कूरभरमेब्रह्म ५ सास्त्रकरमसरीरेमे
 समगुरदियालिषाय गरीबदासगलतानपद नहींआवेन
 हीजाय ६ चौरासीकीचालक्या मोसितीसुनलेह चोरीजारी
 करतहैं जाकेसुहडिबेह ७ कामकीधमधलोभलट छूटीरहि
 बिकरास कोभकसाईउरबसैं कुस्वदछुराघरघाल हस्वसो
 गहिस्वन्नगत संसासरपसरी रागदोषवडरोगहै जमकेप
 रेनजीर ८ आसाहस्नानदीमें डूबेतीमूलोक मनसामायावि
 समरी आतमआतमदोष ९ एकशाश्रुयेकमिअहै भूलपरी
 रेमान जमकीनगरीआहिगा यददहमारामान १० निंद्यामि
 चाछाडदे सगैंसूकरप्रीत भीसागरनिरजातहि जीवतसुख
 आतीत ११ जेतैरेउपजेनहीं तीषाखसावसुनलेह साछीभूत
 संगीतहि नगैंसिखाबोनेह १२ स्वरगसातअसमानपर भटक
 तहैमनमूख घालकतोषोपानहीं इस्त्रीमहसंमैयूख १३ क
 रमभरमभारीसंगी ससासुखवेबूख डालीपानोडोलते परसत
 नार्हीमूल १४ स्यासदिससारपद पदमेंसासासार दंभदेहीक

योजकर आवागमननिवार १६ दिनसतगुरपावेनहीं बल
 कषोजविचार चौरासीजगजातहे चिन्हतनाहींसार १७ म
 रदगरदमेंमिलगये रावनसेरनधीर कंसकेसचा नौरसे हि
 रन्याकशबलवीर १८ नेरीक्यामुनियादहे जीवजनमधरले
 त गरीवदासहरिनामबिन घालीपरसीखित १९ ॥ अथमू
 लमंत्रनिश्चये ॥ निरंजननिरंजननिरंजननिराकारभज
 रे तात्तानसीरारानपीरा धरोध्यानधीरा रह्योआपथिरेरे १
 अडोलंअबोलंअछेदंअभेदं परीसैंपरेरेकहोकोनहेरे अगमया
 हदरिया गयातंबिसरेरे बिनामूलमोलाजुकालानधोला सु
 रतसिंधसैलंकरोदूरफैलं भजोकरूनहररे ३ पसूतंपतेगंमवि
 हंगमबिसासीदर्द्रदेहनरेरे रटोरामरमतारखोसीलसमता क
 रेतोहअजररे ४ अलावनूरमेलागुरुकौनचेला बजरकाल
 उरेरे सबदमेंसमानाअमानाअजोषं चलोकरूनघरेरे मूलमंत्र
 गहूराया भेदकिन्हेंवृलेजनपाया पिंडब्रह्मंडसैसिंधन्यारी कु
 छैअसीहीधारनाधारी ६ दिलअंदरदीदार नहींबारपार बजर
 पीलपठालोल्हनहींतोलमोलसबदसिंधऊलंके दासगरीब
 निजनूरपलके ७ ॥ अथकरमूडंडमोक्षपुराण ॥ ११ ॥ नेदुरम
 तीडुराचारीसदसंगीमूळमुग्धं नष्टधरमं जंबकजातंसिंध
 सेरे मरकबंमलागीरे भावअभावनबंचते १ बलंमवेदंभाव
 ईभावे करमकीटंसिलापामंधोवेते नदीनायचै राजानायचै
 नारीनायचै अगनिनायचै कलमलीकाले कलाहीनं मोचसे

राजनासती २ सरसीनगुदाभिष्ट सरसरीषिनाबहेजात
 किगायत्रीज्ञानध्यानद्रुदविवादिस्वरपत्यं ३ बाहूविरचबह
 ना कूर्तभसेसविनासती नरजरीचुराभूत अनभूतनवेवते
 करमनदीयान्हातनाद आत्मततविजोगत ४ कृष्णआदिकृ
 मेरकासवर्नअवर्नसीलतं कंपदंसमहीमेर नदीनीरविनास
 तं ५ संघस्वरगतमूलजह्नी पातालेनधिरचकं चंदसूरजग
 गनतारा वैकुण्ठेनहरवतं ६ अत्रवीजनादनेहं संघामद्वसभा
 नंते करमकंडोदूनीभूली अह्यावीजअज्ञानत ७ राजरे
 षासूरगसूली चौदाभवनविनाशतं पटलसोभ्याषसटमा
 संज्जीरनहोतकपर्षत ८ ब्रह्मवेदेनादसगी चिरनजीवतुरा
 र्णं दमस्वरमकेमधिसूरत सानीज्ञानविचारत ९ प्रवामध्या
 नंअसतानज्ञाने जम्पासमेधीफलेकोटदानं कदेक्रेटकुसम
 त दरसदिसहजारा सेष्टस्वरनीलायेवेदीउचारा १० आद
 सूतिसकलयरं परासकतिउजागरं कोटभानंसकलमालं ११
 जाडंडअनादिआदं तापरैस्रषसगर १२ कोरिखिसविसंभरा
 ज ब्रह्मवेताकुलालघ्यासं स्योसुनंद्रमहादेव पुत्रबासाषसंत
 कारी १३ कुलवेतीसपरानेदीमं परमधीरं अजन्मजातीअज्ञ
 निमूने विराससूपेविराजत १४ परासकतिपरमज्ञान कला
 बीजविनोदनादं ब्रह्मडेडसधारत १५ सघसोचनसिसारंधा
 रा विरंचबेरसविद्यानंदं पसपमास्यकुलंगी कोटब्रह्माधरा
 धर १६ अयसूसेनिजान्गमी कलसिंधकसेवरं पराअधीमं ज

न्मजाती संषजुगजुगादितं १६ जन्मनंदनीसमहामार्ई स्यो
 विरंचविसनोदकं महाबालासबालरूपं पुरषभोगीनभारजा १७
 पुत्रीसपदमरूपं पुसपपारसअंगना कोटसिधसरूपसाजं दस
 ध्यानदिवंगना १८ सावित्रीलच्छमीगौरिजं त्रिगुनीतंबोलमू
 ले महामार्ईबजरडेडीविराजतं १९ ब्रह्माणीविष्मानीगौराणी
 कलराजं आधारधारेउधारनी विद्यानंदीविनादकरनी बारवारं
 समंगलाछंदउचारनी २० समोवेष्टीसनाधानी कलासुधस
 हागनादं वैकुण्ठेविराजनी जोगानीवेदानी निरडुंदानीअरुडे
 दानी २१ करमकालेकलेवरंदूरकरनी महामार्ईपुरंजनी वि
 लासमूलेअदालतं अश्रदौनेदयाकरनी सुरोचेरीपरागनी २२
 निरंजनीनिराकारी सब्रह्मचारी ब्रह्मचेरीसब्रह्मणी नालव्या
 लेकमालमौजयुजारनी असनबसनजोगभोगं डुरडुधिदुराव
 ति २३ भोगमायाजुगादिआदि निंदरानिस्तूपनीच्यारतानीसप
 राधीनं सरनरमुनिजनसोवहों जायंतसमोथसूरं स्योमुनीद्र
 बीनवो सनकादिकनारदभुसंडव्यासा मारकंडरोमीरिषं २४ व
 सिष्टविष्णामित्रं कलाधरं पुंडरीकपारासरं स्योविरंचिविसन
 सेसादं परसरामबलिवामनं २५ कपललच्छमनहनुमंतं अं
 मरीकभूप्रह्लादं वाल्मीकविलोकतं गोरषगोपीचंदभर्थरी
 भूवप्रह्लादसतजुगअचारजं नामदेवकबीरकलिजुगअचार
 जं २६ सतगुरंसिसवरंसकलब्रधारे चित्रभुजंप्रसिरंकेसरंबर
 धरं निराकालेनिरमलंवासुदेवविश्वंभरं २७ निरगुणनिरा

लभं कृपानिधानं चित्तानंदचित्तघने अक्षयचंद्रजलायत्ने वि
 श्वरूपीविराजित ३९ मोरमुकुटसीसकंदं परब्रह्मपीतेवरे
 मुकुटमालाधारं ककनेसेतच्छ्वं मासतिलकविराजते ३० कं
 डलंघुंघरेकेसरं कमलनेननिरंजनं जोगध्यानंजुगतांबेदं मु
 नमंत्रं गरभहरतं भिरगलवाधारं ३१ मीनधराणचित्यामन
 वदनसेतसमाधनं दस्मंश्लोककस्तं कलंगीकलसम्पि
 तं ३२ पुष्पमालाभवरभवमं अमहदमादेसूरतती बौन
 वरदेसरथरे मासस्यासंस्वरभ्रं ३३ सरोवनेगोसुखीगग
 फटकमणिमोसतं अलीलचक्रधनकवान पाखचक्रग
 पद्य ३४ चंद्रभानअनंततेज अमीषीरसुरसागरं अक्षे
 च्छं समाधान ऊर्ध्वसूलेमधरसागरा ३५ संस्रपुष्पं कलाधरं
 जगमगं निजानामि सिधसूभरसागरं पातालैसपादिका स
 रगमुकुटमनोहरं ३६ षडंगचक्रसूतलं गदाधारवदूकोन
 चक्रं त्रिबलीतासे आकुशाख्यपहिरभरं गरडयामीनिराकरं
 निरमलसीलवानीविनोदनाद् गरजंतबिलासधुनं वज्रधि
 षुं अखंडडडं अनभूतेषधारनं अधरधारेनिराकारं अकल
 सूलेईश्वर परमस्योपरानिधान महोदसीकलंदर गायत्रीस
 रराणं ४० ॥ अष्टपुच्छिस्तदा ॥ सतसकतनामसार सतउपे
 तिसवरप्रसन्नं केसरवरधारचित्रभुज निरकारं निर्मल नि
 विषनिरालभं वासुदेव विश्वभर अमरिन्द्राद् परब्रह्मचिह्नं
 चित्तानंदं चित्तघनं चित्यामन अक्षयचक्र अक्षितलधज अत्रन

व्रतं अजूनिजिंदं अजातिजातं अजरअमरं अधुरधारं बज्र
 पिंजरं अकलमूलं संखभानं तेजधारं चंद्रसाजं सलीलसेलं
 अछेइछं समाधानं उर्धमूलं अगमशाखा विसूलमालं अस
 पुष्यं ध्यानधूपं निरालंभं अजीतजीनं अटलरुमटं संखकलं
 कलारूपं सिधसाजं अचीन्हचीन्ह अललध्यानं अनिनरूपं
 ऊर्धरेखा अजमजानं सरगसरवरं कुंडकल्पं ॐ अकाराव
 धं विद्यानेदं विधिक्रमं कूरभसाजं सकलभूतं कंछसंछवरा
 हव्रतं चंद्रसरजपोनपानी धोलधरनं जरजरीभूतं सकलसे
 ना निरविवेकं नरसिंघनिराकारं कलाकल्पं बलिवादनं या
 हंगजनं अधिकध्यावनं रंगरापतिं रंकारं सेसरूपं आवंडमं
 उलं सहंसशाखा अवचलंपरसरामं रामचंद्रं भरथचवं ल
 छमनं घटाघोरं शब्दनादं अग्रचूरमर्दनं हिनाछरावनं
 वालीवीनं सहस्त्राबाहुं शांखासुरं बछासुरसेवनं कीन्हें कं
 संकेसंमर्दनं शांखचक्रं गदाषट्ठं मोरमुकटं भृगलतं भाल
 तिलकं कलमलीचानौरचूरन शिशुपालसालंभंजने किल
 किलीकिलियं भद्रभूरं शांखदानैदौमदूतं पलकनासविलंब
 ने कालभद्रं घोरकुंडं धरमरायधारणं शांखदूतं सालकारं
 भगतिभावंउवारनं आदिमूलंप्रांखपुष्यं ब्रह्माविसुस्योसाज
 तं अचरचरं देवदूतं लोकपालं गरुडगामी अनंतव्रतं वृधवा
 लं नागनागीग्राहगामी अष्टभुजीविसालतं वैराटमाली रघु
 वंशरामं हिरंबरहीरमनोहरं सुकुंदमाधो विलंबनं विलासरूपं

गुह्यनादे सस्रवेदं रगजुष्टं स्थमपथ्यर्बन चारत्नानीवास्वा
 नी ब्रह्मनादउचारन कल्पपुत्रिर्व्यं हिनूहेरे म्हाहीरिचिम्भ
 रे स्योशक्तिरूपं केस्यसबासीकसेदरा सविशीलक्ष्मी मेरी
 देवी गणेशाहम्यविस्रबन नैग्रहस्राससलीलसेवया कर्म
 भर्मभंजमं लीकलोकापर्वतं दृष्ट्वीत्याप्रदच्छन फलकपानि
 राधारं सिक्वाद्गंजने ब्रह्मनादकपोलच्छेले अमईससूत
 ध्यानं अमोघशस्त्रडरबसंधर्मधीरं कर्मसन्नाभं कीदजगजु
 गानुग मूलकमले सादृषकैवनशरेरिचकं उरधमूले के
 कमलसंचते लक्ष्मीविमालतीरे सहस्रकमलेप्रसते परानद
 नीकामयैने सेवनाकलहच्छत अगमपथ्यमानध्यानं सरा
 निरतसमाधियं पांचइंद्रीममबिसभर नेसभगतबादियं सेव
 कसंपुगजुग्यादे महाप्रसौम्यस्थिर ब्रह्मोड्डइंद्रवर्षं श्ये
 भूलबिसुचक्रसदरीने पिंडप्राणरत्नरत्नं सीसचरणीसागतं
 बीससमुद्रसेससाही सहेसयास्वासीरत परात्नानेपराध्यान
 परमपदेप्रसत अष्टसिधिमैनिधिबादं युक्तमोक्षसभत
 गमदीपअसेखकमले तेजउंजजिलकते अटलसुरषभान
 दध्यादे बानीदिलोकपुलकर्म अचलधामससूतसुस्रय आ
 मंतअगोचरं शास्त्ररजद्रुमोती असत्तभ्यासनजगमग शं
 जालरनादवी भेरितुरहीबाजही सुरलीमगनमहसूवपूव
 जिरहशरनिबाजही सुरगसालपदमपान अमभूतेभूतवसे
 ने धर्मसत्तासुचेसाचं ध्यानधूपनोसान अगमगमनअज

जामं सहस्रशाखासेवनं गुष्टमथरं कलपरूपं मूलेमूलमुकंदा
 नं पातालेसचराकमलं मधनाभीनिरालंभं गगनसुनसीसमु
 कंठं शंखभुजाविश्वभराजं सेतच्छत्रधरमधीरं मुकटमुणिवे
 रागरं सखकल्पंजुगाजोगं अम्बपदसखसागरं कीटमानम्ब
 नेतरूपं कनिकधारकलेदरं सखपुष्पंअच्छैवच्छे समाधानम्ब
 जाहरं सकलसन्धिसैलसैलं अनभूतमीतरबाहिरं सतसुक्र
 तम्बवगतकवीरं ॐ ॐ ॐ ॐ किलीयंकिलीयंकिलीयंकिली
 यं हरीयंहरीयंहरीयंहरीयं श्रीरंश्रीरंश्रीरंश्रीरं सोहंसोहंसो
 हेसोहे सत्यंसत्यंसत्यंसत्यं अभैपदगायत्री पाठपठतेअथ
 धरमकाममोच्छरणाफललभते ४० इतिकर्मडंडमोक्षपु
 राणसंशर्गम् ॥ अथविज्ञानत्रिलोचं ॥ ॐ सबदोसरूपी
 अनादोअगाधोचलेबानवाजीजोउपज्यापसारा निहचलनि
 राकारनिरगुनअपारा २ उदासीअकासीनिवासीअलंकारआ
 या रूपोनेरेषोनधूपोनच्छाया ३ थांनोनमार्कोनज्ञानोनध्यानो
 लिखितानवकतानरखतानवेदोपुराणो ३ तालोनध्यालोनमा
 लोनमेला उपजेनबिनसेनयसूवानचैला ४ कायानच्छायान
 मायानमूलं शाखानवृद्धोनपत्रोनरूले ५ वृधोनवालाविसाला
 नपीते निहचलनिराकाररहतापरीते ६ क्रमोनभरमोनसंक्ष्यान
 डरती लेखाअलेखानकरनीनभरती ७ जीवोनसीवोनकालोन
 जालो जौरानजूनीनजमकानसालो ८ देवीनडुर्गानभैरोनभू
 मसानीभवानीनप्रानीनदूता ९ धामोनहाराभंडारापसभानजा

श्री देवानसिवाज्ञानपाती १० सेतोमहेसोगीश्रीयनगौरा ह
 नबहानकमसंनभौरा ११ अज्ञानवेदेनविश्वोत्तवानी निर
 एनिर्गलभरहतादिनाती १२ कछोनमछोनधोसोनधरनी स्वे
 गेनसीतोपासाहोनमरनी १३ नादेनविदेनपेनोनपानी अत्
 सततरहतानिरालभजाती १४ करमोनधरमोमपापोमपुष्य
 न्यनवस्तीनवस्तीनभूय १५ मासासहगमभपारोअचसत
 यौर जोहसकानभारी १६ नांदूननूरानसुरसीनशाहा अमेत
 अगहिअजवदेसबका १७ एवाभमीदानफीकानस्यरी हिदून
 रकामसुरुधोनभारी १८ एविनपीविनसेविनजागे निरंतरनिरा
 अचसततरगी १९ मौनीमवभनकयसामस्यन जापोनथापो
 धरवानधाम २० लैविनदेविनवेविमवेवा हारिमजीमिनियका
 देवा २१ सेस्तीनसीगीनसुद्रानकान कस्तानफस्तानभेवो
 बान २२ शैसानजजीनापहुपगोधगलता उदेनखेदेनहीपंथ
 लता २३ कुरानेप्रपौनहीसायचरचा मौरनत्पारेनहीप्रान
 परचा २४ स्वामेनसीपोनहसाममोती अगमत्तरअगहेस
 लकतजीती २५ निराकारनिखसानिरतरनिराला नहीअ
 रक्तिनहीप्रिमप्याला २६ सकससंगरहता सकलसेन्यारा न
 आदिअंतोअनूपेअपर २७ आवेनजावेमप्यावेमकेहे श्री
 ननवीनहोनिरामेभसेहे २८ गसनतरगीबीअसेवकोटक
 नावेनकावेनहीभेववरने २९ यीरोगभीरोनअछाअचए
 मालामफिचोनवभूनमाई ३० गविनधावेनहीसीजमाती मेत्

नचेलानहींसंगसाथी ३१ निरिंधनीकासकलहैअवाजी रहेअ
 ह्यबीनाबिलीवानबाजी ३२ बाजीभंडारापसारानरहसी अ
 उरागमेलामहलभेदलहसी ३३ महलभेदपायाचिंतायाअपा
 रा परमसुनमेलाजुसतलोकमूर ३४ सतलोकचलियेब्रह्म
 अगनजलिये जैसेतोनिमाना जैसेनूनपानी मिस्यायूबिना
 नीपरमधामजान्या ३५ परमधामप्रायासमायासलेसं गुलजा
 रगेबीसुनिहतंतनेसं ३६ आसानवासानिरासानिकामी अग
 मैअगमहैजुसतलोकधामी ३७ निरिंधनूरंजहूरमिलाया ज
 हांकातहांहै ॥ जलोयानपाया ३८ सपतअंडतोरीअंछरधाम
 डोरी मकतारजीना बोलैनडोलैअललपंषहेलाअैसानतची-
 न्हं ३९ षाषीनचूरीनसरताननिरता अधरनाचनचैबिनावा
 सव्रता ४० गुदरीनधागाविहागानपंथा मांगैतसांगैनहींभेद-
 पंथा ४१ पंथ्यानपंथ्यानसाचैनवीचै जुरहतानिरसा ४२ ३६
 नभमतानहवैउदासा ४३ अगमरासरासीबिलासीअपारतसा
 धोतीनपोथीनहींसोअचारी ४३ अचारीबिचारीभंडासीजमुही
 डेरानभेरासकलसुधलहता ४४ नहींमृगछालागलेनहींसं
 लाजोधूमिंधामा जाचैनद्वाराअवारभंडारानसामा ध्यानसा
 हींगेतनातीअजातीअनाथा पछावेगुनाविसमानेसगमीषान
 गुलजारगेबीगलतहैसिधिमंसकलसिंधधीरं वंदी अमोघ
 न्यापिछान्याजुअदलीकबीरं ४७ नेनोनवैनोनसे ३२ अ
 षा नजरमेंअजरहैजुगुरभेददीव्या ४८ दीव्यादिष उपलसता

विसमतीनसाजनिरालभराज अगमधम्मसारं श्रीसेसिभने
 गीश्रमेपदउषारं १४ अहोब्रह्मबीनाश्रमेततपीम्हा निरालंमलो
 ईमहादेवदेवं अज्जीप्रभेव ससुंदासमीई १५ शासकस्तपज्जु
 जुगअटल अजरअमरशिवशंभ गरीबदासगलतान्हे न
 क्यातपदआरभ १६ ओं ओ ओं ओं विमासमूल निरवानसो
 ई अहोमूलमय्यामनेकामकरमी कलारण्यसाजेब्रनेअज
 नी भगलख्यालसाजं स्वेस्मेकमाया परमामेदध्यानेमुहो
 देवण्या ३० ॥ अथशिवयोगीश्रिजिह्वित् ॥ हस्तागिसाह
 रभूतेसा उजसउतमल्लानकपन दीपहरहरजेमहादेव १
 भजसिभूसाहिबजोकरा गगर्बहेअटवजुधारा विधत्तिथकेरा
 तादामी सिरवीरकरेयोपिजरागी ३ कश्चकस्यामगनेसगता
 धनधनसेभूअयाधमता ४ सुषभवेनवाहमजाका विसुजेहे
 त्रिसाया ५ डोरुजाअमहदवाजे सेवकींसेवीराजे ६ चइति
 लाटदीपेदेवा गनगद्रफकरहेसेवा ७ सयंगलेगतकडमासा
 सगतपेगीपिजबाला ८ कडमासारमतागामं जीरिजपदईहे
 निजधाम ९ अगस्मादनिरमीही हरसनसिसासभूस्वेई १० सु
 खदेसिधसमीईसा पदअमरसनेभरमघोईला ११ स्वीहापतिपे
 येकनारीला पदगीरयगादउचारीला १२ जटाजूटजेपीमुग
 ता तनत्तायरहेभसमीभूवा १३ कीजानिसभूलीला शिवबाक
 थषरेचावीला १४ दामनिदंतविमेंधारा घुमवीरघटाघनहस
 रा १५ रिमकिमरंगअजवरंगी धनधनसेभूजेजेसंभूतविभवी

चौथापदप्रकासिला शिवत्रयियापदकेवासीला १० पुरियापदमें
 पावाना शिवदरसप्रसउनमनध्याना १० अग्रअलीलअलल
 मोरा अगमनिगमशिवकाडोरा ११ कुंडलनाभकमलकाया
 धनिशिवजोगीजीतीमाया २० अग्रमालवेमनमा नी बाजेवाजे
 निजसहदानी २१ कौसतमनिकुरबालकलाधनधनसंभू जैजैसं
 भूतंअबलवला २२ नीनचिरमतवसाजीला कोटजुगायेकपल
 मेंजाय २३ आषाअजरबजरतोरा गगनमेडलसंभूडेरा २४ ध
 नधनशंभूशिवकेलासी जहांकोटचरनगंगाकाशी २५ कोटक
 रमकुसमलधोई हरलीलकंठशिवनिरमोही २६ पीतंबरगत
 गरुडधजा बाधंबरतनारुबसजा २७ सींगीनादवजेनीका राग
 ब्रिहजीवनजीका २८ अलगोजेतरहीनादू जहांध्यानधरैसैवों
 साधू २९ तालमदंगबजेबीना सुरलीकीगतिअतिजीना ३० भ
 स्मभूतभैरोंध्यावे कोटकोटग्रंद्रफगावे ३१ सेवतहेंदानेंदूता धन
 धनसंभूजैजैसंभूतंअनभूता ३२ इंद्रकुवेरब्रनध्यावे तनकादिक
 नारदगावें ३३ ब्रह्माविष्णुहैअंगतेरा तेतीसैंनाचैचेरा ३४ सरन
 रसुनियंदरबमेला नीनलोकशिवकाचिला ३५ षप्रवीरसुद्रामा
 या नीनलोकशंभूगाया ३६ रिधसिधकादाताहरा जहांकोटक
 लाबाजैहरा ३७ बेलपत्रबालारीजै लिंगएजाशिवकीकीजै ३८
 बीजविंदशिवनिहकामी योर्लिंगएजोहैनिजधामी ३९ निरालम
 निरवानीला शिवतनमनधनकुरवानीला ४० अष्टसिधनौनिध
 दासीला ४१ ससतसहंगमसैलानी शिवजुगनजुगनदातादानी

मोक्षसुक्तपदमहमता शिवभगतसुकतरासासंख्या ४३ श्री
 वृद्धपदनागीना शिवसमाधाममनरागीना ४४ शंकररहेडुभा
 नी महाध्यानधरेशिवसैतानी ४५ शालपदमउजपारीसा जहापी
 वजोपीपदनागीसा ४६ गरीबदस्तकुरवानीजाव शिवजुगन्तुगन
 जपत्रजपानाम ४७ ॥ अथ ब्रह्मवेदी ॥ ज्ञानसागरप्रतिउजाग
 र निरिक्तमनिरंजन ब्रह्म स्थानीमहाध्यानी सप्तसुकतडुषभज
 न १ मूलचक्रगणेशबासा २ कवरमजहांजानिये किसिबंजाव
 क्लीनतजसभ शब्दहमारामानिये २ स्वादचक्रब्रह्मादीबासा
 जहासावित्रीब्रह्मारहे श्रीजापजपतहसा ज्ञानजोगसतपुरक
 हे ३ नामकमलमेविष्णुविशभर जहालछ्मीसंगबासहे तमिब
 जापजपतहसा जानतविरलादासहे ४ हृदेकमलमहादेवदेव
 सतीपारवतीसगहे सोहजापजपतहसा ज्ञानजोगभतरंगहे ५
 कटकसर्मबसिप्रविद्या ज्ञानध्यानशुधिनासही स्त्रीलसुकमध
 कासकर्म आवतवमकूफासही ६ त्रिकुटीकमलपरमहसररणा
 सतपुरसुमरथथापहे मनपीनासमसिंधमेसो सरतनिरतक
 जापहे ७ सहस्रकमसदमप्रापसाहिष ज्वालसममधगाथहे ८
 ररहाजगदीसजोपी सप्तसुमरथनिरबंधहे ९ मीनीबोजहनोज
 न्हरम उसरपथकीबाटहे इसापिगसासुधममघोजो चलहछ
 श्रीघटघाटहे १० श्रीसाजोगविजोगधरमी ओशीकरनेचितथसा
 कुंभकरेवकदाबरापसहे कालकरमतिसतेउसा १० सनसिधा
 सनधमरप्रासन अलषपुरधनिरवानहे प्रातिल्यासीमधेदीनमप्रति

क कादरकंकरवानहै ११ हैनरसिंधअबंधअवगत कोटवैकुण्ठन
 वरूपहै अपरमपारदीदारदरशन असाअजबअनूपहै १२ घुरेनि
 सानआवंडधुनिसुनिसोहंवेदिगाईये बाजेनादअगाधअगहै
 जहांलेमनठहराईये सुरतनिरतमनपवनयलटे बंकनालस
 मकीजिये प्रवेरूलअस्थूलअस्यर अमीमहांरसपीजिये १४
 सपतपुरीमेरडंडषोजो मनमनसागहराषिये उडैंहंभवरअकास
 गमनं पांचपचीसोनाषिये १५ गगनमंडलकीसैलकरले बडुरन
 असादावहै चलहंसापरलोकपठाऊं भौसागरनहिंआवहै १६ कं
 दरपजीतउदीतजोगी षट्करमीयोहषेलहै अनभैमालनहार
 गूहै सुरतनिरतकामेलहै १७ सोहंजापअथापथरपो त्रिकुटीसं
 जमधूनलोगे मानसरोवरन्हानहंसा गंगसहंसमुषजितबगे १८
 कालेंद्रीकरवानकादर अवगतिमूरतएवहै छत्रसेतविसाललो
 यन गलतानामहभूबहै १९ दिलअंदरदीदारदरशन वाहरअंत
 नजाईये कायामायाकहांबपरी तनमनसीसचखाईये २० अदग
 तआदिजुगादिजोगी सतपुरुषल्यैलीनहै गगनमंडलगलतान
 गीबी जातअजातखेदीनहै २१ स्रषसागररतनागरनिरभै विनसु
 एबानीगावहीं विनआकारअजोषनिरमलद्रिएसुएनहींआवहीं २२
 जिलमिलनूरजहूरजोती कोटपदमउजीयारहै उलटनेनबेसुं
 नविततर जहांतहांदीदारहै २३ अएकमलदलसकलरमता
 त्रिकुटीकमलतधत्रिषहीं सेतधजासुनयुमटआगे पंचरंगकंडेफ
 रकहीं २४ सुनमंडलसतलोकचलीये नौदरसूदविसुनहै विन

धिसम्पूयेकविचदेव्या विनश्रवणसुनीधुनहे २५ चरनकमलमे
 हेसरहते बड्डीगीवपियासहे छुच्चमसूरसत्सामसुरत अचल
 भगीरामहे २६ मीसस्रधनिषकखिसो दसमिदरिस्राखमूलहे मा
 सिमहूपअनूपसवनी विनबेलीकारुलहे २७ स्वासउवासपव
 महुंपलेटे नागसुनीहुंभूवहे सरत्ननिरतकाबाधवेरा गगनमउ
 लरुंरुवहे २८ सनलैजोगविजोगहसा सबदमहलकूमिधक
 रो यदुगुरज्ञानविज्ञानबानी जीवतहीमगंमरो २९ उअसहिरी
 भरसेतभीरा अछिदृष्टसतबागहे जीमिकालविसालसोहे जाती
 जनवेरागहे ३० मनसानारीकरपमहारी यावीमनजहोमस्त्रिय

५। सुलेहेरुसदिसालिया ३१ कछमदरु

सेससहंसफुनगावर्ही नारवमुनिसेरदिनिसदिन ब्रह्म

३२ धंम्भूजोगविजोगसाध्या अचलअडिगसम्भ

६ अरगतकीगतगाहंजानी सीसाम्भममधगाथहे ३३ सनकर्ष

कभोरसिधकीरासी ध्यानधरतहेतासका सीबीसीधीतारअपत

७ परमहेसमकषाका ३४ सहंसभडासीधीपतितीसीं सूरजवद

चिरागहे धरधरधरमीधरदले अरगतअवलबिहागहे ३५

मुनिजलसिधकीरसादिक पारअहार्करदतहे धरधरमा

८ ज्ञानजोगजहाबदतहे ३६ शिष्यपुपमधरमरस्पगो

कोदसरसातीलापकरतहे धिसात्रस्यदा

३० कामधेनकलपवृज्जके देवअनेतसरभरतहे प

सावित्रीसोभ्याकरतहे ३८ गेदर्वसानी

और मुनिध्यानी पांचौततववासहैं त्रिगुनतीनबदुरंगवाजी
 कोइजनविरलेदासहैं ३९ धूप्रहलादअगाधअगहै जनकबदे
 हिजोरहै चलेविवाननिदानबीत्या धरमरायकीबंधतोरहै ४०
 गोरषदतजुगादिजोगी नामजलंधरलीजिये भरथरगोपीचं
 दसीके औसीदछ्त्रादीजिये ४१ सलतानीबाजीदफरीदा पी
 पापरचैपाईया ४२ छानछिवाईगऊजिवाई गनिकाचखीवि
 वानमें सदानाबकरेहूंमतिमारे पडुंचेआननिदानमें ४३ अजा
 मेलसेअधमउधारे पतितपावनबृदतासहै केसोआनमयाव
 नजारा षटदलकीन्हीहासहै ४४ धनाभगतकाषेतनिपाया
 माधोदईसिकलातहै पंडापावबुजायासतगुर जगननाथकी
 बातहै ४५ भगतहेतकेसोबनजारा संगरेदासकमालये हेहर
 हेहरहोतीआई उनछ्त्रऔरपालये गेबीष्यालबिसालसतगु
 र अचलडगंबरथीरहै भगतहेतकायाधरआये अबगतसत
 कबीरहै नानकदादूअगमअगाधूतिरीजहाजषेवटसही सुष
 सागरकेहंसआये भगतहिरंभरउरधरी ४६ कोटभानप्रका
 शाप्रराण हूंमहूंमकीलारहै अचलअमंगीहै सतसंगी अबगत
 कादीदारहै ४७ धनसतगुरउपदेसदेवा चौरासीभ्रममेटहीने
 जपुंजतनदेहधरके इसविधहमहूंमेटही ४८ सबदनिवा
 सअकासबानी यहुसतगुरकारूपहै चंदसूरनहींपवनपानी
 नाजहांछायाधूपहै ४९ रहतारमतारामसाहिव अबगतअ
 लहअलेषहै भूलेपेणविटंबवानी कुलकाष्याहिंदयेकहै

मूलकमलमेजापजपिले अष्टकमलदलमेसहे सुरतनिरतक
 कमलपठवो जहाँदीपकविनमेसहे ५३ हरदमषोजहमीमह
 मरविबेनीकितीरहे दासगरीबतबीसगुर बंवीछेडकवीर
 हें ५४ ॥ अथद्रसकला ॥ मूलकमलकुंडीठकरबंधी रक्त
 वरनरंगसगिचित्रफयडीबसैगनेसा किछिपंसबरबिहागैसा
 दषकजहाकाबासा अष्टफंघरीमेलें ठों जापजोपेनि सबातर
 ज्ञानबुधिकाषेल २ नाभकमलमेविस्तु विरामी दसदलकाम
 हावीपें हरियेंजापहिरंभरहीरा लछमीसहनसनीप ३ हृदिक
 लमहादेवकहिये द्वादशाफंघरीदेव सोरेंजापसहंसरमिला को
 रंजनमनेमेव ४ सोलाफघरीकठकमलहे जहांअविद्याबास
 काफचकन्धावतदमहरे नहीज्ञानप्रकासा ५ त्रिकुटीकमलमे
 दोदलधरनी परमहंसमवाना सुनसतगुरकाधामबमाऊं गि
 रहेआवमजाना ६ गुजवीरजयेकर्मप्रखरनी सुरतनिरतक
 जाप कुभकरेचकहादरावरनी सोजोगिहिआप ७ सहंसकम
 लदलअयमश्रनाहृद हसपरमहेसकाधाम मानसरोवरछकटा
 मीती जहाकरोविसराम ८ पवनडडसमषकीमेल सुनसेजो
 गविजोगं कंदरपजीमउदीतध्यानधर श्रीमहारसभोग ९
 मूलकमलकीसुद्राबाधी षड्बाविटंवल्लिजी गोलाज्ञाननभ
 तरमाथे सषममआवणकीजी सहंसककीसोउलरअरठे मी
 यहपरद्वारं सोसाहकलासेशरणादरसे उनमिनमनजोगअ
 पार १० नाभकमलमेपवनसुमाजी फिरदोदलकीघाटी द्वादश

अंगुलसीमीसिधा सोलाहअंगुलफाटी ११ जोहमकहेंकोरेजेको
 ई मनधारैसोदेवे लछनजोगलषावेनिरगुन बहधरेनहीभेवे
 द्वादशउलटेसोलाहसिंधं शिवजलविं बभियास्या त्रिकुटीपैठ
 सहंसदलषोजे जिलमिलनूरनिवासा १३ मेरडंडकामारगवे
 ली बंकनालदिषलाऊं जोराकालनहींजहांदोऊं तहांहंसले
 जाऊं १३ मोषनदोषनहींजहांहंसा सुरगभित्तिनहींसाजा
 वेगमपुरकीसैलकराऊं अबगतनगरीराजा १५ पांचपचीसौती
 न्नींजीति दसआठौपरअटकें तेरहऊपरसूलीगांडे उरधकपा
 लीलटकें १६ असोजोगविजोगबनाऊं संकरगोरषकीन्हा ना
 गफुनीसैकायापलटे सोहमसतगुरदीन्हा १७ जुमलमसत
 कूंद्वारैबंधे आगेपडैनचारा अंकुशाज्ञानमहावतरांषे नावै
 पदसैन्यार १८ षटकरमोंसैन्यारअवचल सुद्रापांचपिछांते
 जाकैऊपरशब्दमहलहै अरसीतभूताने १९ नौदरसूदनिर
 तरषेले गगनमंडलमेंडेरा यारहनीसैसाहिबमेंटे जेमनस्या
 वततेरा २० उलटकपालीसनमेंताली विनपगचरनोंचळहे
 भगलीगिरकूंभैनहीव्यापे भगलविद्यासैउडहे २१ ब्रह्मंडइ
 कीसोंओरनोंचौबीसों येनहींसिधापीरं चौसठजोगनिमन
 कीदासी बंधलेवावनवीरं २२ पकड़बिलीकूंउलटतिलीकूं
 इलानिकटनआवे सनसिधरकीसैलकरीरे गगनमंडलचळ
 जावे २३ चित्रचक्रतचकचूंथरबसती सूजैद्यौसनराते संसा
 अपळसतहेनगरी भगलगारडूनार्थ २४ गनगंदरवसिधसु

निपरघाये मागदीननिधरगी भगलीगिरकेमत्रउबरे चव
 लप्रमरसतसंगी २५ चीदहरतनमथोमनमथो याहकरनीर
 सलीजे मद्रुवानामविनाबेलीफलहे अष्टसप्यालार्पिजे २६
 अपसीसपरदाद्रवैठ्या दुगलेकामीनचरावे चतिकामिस्व
 रघवाला वरवेरागसमावे २७ माधीकीमकडी छुछहारी
 पीरीहसतीषाम्या शार्दूसससैसैभाग्या सतगुरभेदसवाया
 सरहगऊवनसिंघचरावे अजाभेटियामास्या तीत्रकूतीबज
 यास्या किन्हेजनवीजबिषास्या २८ माघनमहीगुजरियावेच
 फोमिचईमनमटकी मनमोहनमपुराकाबासी रामरसायन
 टकी २९ यहभूमडसबाराभोरा भेदकहूँवजबटकी सवकमि
 यासघगोपिका त्रिबेनीकेठठकी ३० भूलपरीभीसागरभार्द म
 रस्यामोहनमार्ही सुरसीदेरसुमीदूसहकी दधमटकीफोरग
 वाही ३१ घरोलरैगीसाससखीरी श्रीरमणादीकोभईया काठे
 घरीगुजरियाकूके स्यारेमसहानईया ३२ गहराससुंदबली
 नहींलगी कैसेस्याऊनीका भवरप्रसभैमानतहसा गहराक
 वरघोषा ३३ भेदधबेचनगईसखीरी मनमोहनकूत्तीसुस्त
 मधुरअधरधुनमोही सासनगादसैछटी ३४ दधकामोत्तवेत
 हेहमहूँ मटकीकानहींलेया छमूरीहीघरितागावरसी देव्या
 कान्हादेव्या ३५ सनसिधरमेंसूरसमगरी जहासुजकान्दबली
 अजवरगीसाविरगुनसौला मधरेवेनसन्वे ३६ गगनहमा
 रेवाजेबाई नोदसमेपरधाम मानसरोवरहंसहिरभर स्वक्ष

गरभ्रसनाने ३५ त्रतीजनपरतारी लागी तनघोजेमनपाया
 बाई बिंदु लट ब्रह्मज्ञानी निजमनघरमेंआया ३६ निजमन
 कीहेनिरभैनगरी शंषकलाससिभाना दोजिगभिलनहींजहां
 दोऊ पायापदनिरबाना ४० सनसमाधिअगाधअगोचर सु
 नियरमहलनपावें शिवशंकरसे द्वारेखाळे नेतिनेतिजसगा
 वै ४१ ब्रह्मादिकसनकादिकनरद सेससहस्रफुनगावें विस्र
 विशंभरभगतहिरंभर रंकारधुनध्यावै ४२ रंकारनिजमूल
 मंत्रहे जापअजपासौई मूलचक्रओरसहस्रकमलदल ४३
 स्थानिरमोही ४३ रामरहिमकरीमाकेसो अलहअलेषअनाथा
 बाजीगरकरतारविशंभर जामेंभिननभाता ४४ देवगुनचिंत्या
 मनिस्वामी मौलेमगनगुरारि साहिवसुम्रितचौषाअश्रित रह
 तासनअधारी ४६ निरगुअगुनदहूंसेंन्यारा गगतमंडलग
 लताने निरगुनकहूंतगुनकीन्हकीन्हें सरगुनकहूंतहाने ४६
 विगुनसरगुनसेंहेन्यारा शब्दअतीतअमोलं निरगुनमनमा
 याब्रह्मज्ञानी सरगुनकायाषोलं ४७ केतेसरगुनरसुनिजनअ
 टके धरनिरगुनकाध्यानं कथाकिरतनगावनधावन निरगुन
 सरगुनहाने ४८ मूलमंत्रकाभेदलषाऊं जिननिरगुनसरगु
 नकिन्हा दहुसेंन्यारासब्दसनेही सोकिन्हैबिरलेचिन्हा ४९
 छ्छमलीननिरंतरनिरभै ४९ नहेसरबदेसं तोलमोलकीम
 तनहींजाकी नाकुछ्वारननभेसं ५० निजगलतानअनूपअ
 नाहद दृष्टमुष्टसेन्यारा अडोलअबोलअछेदअभेद नाहल

कानाभार ५१ अबगतनगरीपदनिरवान जहाहमध्यानस
 मोया दासगरीवकवीरमिहरसैं पारसमिल्लपलट्यालोहा ५
 अयंअसरनिकदरमेनी ॥ सतपुरषसमरथोंकारा अदली
 पुरषकबीरहमारा १ आदिजुगादिदयाकेसभार कालकरमके
 मोचनआगर २ दुखभजनदरवेशदयाला असरनिकदनकर
 पैमाला ३ आबधाकपावकबीरपौमा गगनसुमदरियाईदी
 ना ४ धरमरायदरवानीचेरा सूरअसुरोंकाकैनेवेरा ५ स
 तकारजधर्मरायकरहीं अयमीकीयासमैडडभरहीं ६ शंक
 रसिसरब्रह्माविस नारदधारदजाउरसन गौरजश्रीरगणे
 शगुसाई कारजसकलसिधहोयजाहीं ७ ब्रह्माविष्णुअरु
 भूसेया तीमूदेवदयासहमेया ८ सावित्रीश्रीरलक्ष्मीगीतां
 निहूदेवासिरकरिहेचौरा ९ पावतजन्मभनकीना तीमूगु
 ननमथसावाजीना १० सतपुरषसैंउंकारा अबगतरूपर
 चेमीनारा ११ कैछमेछकुरभश्रीरथीला सिरजमहारपुरुष
 हेमौसा १२ लवचौरासीसजसनाया भगलीगिरकूंभगसउ
 पाया १३ उपजेविनसैआधेजाही मूलवीजहस्तसानाहीं १४
 लीलनाभसैंब्रह्माप्राये आदिउंकेपुत्रकहाये १५ सिंभूछम
 ब्रह्माकीशाया अरुयजुरसामअथरवनभाषा १६ पीधरजभ
 येउमानंपाता अकैभूहेआत्मसाता १७ सनकसंनंदनसत
 कवार चारसअनुरागीधारा १८ तितोसकोटिकलाबिसता
 री सहस्रअदासीमुमिजनधारी १९ कसबपुत्रसूरज सरत्तनी

तीनलोकमें किरनसमानी साठहजारसंगीबालकंल बीनारानी
 अजबबलेल २२ तीनकोटजोधासंगजाके सिकबंधिहैंरसनसाके
 हाथषड्गलपोहपकीमाला कसिबसतहेरूपबिसाला २४ कीस
 तमनिजड्जाबिबानत्रमृगार सुरनरसुनिजनकरतजुहाय २५
 चंदसुरचकेवे^{पि}ष्टवीमाहीं निसबासरचरनोचितलाहीं २६ पीछे
 रजसुनसुषचंदा काटेंद्रिलोकीकेफंधा २७ तारायनसभसुरगसमूल
 पघेरहैसतगुरकेकूल २८ जैजैब्रह्मासमरथस्वामी येतीकलापरम
 पदधामी २९ जैजैशंभूशंकरनाथा कलागणेशंगौरजामाता ३०
 कोटकटकपेमालकरंता औसाशंभूसमरथकंता ३१ चंदलिलाटसू
 रसंगीता जोगीशंकरध्यानउदीता ३२ नीलकंठसेहै गरुडआस
 न शंभूजोगीअचलसिंघासन गंगतरंगछुटैबहुधरा अजपाता
 रीजैजैकारा ३४ रिधसिधदानासिंभगसाईं दालिदरमोचसमैहो
 जाहीं ३५ आसनपदमलगयेजोपी निअंछानिरबानीभोगी ३६
 सरपभवंगगलैरुंडमाला त्रिषमचठियेदीनदयाला ३७ वामिक
 रत्रिभूलविराजै दहनैकरसुदरशनसाजै ३८ सुनअरदामदेवन
 केदेवा शंभूजोगीअलषअभेवा ३९ हंपेमालकरैपलमाही औतेसू
 मरथशंभूसाईं ४० येकलषजोजनधजाफरके पचरंगजुंटेमोह
 रिरथे ४१ कालभद्रकिरतदेवबुलाऊं संकरकेदलसमहींध्याऊं ४२
 मैरीषित्रमालपलीत भूतरदैतचकेसंगीत ४३ राकसभंजनदिरधत
 म्हारा ज्यूलंकापरिपदमअठारा ४४ कोटैपोंगदरफकमंदचखावें
 संकरदलगिनतीनहींआवे ४५ मारैहाकदहाकचिंधारें अगनिचक्र

कानाभार ५१ अश्वगतनगरीपदनिर्बान अहाहमध्यानस
 मोया दासगरीबकबीरमिहरसैं पा१ समिलपलट्यालोहा ५२
 अयअसरनिकदरैमैनी ॥ सतपुरषसमरयगैकारा अदली
 पुरषकबीरहमारा १ आविष्णुगारिदयाकेसागर कालकरभके
 मोचनआगर २ दुखभंजनदरवेशदयाला असरनिकंदनकर
 पैमाला ३ आबयाकपावकबीरपीमा गगनसुमदरियाईदी
 ना ४ धरमरायदरवानीचेरा सरअसरोक्याकतेनवेरा ५ स
 तकाराजधर्मरायकरहीं अपनीकीयासभैउडभरही ६ शोक
 रसिसरब्रह्माविस्स नारदगारदजाउरसन गौरजप्रीरगणे
 रागुसार्ई कारजसकलसिधहोयजाहीं ७ ब्रह्माविस्सअरस
 भूतेसा तीन्हेदेवदयासहमेसा ८ सावित्रीबीरलक्ष्मीगीरो
 तिहूंदेवातिरकरिहैचीरा ९ पाचतमअरभनकीना तीन्हेगु
 ननमथसावाजीना ११ सतपुरषसैंजैकारा अबगतरूपर
 चेगीनारा १२ कैलूमळकुरंभबीरधीसा तिरजमहारपुरुष
 हेमोसा १३ लखवीरासीसाजबनापा भगलीगारकूभगसठ
 पाया १४ उपजैबिनसैअथैजाही मूलवीजकृतसानाहीं १५
 लीलनाभसैंब्रह्माप्राये आदिगैकेपुत्रकहाये १६ सिभूयम
 ब्रह्माकीशावा अरग्यचरसामअथरवनभावा १७ पीबरतभ
 येउजानेपाता न्यकैभूहैसातमसाता १८ सनकसनदनसत
 कबारा चारउअउरागीधारा १९ तैतीसकोटिकलाविसता
 री सहस्रअरासीमुनिजनधारी २० कलबपुत्रसुरजसुरनाती

तीनलोकमें किरनसमानी साठहजारसंगीबालकल बीनारंगी
 अजबबलेल २२ तीनकोटजोधासंगजाके सिकबंधिहैं एरनसोके
 हाथषड्गलयोहपकीमाला कसिबसतहेरूपबिसाला २४ कीस
 तमनिजडजाबिबानउम्हारा सुरनरसुनिजनकरतजुहाए २५
 चंदसूरचकवेष्टवीमाहीं निसबासरचरनोचितलाहीं २६ पीठ
 रजसनसुषचंदा काँटेंद्रिलोकीकेफंधा २७ तारायनसभसुरगसमूले
 पषेरहैंसतगुरकेरूलं २८ जैजैब्रह्मासमरथस्वामी येतीकलापरम
 पदधामी २९ जैजैशंभूशंकरनाथा कलागणेशंगौरजामाता ३०
 कोटकटकपेमालकरंता औसाशंभूसमरथकंता ३१ चंदलिलाटसू
 रसंगीता जोगीशंकरध्यानउदीता ३२ नीलकंठसोहे गरुडआस
 न शंभूजोगीअचलसिंघासन गंगतरंगछुटेबहुधारा अजपाता
 रीजैजेकारा ३४ रिधसिधदानासिंभगसाईं दालिदरमोचसमैहो
 जाहीं ३५ आसनपदमलगायेजोगी निरअंछानिरबानीभोगी ३६
 सरपभवेगगलैरुंडमाला द्विषमचछियेदीनदयाला ३७ वामिक
 रत्रिभूलविराजे दहनैकरसुदरशनसाजे ३८ सनअरदामदेवन
 केदेवा शंभूजोगीअलषअभेवा ३९ तूपेमालकरैपलमाहो औसेस
 मरथशंभूसाईं ४० येकलषजोजनधजाफरके पचरंगजुडेमोह
 रिरैर्व ४१ कालभद्रकिरतदेवबुलाऊं संकरकेदलसभहींध्याऊं ४२
 भैरोंषित्रमालपलीतं भूतरदेतचकेसंगीतं ४३ राकसभंजनविरधत
 न्हाए ज्यूलंकापरिपदमअठारा ४४ कोट्यौंगदरफकमेदचछावें
 संकरदलगिनतीनहींआवे ४५ मारैहाकदहाकचिंघारें अगनिचऊ

बागेतनजावे ४६ केंप्यासेसधरनिधरानी जादिनलकाघाली
 घाली ४७ त्रमशाभूर्त्तसनकेई सा त्रिमचच्छियेविसवेदीसा ४
 इद्रकुमेरभौरबरनबुसार्त्त रापुतसितमिंघासनत्याऊ ४९ इद्र
 लबादसदरियाई छजामवेदिकीहुई चळई ५० तरपनिचं
 इद्रश्चरागी अनतपदमगदरपवडभागी पू१ किस्मभडगरीच
 केकवेरा अबदिसीमंडलकीहकूफेरा ५२ बरनेदिनोचकेग्रह
 सामी क्साससरनवारहवानी ५३ धरमरायघादिगुगादिचेरा
 चौदकोटिकड्डहसनेरा ५४ चित्रगुपतकेकागजमाही जेताउप
 जाततगुरसाई ५५ सातोसोकपालकारसा उरमेधनियेसापूढम
 विस्वनाथहिअसरनिकदन सांकेसभकाई कधनू ५६ तरसिघा
 पधरेगुराया हिरनाकसहमारनधाया ५७ शाक्षचक्रगदापदम
 गुर्जि भासतिसकजकिउरसाई ५८ बाहनगरुडकिस्मअसवार
 लक्ष्मीकोरेचोरअपारा ६० राधममहरावनसिमारे सेतबाधरे
 नादसात्यारे ६१ जुरामिधकीरबासिधपाये कसकेंघालीरहर
 कालीदहमेनागीमाया शिशुपालचक्रसेकाटजासाया ६३ :
 लियवनमथुरापरधाये अकाराकोडकरकचळआये ६४ उ
 र्कदपरपीतअडपण कासियवनजहावेगसिंघास्या ६५ प
 रामवाममअबनारा कोईनजार्मिभेबतम्हारा ६६ शाखासुर
 रेनिरबानी वरहसूपधरेपरवामी ६७ रामकीतारराव
 वेरा हंसवतहाकासुनीसुमेरो ६८ आदिमूलवेदी
 कारा असरनिकदनकीनसिघारो ६९ वासिष्ठमि

वामित्रशाये ॥ दुरवासाऔरचुणक बुलाये ॥ कपलकलंदरकीन
 जुहारा ॥ फौजनकीबसभनसिरदारा ॥ ७१ ॥ गोरषदतदिगंबर
 बाला ॥ हनुवंतशंगदरूपविसाला ॥ ७२ ॥ धूपहलादऔरजन
 कबदेही ॥ सुषदेसंगीयरमसनेही ॥ ७३ ॥ पारास्वरऔरव्यास
 बुलाये ॥ नलनीलमोहरेचढधाये ॥ ७४ ॥ स्वगरीमसंगऔरल-
 ज्जमनबाला ॥ जोरचटाशायेधनकाला ॥ ७५ ॥ जेदेपायलजंग
 वजाये ॥ अजामेलशरहरचंदशाये ॥ ७६ ॥ तामरपुजमोरधुज
 राजा ॥ अमरीककरपूरनकाजा ॥ ७७ ॥ सूरजवंसीयंभोंपंडों
 ॥ कालमीचसिरदेवेदंडों ॥ ७८ ॥ धरमसुधिष्टिरधरेधियाना ॥
 शरजनलषसंधानीवाना ॥ ७९ ॥ सहदेभीमनकुलजोरकोंता ॥
 श्लोपतिजंगकादीन्हांनोंता ॥ ८० ॥ साधिषपरशरुमसतकविंदा ॥
 जोराबूहनमेहूद ॥ ८१ ॥ देकस्थोस्थकरासघारि ॥ बडगबान
 चकरोक्षेमावे ॥ ८२ ॥ चौसटजोगनिवावनवीरा ॥ भबनबदनक
 रेंततबीरा ॥ ८३ ॥ असरकटकधूमरउजुजाहीं ॥ सुरहेरीरछ्याक
 रेंगुसाई ॥ ८४ ॥ एचरंगकंडेलंबलहरिया ॥ दषनकेदलउतर
 उतरिया ॥ ८५ ॥ पंचरंगकडेलंबचलाये ॥ दषनकेदलउतरधाये
 ॥ ८६ ॥ मोहरेहनवंतगोरषबाला ॥ हरकेहेतहरोलहमाला ॥
 ॥ ८७ ॥ चिडोलचुणकदुरवासादेवा ॥ अशरनिकंदननूउतषेवा ॥
 ॥ ८८ ॥ बलिशरुसेसपतालोंसाया ॥ सनकसनंदनसुरगोहाका
 ॥ ८९ ॥ दींहदसवाजूधूपहलादा ॥ कोटिकटकदलकस्यापियादा ॥
 ॥ ९० ॥ बजरबानकीबोकंबाडने ॥ सतगुरसंतजीतहेंसाडी ॥ ९१ ॥

जिबेईमामैसवरदमारा ॥ राजकरीबादिलयपारा ॥ ९२ ॥ धरब
 धरबमीकेकूपाऊ ॥ मदीनायाधरदमेष्पाऊ ॥ ९३ ॥ ईराधूर
 कच्छिकारी ॥ गळगजनीलगांसेसबारी ॥ ९४ ॥ दिस्तीम
 दुलपपकीभुमा ॥ धरतीनालजमाऊसूमा ॥ ९५ ॥ इसतीवी
 राकटकसिचारी ॥ दिसटपरेससरोदलमारी ॥ ९६ ॥ सयप
 वायननादूटेर ॥ सुरगपतालदाकसमेर ॥ ९७ ॥ बालनीसव
 रकखर्धपाभ्य ॥ जैतगद्दापरकीस्था ॥ ९८ ॥ नारदकुंभकरि
 पकरबना ॥ मारकडरुमीरिषयाना ॥ ९९ ॥ इद्रिषवक
 तालकस्वामी ॥ खीरसतसाधूजननामी ॥ १०० ॥ माघजसध
 पखीरखजिणका ॥ गुरुमछदरयोरषवाला ॥ १ ॥ भरधरगे
 पीचराजेमी ॥ स्वसातानखधमहेसभरसभोगी ॥ २ ॥ नरह
 ररासपधेबलिभीषम ॥ व्यासबचनधरबानीसीष ॥ ३ ॥ माघ
 धीरेरेरासरसीसा ॥ खेरनतानैषदगतसीसा ॥ ४ ॥ पीषपना
 चळेकाजीरा ॥ सेऊसमनखीरकरीया ॥ ५ ॥ रादूतानकमाद
 बजायेममत्कराससुलसीचळथये ॥ ६ ॥ कमासमताधर
 सुरगियानी ॥ रामानदकोईकरमानी ॥ ७ ॥ मीराबाईखीर
 कली ॥ भीलमीन्येदेदेताली ॥ ८ ॥ मासकेतनकीवदूम
 रा ॥ उठेरकमुनिकरषजुदारा ॥ ९ ॥ सादिवतयतकधीर
 प्रकाभा ॥ दिस्तीमउससीजेवसा ॥ १० ॥ सतगुरदिस्तीमरली
 लयसी ॥ सूतीपगीसुममगावसी ॥ ११ ॥ कागउठउठवके
 कागी ॥ गदरपकराचसतदिरागी ॥ येताउपताररासा ॥ १२

ढिंगासोचडेगा ॥ १२ ॥ चंयैगाप्रभुमिसीस ॥ साधीकृपापंचों
 पंडोंभारथीभीगा ॥ १३ ॥ द्रोपतीकेषपरमेमेदनीसमायसी ।
 चौसटजोगनीमंगलगायसी ॥ १४ ॥ बजरबानकातालाराक-
 ससिरयोकसी ॥ दषनकेदलदीपउत्रकूंकोकसी ॥ १५ ॥ दिली
 मंडलराजत्रिकूंकूसाधसी ॥ यहलीलाप्रवानजोसतगुरकूंक
 शाराधसी ॥ १६ ॥ कजलीबनकेकुंजरज्युंगोफनकेमितोलेहें
 ॥ राकसकारालामेगघालीचहडोलेहें ॥ १७ ॥ निहकलंकश-
 सलीलाकालंदरकूंमारसी ॥ अरधलाषवरषबाकी ॥ दानेशोर-
 दूतोंकूंसिंघारसी ॥ १८ ॥ कलजुगकीआदिमेचोनोरकंसमारेये
 ॥ त्रेताकीआदिमेंहिरनाकसपछारेये ॥ बलकीविलासजगत्स
 रपतिपुकारेये ॥ १९ ॥ बावनसरूपधरकीनी ॥ स्वरपतिपुका-
 र ॥ बलिबेननिसतारेये ॥ २० ॥ कलिजुगकीआदिबारासदी-
 कीयुंनहे ॥ दूलहृदयालदेवजानतकोड़ेसतभेव ॥ यौहीबाला-
 कंतहे ॥ २१ ॥ दिलीकेतषतछत्रफेरबीफिरायसी ॥ घेलनशुप-
 तारसैनभंजनसमफोकटफेन ॥ महिलराजवालापुरष ॥ स
 तगुरदिषायसी ॥ २२ ॥ आवैगादषनसिंदिवाना ॥ काबलिका-
 कालकीलकीलियं ॥ गलहेंतुरकाना ॥ २३ ॥ किलकिलीकिलि
 येश्रीवारकला ॥ जितनजंगकुकमला ॥ औसापुरषआया ॥ क
 हताहेगरीबदास ॥ दिलीमंडलहोयविलास ॥ निहकलंकरा-
 या ॥ २४ ॥ पृथमूलग्यानलिषत ॥ मूलबंधहंग्यानहमारा ॥
 निहचलनीमधरीत्रिधारा ॥ १ ॥ कंचमंचकूरंभकमालाताचक

स्वरूपविज्ञान ॥ २ ॥ धीतधरनरोप्याद्यदयथा ॥ तापरलोक
 नेतयसभा ॥ ३ ॥ मीनन्यदत्तकतीमधरायी ॥ मूलउचारादी
 तद्वैसायी ॥ ४ ॥ सेससक्तभुजडडवणरा ॥ जापरसकल
 भेगीनारा ॥ ५ ॥ येकरतीरचनाकारासा ॥ सेससीतपरसभ
 कावासा ॥ ६ ॥ धीनचक्रहेपंचपिराना ॥ तापरदेषगुदय
 सयाना ॥ ७ ॥ मूलम्यानपुरदेवतपासा ॥ रिधिस्तधकल
 निशरावा ॥ ८ ॥ ब्रह्मानादवेदविषभारी ॥ धेदेध्यानधरे
 वारी ॥ ९ ॥ कर्मसुखद्वारासा ॥ तहासकसीनपवमकर
 सा ॥ १० ॥ नाभचक्रन्यहरीसिसेवा ॥ हरियहेतकलाखनेका ॥ ११
 सपटसेलध्यानस्माना ॥ हरिनारायणदेशसधाना ॥ १२ ॥
 शिपरसिधसमूतसेवा ॥ हिष्कमलवसेमहंसेवा ॥ १३ ॥ र
 दिनामधप्रयाजाप ॥ जसिमिटंदिनीपूजाप ॥ १४ ॥ कटकम
 कुरवनीकाया ॥ तामिंशमतकूपयवमाया ॥ १५ ॥ नीरगनी
 यावेजार् ॥ अष्टकमलमधर्षेलीघार् ॥ १६ ॥ पापीसुदाभिन
 नमायी ॥ तामिमूलग्यानमधरायी ॥ १७ ॥ चरनिकमसका
 ऋकमा ॥ अदसपरहम्राससथामा ॥ १८ ॥ खेतामूल
 तमिहरार् ॥ अदिमृतकाभेदलयक ॥ १९ ॥ इसेप्रसेहि
 मनुष्येते ॥ वापनिरेदीरमकूषेले ॥ २० ॥ विकटपेयश्रवा
 त्रीनस्य रोप्रवतकेमधरेधारा ॥ २१ ॥ तिलप्रयनमस
 किपारी ॥ इलकेजाहीसधखवारी ॥ २२ ॥ विहटेपंचविक
 गीला ॥ वैपुवतकेमधरेसेल्य ॥ २३ ॥ सियरखमेरसुनेरे

सा ॥ अमपुरीकासुबलेरासा ॥ २४ ॥ निलकवानमैहैत्रिवैनी ॥ प-
 लपलप्रवीहैसुषचेनी ॥ २५ ॥ गंगाजमनामधसरस्वती ॥ सुमल
 मसनजहांधैलेंकुली ॥ २६ ॥ विकटसिंधविकटेंससनाना ॥ बहा
 दिकसनकादिकध्याना ॥ २७ ॥ सोलासंघजोजनपरदरिया ॥ तहां
 त्रिवैनीनीपररुया ॥ २८ ॥ यहतोमानतलाईभाई ॥ तापरसुर
 तनिश्रनीलाई ॥ २९ ॥ ब्रह्मरंभ्रविकटीद्रवाजा ॥ बडेबडेजोध्या-
 सुचहैराजा ॥ ३० ॥ अगरोरहैमादगवांका ॥ इच्छाबीजजैरेस-
 भरांका ॥ ३१ ॥ जहंमानससरोवरविहबलअंसा ॥ बिनाचंचमो
 नीचुंगहंसा ॥ ३२ ॥ दादसऊपरद्रवनदमांमे ॥ अनहदनादचुरै
 बजनांमे ॥ ३३ ॥ रागअनंतकुलाहलवांनी ॥ त्रिषप्रषसुनिये-
 दित्तदानी ॥ ३४ ॥ दादरीपसुनोद्रवेसा ॥ अजबकुलाहलहोत
 हमेसा ॥ ३५ ॥ सतरपदमजोजनविसतारा ॥ भिनभिनभेद-
 कहुंअनसारा ॥ ३६ ॥ जहांचित्रसुजीहंसहैंभाई ॥ षट्सूरजरवि
 किनतयाई ॥ ३७ ॥ चोवाचंदनअश्रनिवासा मधकरभौरागंधसु
 वासा ॥ ३८ ॥ लीलसीपलीलबवाना ॥ जपतपकरनीपरकुरवा-
 ना ॥ ३९ ॥ जहादसचुगतानरजाही ॥ अष्टसुअननखीवरपा
 हीं ॥ ४० ॥ असीपदमजोजनप्रवांका ॥ लीलबकायहुउनमाना
 ॥ ४१ ॥ दादससूरजनेजसरीरा ॥ जहांबैठेअचलसुनिरिषधीरा ।
 ॥ ४२ ॥ स्रषचक्रसुकतालसुकेसी ॥ छेडसपदमजडे-सिरपो
 सी ॥ ४३ ॥ भौरगुंजारकेतगीवासा ॥ पिंडनप्राननहीदमस्वा-
 सा ॥ ४४ ॥ सुनपीतंब्रलोकपियारे ॥ छेडसमुजाहंस्यगधारे

॥ ४५ ॥ श्वेतसतमनमुकटोपरमाला ॥ श्वेताश्वदभुत रूपविसा
 ला ॥ ४६ ॥ तीसभानउजियाराश्रमा ॥ मधरीबानीबालाविद
 गा ॥ ४७ ॥ श्वरगधगुलश्रारागत ॥ देयोसनकसमदनसा
 य ॥ ४८ ॥ श्वेताजोनपदमपीतश्रुपरीबयाना ॥ तदायक्षइस
 रईसुग्याना ॥ ४९ ॥ श्ववनचक्रमुकटसमृला ॥ श्वदूतरूपदे
 पनहीभूला ॥ ५० ॥ बाजेबजेस्तहम्मसेरी ॥ तेजपुजकीमार्वेवे
 री ॥ ५१ ॥ चितनिरंतरहेश्चनरागी ॥ मूलग्यानश्वेतेकडभाकी
 ॥ ५२ ॥ मुधमसेनगेल्लपतिवाकी ॥ वल्लरंधकीसुहृत्कापी ॥
 ॥ ५३ ॥ श्वभ्रमुमश्ववाहनगरीश्वेतेहसामारगश्वगरी ॥ ॥
 ५४ ॥ पदमपुरीश्वयपारवलीजे ॥ श्वनहसानिजम्यानपतीजे
 ॥ ५५ ॥ श्वेताजकेजहाहसरहार् ॥ श्वमग्यानश्वनरुधबिसर
 ई ॥ ५६ ॥ सतरभानतेजउजियारा ॥ पदमपुरीहसागुलश्रारा ॥
 ॥ ५७ ॥ श्वप्रविधरासविलासुहुरभा ॥ श्वपरधरयहुम्यानश्वचभा
 ॥ ५८ ॥ सहंसपद्मजोजनप्रवाना ॥ येतापदमपुरीबयाना ॥ ५९ ॥
 श्वनगरीबईशतगहरी ॥ पश्वरमधाराश्वतबहुसहरी ॥ ६० ॥ श्व
 मरीपश्वगमापुरवानी ॥ सहसमुजाजहाहसविमार्धी ॥ ६१ ॥ ला
 यशकछत्रकीछया ॥ श्वेताश्वेतेमसराया ॥ ६२ ॥ श्वदसि
 धनेनिघण्णैरासी ॥ श्वनहदबाजेरासुबिसासी ॥ ६३ ॥ मल
 कीरमकरदभियक्रजिनैसैकलउरेमकक्र ॥ ६४ ॥ लासप
 दमश्वेताजोनप्रवाना ॥ श्वमपुरीश्वनमूलठिकाना ॥ ६५ ॥ वि
 मोटपुरीकीबिधहेभारी ॥ जहासकलसुनिश्वद्विपुरारी ॥

- ॥ ६६ ॥ सहस्रसुषी ब्रह्माविसतारा ॥ दुर्गुनभुजा ग्यानकी धारा ॥
 ॥ ६७ ॥ सोसो यदमसुकट मणि धारा ॥ ऐसे ब्रह्मा अंनंत विचारी ॥
 ॥ ६८ ॥ सिन्याभु मरतन बङ्ग सोभै ॥ गनगंडफकातन मनलोभै ॥
 ॥ ६९ ॥ अग्ररषील सोभै अतनी की ॥ ग्यान अमानन का गजली की ॥
 ॥ ७० ॥ आनंदपुर का सन अधकारा ॥ जहां ईद अंनंत ग्यान धूमा ॥
 ॥ ७१ ॥ सोसो संग उर बसी सोजे ॥ अग्ररवान भरमार निबाजे ॥
 ॥ ७२ ॥ सोकोर कोयल और मोर ॥ ये कउर बसी राम च मोरी ॥
 ॥ ७३ ॥ सपत सुरौ सैंगवे ऊंची ॥ जोग जुगत सभ जोने कूंची ॥
 ॥ ७४ ॥ अम्रक छपातर है पतनी ॥ त्रिगुन ग्यान ध्यान मै रतनी ॥
 ॥ ७५ ॥ नष चं दाल षसूर समूला ॥ ऐसे जिन के हैं अस थूला ॥
 ॥ ७६ ॥ नकबे सर बिंदा उजियारी ॥ दामन दंत नूर चमकारी ॥
 ॥ ७७ ॥ अग्रवान की चयह मेलं ॥ नौस्तहार बने पच मेलं ॥
 ॥ ७८ ॥ सूरज किनके सब डुरंगी ॥ अधरना चहे चाल विहंगी ॥
 ॥ ७९ ॥ सतरगागर सुकट जहूरा ॥ राग छनी सहीत सरपूरा ॥
 ॥ ८० ॥ बीना ताल षषा वजप करी ॥ अन हृदपुर की गावज करी ॥
 ॥ ८१ ॥ अटपटा राग प्रषन ही अर्वै ॥ सुने गुने वह बल होय जावे ॥
 ॥ ८२ ॥ भौंहलिलाट पलक कुरवाना ॥ मारत फिर अग्ररके बाना ॥
 ॥ ८३ ॥ अटगजीन तन देहन काया ॥ जैसे रागी राग सुनाया ॥
 ॥ ८४ ॥ मधुर बीन बाजे सुरबीना ॥ ज्युं दरिया में पैठै मीना ॥ ८५ ॥
 पंछी पीछे षो जन पावे ॥ ऐसे सत गुरत तल षोवे ॥ ८६ ॥ ऊंचे सुर
 सैंगवे बानी ॥ गनगंडफ होवै गलतानी ॥ ८७ ॥ जैसे अल्ल पंषका

गमना ॥ धेसी डुरभागावति भवना ॥ ८८ ॥ रत्नबीरजजाकेन ही
 रीऊ ॥ पेठ पीठतनखगनकोऊ ॥ ८९ ॥ सबदसुदमस्वातनेसे
 जाके ॥ धिसि डुरभायानीभाये ॥ ९० ॥ इडकेट चविवाहाजोरी ॥ चा
 नएप्रभेयेलेहोरी ॥ ९१ ॥ कोसतमममुकताहसमुकट ॥ तेसपु
 जकेचोराबिकट ॥ ९२ ॥ विनहीचोरीकेसरवरधे ॥ ऊउनवबीर
 सुसालकोनिरये ॥ ९३ ॥ गूजीभवरस्यतमच्याकतूहेप्रमपिचर
 कीजीनीभूहल ॥ ९४ ॥ लाषपदमजोजनप्रधाना ॥ चामदपुर
 कायहुउनमाना ॥ ९५ ॥ श्वगरमालेधेरीपसुनीजे ॥ सभूदेवर
 हेदिलदीजे ॥ ९६ ॥ जहाजरासूटमुनियरमहमेता ॥ श्वनमि
 नवेघतासनहीषता ॥ ९७ ॥ रिधिसिधिसुफतभशरभरेहे ॥ गड
 फसुषकजोरधरेहे ॥ ९८ ॥ रूमीपलकसबदेमेतासी ॥ प्रलोसय-
 गर्देजवमारी ॥ ९९ ॥ सधोसकजोगदिवाना ॥ धोमेकहाकहुठन
 म्बना ॥ १०० ॥ गीरजसगविराजेपतनी ॥ सभूजोगध्यानसेरस
 नी ॥ १ ॥ कोसतमनिहेसकलसरीरा ॥ सहसपदमतनजरे-
 पमीरा ॥ २ ॥ कोटपदमजोजनप्रधाना ॥ श्वमालेधेरीपदिवाना
 ॥ ३ ॥ श्वरुमीनरहेअम्हभ्यानी ॥ श्वमूलनाथजुयाजुगध्यानी ॥
 ॥ ४ ॥ निरशनसुरिबेकुठविनानी ॥ जहादिवानाचावेदेप्रकमी
 ॥ ५ ॥ पदमलीरूपपधमहीध्यान ॥ लाषप्रकासकोटससिभान ॥
 ॥ ६ ॥ धेकुठबिकटपयहेभाई ॥ चनहरगजिवहुगतध्याई ॥ ७
 ॥ कटकहुनगुलगरगलीथा ॥ प्रेमनगरमेप्रेमकीकीथा ॥ ८ ॥
 ॥ जोगनधरषेपहमप्रधाना ॥ धेकुठनमरसुमेखसधामा ॥ ९ ॥

मसतानपुरीहैंधिंगीलोकं ॥ देषादेषीसुरतसयोषं ॥ १० ॥ जहांदु
 दबादचरचानहीबानी ॥ अमरकछजहांहंसचिनांती ॥ ११ ॥ चू-
 मतरहैंचुमानदिवाने ॥ चरचाप्रचाकछूनजाने ॥ १२ ॥ टगट
 गापुरीटगाहीरोपे ॥ धूमाधामीकछूनकोपे ॥ १३ ॥ सुरगभिल्ल
 जिनकेनहींआसा ॥ कंदकपूरलीयातनवासा ॥ १४ ॥ गहग-
 हबानीसबदनिवासा ॥ प्रमतनजिलमिलप्रकासा ॥ १५ ॥
 बिनहीबोलिकहस्मजावे ॥ इच्छामेटेंसबदमिलावे ॥ १६ ॥ बि-
 नहीबानीकरेंबिलासा ॥ जिनकोअष्टकमलनहींस्वासा ॥ १७ ॥
 गतमतजिनकीलघीनजाई ॥ रूडमुंडमोलैगतसाई ॥ १८ ॥
 घरबपदमजोजनप्रवाना ॥ मसतानपुरीकायहुउनमाना ॥
 ॥ १९ ॥ सोकोरपुरसेसपरसाजे ॥ अचअचलमंदलावाजे ॥
 मंक्रतारमारगकहलावे ॥ सुरगचढेपतालोधावे ॥ २० ॥
 तीमनगरपरचिनसतमहला ॥ सतगुरबिनानपावेगैला ॥
 ॥ २१ ॥ भेदीसंगमिलेंदिलदानी ॥ जदयाहपावेअकथकहानी ॥
 ॥ २२ ॥ पिथमअनजलसंजमराषे ॥ जोगलछनसबसतगुरभाषे ॥
 २३ ॥ किरियानीमरानेसवषाने ॥ धोतीनेतीकरिअस्थाने ॥
 ॥ २४ ॥ अग्नीवज्जीबंधैबाई ॥ द्वादसषेंचपतालस्माई ॥ २५ ॥
 बाभाचरनगुदामेलावे ॥ आसनइंद्रीमूलसमावे ॥ २६ ॥ दह-
 नाऊपरअसथरराषे ॥ दोसुरषेंचपतालोधावे ॥ २७ ॥ मेरंड
 इंकूराषेसूधा ॥ जाकाकमलनहींवेसूधा ॥ २८ ॥ दसकादगडा
 मंजनमाजे ॥ सुनकासुरमाअंजनआजे ॥ २९ ॥ रामरसा-

यनपूतघबोवे ॥ इलापिपुलाफेर चलाये ॥ ३० ॥ सुपमचुरा
 लगाविंध्यान ॥ चदछरसुंदै ससिभान ॥ ३१ ॥ दोमुपकीन्याग
 गहस्यावे ॥ मेरउडुकुडलटबहोवे ॥ ३२ ॥ भुमीधारवरपा
 समूलममागनकीनीचिसिरकूल ॥ ३३ ॥ कालीऊनकस्त
 जठराश्रगनजीतसुरग्याना ॥ ३४ ॥ कालीऊनधोयविनपानी ॥
 पेचसयोस्तेहोयसमानी ॥ ३५ ॥ सुधात्रिधाताहनव्याये ॥ नैद
 नीदकासनहींजाये ॥ ३६ ॥ हिदेश्यगपाजायजगावे ॥ जिसेसे
 ससहंसकनगावे ॥ किलियर्जहरियसोह ॥ गुजगायत्रीसिदि
 लपोष ॥ ३७ ॥ तुसीतुसीररकाररटरसना ॥ खेसैत्रिकुटीनह
 तर्नेषसना ॥ ३८ ॥ पलकमूदकरयसगहसावे ॥ बामायेसे
 हनेध्यावे ॥ गदनिदकुउलटपलावे ॥ त्रिबेनीभारीचचावे ॥ ३९
 ॥ पीथेचब्रजलमेसुमारी ॥ दोरतखदरबुहेकिवारी ॥ ४०
 ॥ धिबेबातगगनकुध्यावे ॥ पेठपतातसेसगहिस्यावे ॥ ४१ ॥ क
 मखकुरभरदानी ॥ सेसगगनधरतीबजानी ॥ ४२ ॥ चकसुत्र
 चभामोहसंदेसा ॥ कीनजुगतगहस्यायेसेला ॥ ४३ ॥ सतगुरये
 तावेसदियाय ॥ बिनकुरखडुबागीकाया ॥ ४४ ॥ सुर्तिबानकमा
 नचढाई ॥ सुटसाग्गिनपिडकरस्पारे ॥ ४५ ॥ दसोदसाकेदि
 मैदाना ॥ चदछरयेकेभरव्यान्या ॥ ४६ ॥ अगमूलमेफूलफु
 लरा ॥ अलाषहागगसहसमुषधारा ॥ ४७ ॥ नकअबरपरियि
 वरभाती ॥ भोरुफामेलागीतारी ॥ ४८ ॥ अषडमडलेको
 याना ॥ तापरहेजोगमखसथाना ॥ ४९ ॥ सुरतकमतकुपूज

बिचारो ॥ जाओगेनीकैपगधरो ॥ सुरतकमलसतगुरहेभाई ॥
 जिनअछेब्रह्मकीराहवताई ॥ ५० ॥ समाधानमेंसुरतसमोई ॥
 दीनामरूचाफूलेदोई ॥ ५१ ॥ दीनामरूचाबागमंजारा ॥ फूल-
 चंबेलीन्यारान्यारा ॥ ५२ ॥ रायचंबेलीअगमीरासा ॥ गगन-
 मंडलमेबागअकासा ॥ ५३ ॥ सूरजसुषीहजाराफूले ॥ सुरत
 कमंदकेबांधेफूले ॥ ५४ ॥ कमलकेतगीबहुबिधेभोरा ॥ बि-
 नपंथीकेसूचेंभोरा ॥ ५५ ॥ हालहिजूरनिकटेहेनेरा ॥ देषोज-
 न्मसिरायहेनेरा ॥ ५६ ॥ दसलषपंथसेसकैआगे ॥ पंथीकोक
 हिदगोरेलागे ॥ ५७ ॥ तीसपंथरोडीहेभाई ॥ जैसेअलविजूर
 धसमाई ॥ ५८ ॥ सुकतपंथकाकहूसंदेसा ॥ जाकाध्यानधरत-
 हेसेसा ॥ ५९ ॥ अयडोरयेकमारगहेजीना ॥ तापरअच्छरधाम-
 पवीना ॥ ६० ॥ मंक्रतारहेमारगधीरा ॥ अदलीपुरषषवासक
 वीरा ॥ ६१ ॥ जहांचाटबाटनहींअलगअलहदा ॥ सुखमरूप
 सिमसिररहदा ॥ ६२ ॥ दोहा ॥ लषजोजनपरलषहे ॥ ल-
 षजोजनपरलषसषइकीसअसतलपुरी ॥ कोईनचछतास
 क ॥ ६३ ॥ चित्रभूजीहेरूपहमारा ॥ अष्टभुजीअनभैपसारा ॥
 ॥ ६४ ॥ सहंससुजासुरग्यानीगोवें ॥ मूलग्यानकोईबिलेपावै ॥
 ॥ ६५ ॥ सुगधनराक्याकहेंकहानी ॥ मूलग्यानकीराहनजानी
 ॥ ६६ ॥ मूलग्यानसेसागड्डराऊं ॥ सुरतकमलधरहरफउडा-
 ऊं ॥ ६७ ॥ सोजोरचकइकतनिया ॥ कैसेध्यानधरतहेंमुनिय
 ॥ ६८ ॥ सोजोरपदमपरकासा ॥ अगमग्यानकहांपावेरासा ॥

॥६५॥ सीसीकोरसंघपुरभेरी ॥ अनभेनालनगावैचेरी ॥ ७०
 ॥ सीसीकोरपधावजवात्रि ॥ अदलनिसाफफजलघरबात्रि
 ॥७१॥ सीसीकोरमजीरमहली ॥ धुरकीबातकहेकोईसेली
 ॥७२॥ सीकोरमुरलीमुषटेरा ॥ येकमसुरामेवायाचेरा ॥
 ॥७३॥ रामहासासनगुरसहजदे ॥ भगतकाजयोभयेपिय
 दे ॥७४॥ सीकोरजालरदरियार् ॥ मुकननजेरेबात्रिभाई ॥
 ॥७५॥ अवनधूमखगमीगळबका ॥ सीकोरमुंघराकोरम-
 का ॥७६॥ सधभुजासेलानसरीरा ॥ सोहबेदीरणीकबीरा
 ॥७७॥ काठपुरषककहवियाना ॥ अडेहहमराखसथाना
 ॥७८॥ सधपदमजिलमिसजगियरा ॥ अघकदफालकोरेसहा
 रा ॥७९॥ दोडा ॥ जेजेजेकनामई ॥ जेजेजेसगदीस ॥ जे-
 जेजेजगतेगुर ॥ पूरणविसेववीस ॥ ८० ॥ सधगामकीसतम-
 नकेरा ॥ काठजनखवरनेचेरा ॥ ८१ ॥ जयरमयबहुदिलमि-
 लज्याही ॥ आठआठकुधपावैज्याही ॥ ८२ ॥ प्रमानरपुरपतीमाष
 ॥ अमससोकाजिनन्यचनचषा ॥ ८३ ॥ अघगतसभगतसाजे-
 जोही ॥ डेरेबधकहेनिरकेही ॥ ८४ ॥ विघसजोगनपावैकेहे
 जेसेकातेसाहेसोई ॥ ८५ ॥ लघुदीरयकुधकह्यामजार् ॥ अ-
 खबीजमेरसासमाई ॥ ८६ ॥ मूससुमरूरमषसेरा ॥ स्वाद-
 सुमद्रहाभाडेरा ॥ ८७ ॥ नाभसुनमैहेमरहरी ॥ मनमनसा-
 रोरीपकाधरी ॥ ८८ ॥ हिरेसुनस्योसकतीसेवा ॥ कदसुम-
 नसासुनतेमेवा ॥ ८९ ॥ नैततनादरहेकरमाली ॥ सुपनसु

क्षेपतिजाघृतज्याही ॥ ९० ॥ तुरियापदकीषबरनपावे ॥ जु
 गनजुगनजीजूनीश्रवे ॥ ९१ ॥ तुरियासुनमेंतालबनोरा ॥ तहां
 वंहाहंसालबोडोरा ॥ ९२ ॥ भवरसुनमेंभाटीझोवे ॥ संषकला ।
 जिलमिलछविद्विवें ॥ ९३ ॥ कुलफसुनकलधूतविराजे ॥ चट
 बिनसेमहंततहीसाजे ॥ ९४ ॥ नौआकारगयेकहांभाई ॥ तनछू
 टेमनकहांसमाई ॥ ९५ ॥ ज्यूसिंधजालभोरशोरभोरी बुदबुदजा
 गफीलबिलोरी ॥ ९६ ॥ कारिकारनभयासिवाला ॥ नौआकार
 बंध्यागुनपाला ॥ ९७ ॥ सिंधलहरउतपतहोषश्रवे ॥ इनमें
 मृतककोकहलावे ॥ ९८ ॥ चटमटमरेसुकतनहींपावे ॥ मह
 ततचीन्हेंसबदसमावे ॥ ९९ ॥ महततमूलसारहैभाई ॥ तन
 छूसूंमनतहांसमाई ॥ १०० ॥ महततबाहरभीतरगाजे ॥ सिस
 गचारसमधतिससाजे ॥ १ ॥ महततमौलारूपसुरारी ॥ बार
 पारनाहींब्रह्मचारी ॥ २ ॥ महततमिलैसमौलापावे ॥ विनम
 हततमौलाहाथनश्रवें ॥ ३ ॥ महततरूपसुनहैभाई ॥ मौला
 तेजसुंजपदज्याई ॥ ४ ॥ महततसुननघतहैभाई ॥ जापरमो
 लाशाशात्ताई ॥ ५ ॥ मनमायामहततकीषानी ॥ उतयतपर
 लोहेरजधानी ॥ ६ ॥ नौततलिंगसरूपसरीरा ॥ मनमायाका
 मोहिषमीरा ॥ ७ ॥ कीडीकुंजरशोरशोतारा ॥ नौततकेकास
 कलयसारा ॥ ८ ॥ नादविंदशोरकायामाया ॥ नौततज्युनी
 संकटश्राया ॥ ९ ॥ नौततबीजवृद्धहैमौला ॥ अनंतलोकमें
 कुंदरोला ॥ १० ॥ सकलजूनमेंनौततनागा ॥ पांचततकापह

देवता ॥ ११ ॥ श्रीगणेशकाकथाविचारा ॥ स्मरैशुनीमुनिविप
 भारा ॥ १२ ॥ चारमुकतनीततहेभार ॥ सपतहरीकासजक
 मार ॥ १३ ॥ सुरगनरकबिहुदखिलासा ॥ नीततकेकीरुहीवा
 शा ॥ १४ ॥ पाशतननीततकिसकाजा ॥ जबलगलधेनश्वबग
 राव्य ॥ १५ ॥ शब्देबुधहेधामहमारा ॥ सोहबेरीमूलउचारा ॥
 १६ ॥ मूलमकरतारहमपाया ॥ सहजेपिउधरतरेकाया ॥ १७ ॥
 रक्षाबीजनहीसुखशासा ॥ शुगजुगर्षेलेभगतबिलासा ॥ १८ ॥
 मूलग्यातहेशकथकहानी ॥ राजपाटजूरिगधानी ॥ यावश्व
 तहेमूलसदेसा ॥ पूछेमारदसुषदेसेन ॥ १९ ॥ नीरधीरहम
 यदुविषकाशा ॥ सतगुरमित्याकबीरबिवाता ॥ २० ॥ भगतवि
 षाहमकूबतलारि ॥ श्रस्तारसकुचपडदामाही ॥ २१ ॥ नेम
 नबेनकोरसेनसरीरा ॥ बादशतधोरमपकबीरा ॥ २२ ॥ त्रिप
 वारूपअननहीधो ॥ भिफुटीकाकारहेहमारे ॥ २३ ॥ छत्रसेत
 सेजगुलजारा ॥ श्वबगरूपअनसेन्यारा ॥ २४ ॥ धरनुवुलीषे
 धेदेवारि ॥ धूमिधिरश्वगनहीलारि ॥ २५ ॥ गगनमडलकूकरे
 पियाना ॥ आयरहेषयनेश्वसथाना ॥ २६ ॥ दमदेवलेभिसुर
 तसरीर ॥ शब्देहमिलरहाकवीर ॥ नगरग्यामजिनसीसु
 नभारि ॥ श्रीगणेशनीशाहयतारि ॥ २७ ॥ सकलखुनमेतानाता
 नि ॥ नीरधीरकयाविषकाने ॥ श्वस्यपलकमेदेश्ववगी ॥ या
 हरभीतरखचलश्वभगी ॥ २८ ॥ दोहा ॥ सुरतकमलकी
 गर ॥ परशब्देबुधबिसतार ॥ सेससहसमुपरटतंदे ॥ श्रीसच

क्रुसिमभार ॥ ३० ॥ रतनसिंघरतनहुंकीषानी ॥ चक्रसुदृषा सं
 पंसमानी ॥ ३१ ॥ देसा ॥ गुनइंद्रीश्रीरबीजबिध ॥ कहसम
 जईतोह ॥ पारसपदसें प्रसतेकचनहोवेलोह ॥ ३२ ॥ जैनुंसन
 सुजानसयाना ॥ श्रैष्टेष्टकंकरौपियाना ॥ भिनभिनभेदतोह
 सेभाषा ॥ नुपरमूलतेरकंसाषा ॥ ३३ ॥ भिनभिनभेदकहुंगौहरा
 ई ॥ दहुंदसदोनामरूवाछाई ॥ ३४ ॥ कोटभानयेकफुलफुहारा ॥
 रायचंवेलीमधबिसतारा ॥ ३५ ॥ दोनामरवादीरचदेसा ॥ सत-
 करमानोंसवदसेदेसा ॥ ३६ ॥ सतब्रगफूलगुलजारानीके ॥ आ
 वग्रंतहेजीवनजीके ॥ ३७ ॥ लीलचक्रलीलीधजधारा ॥ गगन
 मंडलछयेगीनारा ॥ ३८ ॥ सुरगंसमूलपहुंप्रषाई ॥ दोनामरू
 वाजूकजूकआई ॥ ३९ ॥ सोरनकलसअरसमेंसाजे ॥ सतगुरमि
 लेंतबेगनिबाजे ॥ ४० ॥ बूठेकीबाटवटाऊंजाने ॥ जोकोईलावैचोट
 निसानें ॥ पंछीषोजमीनमचमोला ॥ रकतनपीतनकालाधोला ॥ ४१
 अग्रमध्यानधरसुनमैपैठे ॥ अललरूपसिधआसनवेठे ॥ ४२ ॥ उन
 मनभौरीभोरउडोवै ॥ पंछीषोजनजरजबधोवै ॥ ४३ ॥ मारगमी
 नमक्रसुकतारा ॥ देषोहंशारूपहमारा ॥ ४४ ॥ जितसेंबिछरुा
 तहंलेजाऊं ॥ उलटपंथकीराहलषाऊं ॥ ४५ ॥ दोहा ॥ जूनीसं
 कटमेठहूँ ॥ सबदसेदेसादीन ॥ दासगरीबअचपुरी ॥ सबद
 सिंधल्योलीन ॥ ४६ ॥ अथअरजनामालिसने ॥ सतगुर
 मिहरगानकीजोसहाय ॥ जलथलसकलसंगभोलेमलाह ॥ ४७ ॥
 जलबूंदसेमाजकीन्हानीसान ॥ जठराअगनिवीचराषेअमान ॥

॥२॥ जठराश्रयगनिबीचराये सही ॥ अश्रुतशमीधीरप्यायाम
 ही ॥ ३ ॥ नापेदसेपैदकीन्होहेपिउ ॥ जामेभवरषरसक्रही
 हेँषड ॥ ४ ॥ स्वासासहसधुनसरीकतसरार ॥ वैकवलबिस
 साजोकीन्हकरार ॥ कुरबानकुरबानकुरबानजह ॥ भैके द-
 रियाधीघपकरीहेवाह ॥ ५ ॥ निहचलनिराशारविगुनघन
 प ॥ अशपरशनाहदसलाहदसरूप ॥ ६ ॥ रहगाकुरसके-
 जपडेदेशदेय ॥ वैकेचगुननमूनश्लेष ॥ ७ ॥ यासिकघलक
 वीचहागरहशूर ॥ यजेसुहम्पविहरामजोदूर ॥ ८ ॥ मोसेमुगरी
 श्रगरीशुलाल ॥ तावीचसाहिबसुभानविसाल ॥ ९ ॥ यानेच-
 रषाशरकरीकाजाम ॥ लटककरुमेरीसीजोसुलाम ॥ १० ॥ मि-
 लेसाहिबमेरीमेरोनिसक ॥ मोसेपततेतेउधारेषसष ॥ ११ ॥
 साहिबचितानदसगुरखलेष ॥ मोसेपततेतेउधारेषनेक
 ॥ १२ ॥ अगहेशमरीपऊचासुमेर ॥ कैसेचजेजोफिरगीहे
 फेर ॥ १३ ॥ तुहीहेँतुहीहेँतुहीहेँसुभान ॥ नापेदसेपैदकी
 न्हाजिहान ॥ १४ ॥ तुहीहेँतुहीहेँतुहीहेँश्रजोष ॥ नापेदसे-
 पेदकीन्हैसोक ॥ १५ ॥ तुहीहेँतुहीहेँतुहीहेँहकीम ॥ ना-
 पेदसेपैदकीनाशुकीम ॥ १६ ॥ दुनियादिवानीविग्यानीविका-
 र ॥ स्मजेनबूजेखनारीगवार ॥ १७ ॥ साहिबदयावनश्रवग
 तश्रपार ॥ सोहसोहभीराशुजार ॥ १८ ॥ दुनियाविलोमानहो-
 तीहनेज ॥ कीजोवेयारीप्रमहसयेज ॥ १९ ॥ फनाहेफनाहे
 फनाहेसगार ॥ मारीमित्तैगजोकतासिमार ॥ २० ॥ हसतीर

घोशरजोराजहान ॥ फनादीनदुनियांजिमीअस्मान ॥ २२ ॥ रा
 जानरईतरहैगानकोई ॥ रहैगाचितानंदउपज्यानसोई ॥ २३ ॥
 ॥ भाईभतीजेरजोरूमाल ॥ देखैगैलडकेजोहोगाहवाल ॥ ॥
 ॥ २४ ॥ दादीरफूफीबाहनरूवैगीरूह ॥ ज्यअनिपगरेगादू-
 हवरदूह ॥ २५ ॥ मोसीरमामाअलामाजहान ॥ सुषदेकूं पूछो
 जोविरक्तप्रवान ॥ २६ ॥ हजारबारतोबाजोषेचैहदीस ॥ कहोको
 नमैटेगाजमकीकसीस ॥ २७ ॥ काफ्रकदबाधषातेबकरीद ॥ ज्म
 कीतलबकैसेहोयगीरसीद ॥ २८ ॥ मुरगीरबकरीरखंडारखे
 धूनीभेषेहैसरेकजचोर ॥ २९ ॥ चाकुरचरबादारदेषेधवास ॥ ज
 बअनबीतैगीज्मकीआस ॥ ३० ॥ करियोवेयारोकुछचलनेकासु-
 ल ॥ इगहनपहुंचेनवीजोरसूल ॥ ३१ ॥ महमदनकीशूनपाया
 हैराह ॥ अरसपंथबांकोहैअगमीअगह ॥ ३२ ॥ सोरेकीसरीकत
 जहैनदीन ॥ उलगअपूछापसोहेजमीन ॥ ३३ ॥ दोजकीभिलका
 जदेष्ठाहैअंत ॥ याबीचजमरायतोडैहैदंत ॥ ३४ ॥ दोजकीभ
 लकाजुदेष्ठाउनमान ॥ याबीचजमरायकोछेजुबान ॥ ३५ ॥ दो
 जकीभिलहैजुबकीउजाड ॥ याबीचजमरायतोडैहैजाड ॥ ३६ ॥
 करियोवेयारोषजानाषरीद ॥ संगनाचलैदेषोदीदवरदीद ॥
 ३७ ॥ संगनाचलैगासूईअरुसुमेर ॥ काफ्रकुटनकरतेचेराही
 चेर ॥ ३८ ॥ फ्रकमकरकाफ्रकरजान ॥ अहरनकीचोरीस
 ईकाजुदान ॥ ३९ ॥ मूंजीसुजावरऔरपापीप्रेत ॥ स्मकासु-
 सराहाईस्नहेत ॥ ४० ॥ सतगुरचितानंदअवगतअमार ॥

कृष्णानेकारतुम्हरेप्रधार ॥ ४१ ॥ सुतोपुनकासामानमर्तक
 माल ॥ देवीत्मासासभङ्गाद्वनकमाल ॥ ४२ ॥ हीलकेप्रवरमे
 नानाहमेत ॥ प्रेमपदपारसकारिभेठपदेस ॥ ४३ ॥ बुधिका
 देवघत्रप्रोरपाघरप्रतीत ॥ सोहजपमालाभजसबगतप्रतीत
 ॥ ४४ ॥ सुधिकीवजुमप्ररुटिठकीदेवाल ॥ पितकीवोषष
 मधभरसहइहाल ॥ ४५ ॥ योनकापलीताप्रोरगोलागुलम
 र ॥ ॥ वेदलकीपिरकीसैरतरोपोपार ॥ ४६ ॥ म्यानकीवा
 कीसमाधीगलताम ॥ एबाकेपुल्लेसेपरधरमेकेनिसाम ॥ ४७ ॥
 सादसरसाकीतनकृततकीत्रवार ॥ घरपउरधतकियेविचपुरम
 नकूसार ॥ ४८ ॥ नामकीनौकाकरमनकमलाह ॥ पितकाचर्पू
 लेसुरकीसैचलाव ॥ ४९ ॥ घरसमैसासणसिंघासणसमोय ॥
 उदतभानर्षदसूरसषकलाप्रोप ॥ ५० ॥ ततकातोतिसककरिले
 गायत्रीसाप ॥ घनसिपरगर्भित्तमज्योषजयाजाप ॥ ५१ ॥ अठ
 सठकान्धानाविधिमीकेतीरखवगीसाहिबभजकायमकमीर ॥
 ५२ ॥ मानकोवरदरपाजहापुगनेहैइस ॥ लंगेमेबगोताम
 जाभेटेप्रमइस ॥ ५३ ॥ खखेबुधप्रसकीचफूस्पागुलजार ॥
 प्रयपरमकाममोहपायेदीरार ॥ ५४ ॥ पानपानबिद्याबैठे
 ल्योविरससेहा ॥ सतगुरकुरबानजाऊस्येसेउपदेहा ॥ ५५ ॥
 सतपुरबित्पनंदमाखनमोह ॥ निरगुननिरालभगान्याहेतोह
 ॥ ५६ ॥ कासेकाइभेवप्रवरदियार ॥ आन्वाहमअन्वाहैसबगामप्र
 पार ॥ ५७ ॥ घरसवीविबैव्यापुमादेगिलोल ॥ देवोवैपोरोकभन

हींतोलमोल ॥ ५८ ॥ पीतंबरपटमैहै बुद्धिमसारूप ॥ सुरतिना-
 लचलताहै छायाहेन धूप ॥ ५९ ॥ सतगुरश्रवाजीनिवाजीलिला
 ट ॥ सुनेंधरजनामापटराकेजुघाट ॥ ६० ॥ ब्रह्मतेजतालिहमाली
 हजूर ॥ अग्रपंथपायासमायाजहूर ॥ ६१ ॥ सतगुरसरीकतहकी
 कतजुबाब ॥ कहेकोनलेगासरेमैहिताब ॥ ६२ ॥ मोलेमिहरवान
 मालिकसुरारि ॥ हीराहिरंवरचूंहीबारपार ॥ ६३ ॥ सतगुरदियंब
 बिसंधदयाल ॥ पलमेंनिवाजेजुनजरीनिहाल ॥ ६४ ॥ अग्रग्या
 नरासापुलासाजुसेल ॥ पपीलीनपडूंचैजोलादेहैवैल ॥ ६५ ॥
 कहताहैगरीबदासब्रान्याहैनीरपीर ॥ कुरबानकुरबानकुरबानका
 यमकबीर ॥ ६६ ॥ अश्रुभयान्तमालश्रजनामालिषतं ॥
 सतगुरमिह्वानश्रवगतकबीर ॥ टूटैइस्मानालज्मकेजंजीर ॥
 ॥ १ ॥ तीरथब्रतजगकरतेसुमेद ॥ गुनग्यानपढतेसरुच्यरिवेद
 असमेदकोटकरैंधरमधीर ॥ अश्रधनामरापतितिरेसुधसरीर
 पापीअजामेलधरियाजध्यान ॥ गनिकाचटीजायतुम्हरेबिबान ॥
 ॥ ४ ॥ पापीअजामेलकोनेअधार ॥ बैकुंठबासीनिवासीविचार ॥
 ॥ ५ ॥ पापीअजामेलपीयाश्राव ॥ भांडीजगतवीचषानाषराब ॥ ६
 असेपतनकीजयकरीहैबाह ॥ कामीअजामेलदीनानिबाहि ॥ ७ ॥
 भीलनीभलीभांतबाजेनिसान ॥ षटक्रमकीन्हेनअसीअजान ॥
 चरनकीजचेरीचितानंदध्यान ॥ बैकुंठबासीनिवासीअमान ॥
 ॥ ८ ॥ सदानासरीकतरालाकाटषाय ॥ सतगुरछुगईसुरह
 बंधगाय ॥ ९ ॥ सदानाजगननाथचालेजराह ॥ दीनाबैस-

गनमनोरेचिनाय ॥ ११ ॥ छरिपामनारधनीकेकुक्रम ॥ लागैल
 गारमुसगततुषम ॥ १२ ॥ सदनाजगननाथकीन्हामुहारादी
 नाबिनानीधनीफूरीदार ॥ १३ ॥ माटीतुलैनालभाटाबटबसद
 नाकीपाषानधेसाधारम ॥ १४ ॥ पाषानधोषेदुनीफूजदेस ॥
 सासिगसिसापानसदनामुहेत ॥ १५ ॥ सदनाकरमकाटकीन्हा
 सुनाथ ॥ मोहनभेहेधनीजगननाथ ॥ १६ ॥ तपियाजगपकी
 तभेटेनराम ॥ परेसोरीयाहारकीमाविश्राम ॥ १७ ॥ लोदीकहे
 सिरघाटाजलेह ॥ तपियाकहेमेरामेरोसदेह ॥ १८ ॥ धुनहीसु
 नहीबावरसीन्हाबिचार ॥ सोरीघेलेदेपोषेलनसिकार ॥ १९
 साधोजनावरधनीकेनध्यान ॥ लोरीकदकाउघातीकजान ॥
 २० ॥ आयेबिसंधधनीजानराय ॥ मुकटसीसछत्रपदमहेज
 पाय ॥ २१ ॥ साहिबबिसंधधनीजगननाथ ॥ लोरीकदडारप
 कस्याजहाय ॥ २२ ॥ अनेविसभरतपीकेजपास ॥ लोरीधर
 नबाधजारीमुस्तास ॥ २३ ॥ साहिबबिसभरधनीतूदबाल ॥
 राभीफूवादेवरोदिकेनाल ॥ २४ ॥ मुकतपिउप्रानप्रमान
 प्रमान ॥ तपियारलोरीकीयेहेप्रवान ॥ २५ ॥ आयेसाधू
 पाहुनेजगनकाकेपास ॥ लीजेसतसीधाजकीजेनिवास ॥
 २६ ॥ कुटलधानतुन्हाराकहेकीनयाय ॥ बोलेसुरतसत
 हमरेनवाह ॥ २७ ॥ ताषद्ववसागेमुकटदुमुरारसिरधरज
 गननाथकीजेमुहार ॥ २८ ॥ वेस्वबिसंधकीयेहेजपाद ॥ पूर
 णकरोमेरीसाहिबमुराद ॥ २९ ॥ सुतियनकीअतरशोर

हीसूकेचोक ॥ बेखाघडायामुकटध्यानसौष ॥ ३० ॥ चलेसंत
 बेखाजगननाथबाट ॥ आगूजभेजेपंडाजानआठ ॥ ३१ ॥ हरि
 कैदिवालेजुबेखाबिसाल ॥ किनीजगननाथपलमेंनिहाल ॥ =
 ३२ ॥ मुकटहाथसेतिलीयासिरनिहाय ॥ बेखामदनछूटपद
 मेसमाघ ॥ ३३ ॥ चलेसंतबेखानग्रकेजुराह ॥ दीजेभंडाराजे
 नाराजिमाय ॥ ३४ ॥ घोराहस्यायेकतसकबिचार ॥ बांध्याग-
 लीलीचहथाईचौपार ॥ ३५ ॥ राजाकुमैतीघोरेगैलआय ॥-
 षोजीकियाषोजघोरादिषाय ॥ ३६ ॥ मुसकीपलटअंगहोता
 सपेद ॥ घोराओहीसकलजान्याहेभेद ॥ ३७ ॥ घोराउलट
 बेगबांध्याजथान ॥ तसकरदीयाआनसाचाइमान ॥ ३८ ॥-
 सतगुरकहायेकसाचासुषन ॥ सकलधमट्टेजुच्यासौरुकां
 न ॥ ३९ ॥ दूजेलाईपेकथेलीउठाय ॥ सतगुरविनानीजक
 तेसहाय ॥ ४० ॥ चौकीदेरकीजपकथाहेआन ॥ बोलेजतस-
 कऊगेहेंजमान ॥ ४१ ॥ जहांसेंलाईहैजथेलीचुराय ॥ सुनां-
 यारनेरेजघोंहोंबताय ॥ ४२ ॥ षबरदारतसकरकीयाहैतहां
 षबरजायकीनीजथेलीकहां ॥ ४३ ॥ भाग्याजवनियांनगेन
 गनपाव ॥ रंगरेजकपडासपेदीचढाव ॥ ४४ ॥ काजीसुरेमेंम-
 चलकेलिषाय ॥ कहोकौनसिकाजहमकूंबताय ॥ ४५ ॥ मेरे
 रपईयेअहदसनेअैन ॥ यहुतोसिकाओरबोल्याजफेन ॥ ४६
 बनियापकरबंधलीनाजडाउ ॥ हसैचोरतसकलाईवांधपां-
 उ ॥ ४७ ॥ अैसान्नासाहूवाहैअमोघ ॥ तसककहैसाहदि

जानेसिलोग ॥ ४८ ॥ तुलसीबकमानचलियेउत्तर ॥ घर
 नफोखाजबेरोकिरार ॥ ४९ ॥ चार्इगसतफेरभागेजचोर ॥
 तुलसीघरुचानबरियाकडोर ॥ ५० ॥ चोभेभईमारफलटेज-
 केस ॥ तुलसीकलपकीनमेयाचरेस ॥ ५१ ॥ उलटीगसतचान
 कीनाइसूम ॥ घरचानघेसापरीहेजधूम ॥ ५२ ॥ फकरगेयेहे
 जातुरसीइसूर ॥ कहचोरतसकजनिकल्पाकसूर ॥ ५३ ॥ बे
 रोसगसतीलप्याघोरदाव ॥ गयोहेजतसकनजरकुराव ॥ ५४ ॥
 कोयेहेसाधूमरसीसाजपास ॥ हूडीकरोनेमरसीसासुरार ॥
 ५५ ॥ पासेरपहयेजरिन्हेहेरोक ॥ करोबेमहूडीदरानाचपोष ॥
 ५६ ॥ सुडसुडलीषीवेगणजमममाय ॥ डीकेरीयासाहसा-
 बलपढाय ॥ ५७ ॥ दरानघषीचपहुचेइसन ॥ पायानसाव
 सतीयोहेजसत ॥ ५८ ॥ दरानघकेमबोलेबकस ॥ नहीसाह
 साबलनरसीसाघरघाल ॥ ५९ ॥ करीहेजकन्याचबुनासुमद
 भयेसाहसाबलमेसाहिदगेबिद ॥ ६० ॥ घिसकीकरारेइजोर
 इमार ॥ बीनेबुचवेजोसाबलसुरार ॥ ६१ ॥ रोहरीकस्मयक
 बहिष्पविन्द ॥ भयेसाहसाबलमरसीसाप्रमोप ॥ ६२ ॥ चोरे
 गिनेवेगपलाविणय ॥ देवेदरानगरकेसकससाह ॥ ६३ ॥ घर
 चियायेसतोकीनेमुकाम ॥ दरानघवीचरिनिजदाम ॥ ६४ ॥ साव
 लसाहसतोसेनीमाबसेष ॥ नरसीसासूचदगीहूडीघोषने
 क ॥ ६५ ॥ पदसीचसीसानेरीनाभशर ॥ ६६ ॥ पीछेसाबल
 साहपहुचेपुखर ॥ ६७ ॥ बेटीचुलीसाकीमेसीचकाय ॥ ६८ ॥

लोपितानेरीधोतीकाव्याह ॥ ६८ ॥ मैनीधनिविषारीनहीमैरे
राम ॥ अऊगावेठीमैसुमरोंगाराम ॥ ६९ ॥ चसीलाषालीग
येपलाजाड ॥ आगेषडीयेकस्मधनउजाड ॥ ७० ॥ भातीआ
येहेजधीकेपिता ॥ केरूवैकेघाल्याजहमकूंबता ॥ ७१ ॥ स्मध
निकहेसषियोमैसुनाय ॥ दोभाटेघालेहेकरूवैपिताय ॥ ७२ ॥
चसीलासुनकरजोहूयेआधीन ॥ लजारषोमेरेसाहिवपवीन
७३ ॥ आयेविसंभरजोगाडेलराय ॥ ल्यायेमालमुकताजोकी
तीसहाय ॥ ७४ ॥ सूहेजरीबाबमसरूखपार ॥ गहनासुन
हरीअरमोतीहजार ॥ ७५ ॥ हीरेहरीभातलालीसुरंग ॥ चा
हेसदेवैचुटीधारगंग ॥ ७६ ॥ नगदीअरूजिनसीषजानेम
होर ॥ उनरैजरीबाबजीनीदहोर ॥ चुनरीचितानंदल्यायेअ
नूप ॥ जालरफनारीजरीदसरूप ॥ ७७ ॥ स्मधनसुलषनी
षरीहेजपास ॥ भरेभातनरसीजुहीखूनिवास ॥ ७८ ॥ घोरे-
तुरगमदीयेहेजहान ॥ अथबहलपालककीयेहेकुरवान ॥
७९ ॥ कलगिरऊवेसुनहरीहमेल ॥ हीरेजडाऊमोतीरंगरेल
८० ॥ नरसीअरस सुंदमैसीर गेबीषजानेअमानेजुचीर
८१ ॥ भाटेपेरेदोयधूधमाक ॥ देषेदुनीचिसमवेह्लैजआषा
चांदीसोनेकेहेभाटेजदोय ॥ स्मधनलीयामुषउलराईमोय
८२ ॥ नामापितालीयेपंचौबुलाय ॥ पूजाकरीहरिविठलरा-
य ॥ ८३ ॥ हरिविठलाकीकरेनामांसेय ॥ बोलतनाहीपाषान-
कादेव ॥ ८४ ॥ दूधपीवैनेगोबिंदेईसय ॥ बिनपीयेमेरामनन-

पिताय ॥ ८६ ॥ नामाकोरिलामेजदेधीसुध ॥ हरिविठलाका-
 नपीयाहेदूध ॥ ८७ ॥ मातपिताकहेकेसासुहार ॥ खयेततका-
 ललगाईनवार ॥ ८८ ॥ नामाकहेसुनमातापिताहरिविठलादू-
 धपियाजपाय ॥ ८९ ॥ मातापितादेधेमाताकानेह ॥ हरिवि-
 ठलादूधकेसेपीये ॥ ९० ॥ दूधकयेरासीयामाताहाथ ॥ चक-
 गितानामदेकीजसाय ॥ ९१ ॥ दूधपीवेनिगोविंदेमोपास्त ॥ मा-
 तापिताधमतेरीनेजाल ॥ ९२ ॥ पाहनसेपनमेस्वरहोय ॥ मा-
 तापिताघडेदेधेजदोय ॥ ९३ ॥ दोकरपकसाकयेराकसीस ॥
 दूधपीवेहरिविठलईस ॥ ९४ ॥ मातपिताकासुमेव्यासदेह ॥
 पीयादूधविठलमोनामासनेह ॥ ९५ ॥ गोकलगामकीगुज-
 रीगवार ॥ गईदूधबेचनसुधरानग्रपर ॥ ९६ ॥ ग्वानीगु-
 जीपडेग्यानसमाध ॥ मामहीनोकायोहीमंत्रसाध ॥ ९७ ॥
 पाडेकृष्णमनुमायासरीत ॥ गुजरीकेदिलेमेजोधाईप्रतीत ॥
 ॥ ९८ ॥ गुजरीनग्रदूधबेच्याविचार ॥ मामहीनोकामनेमे-
 रचार ॥ ९९ ॥ बहुरगईफेरपाडेकेपास ॥ चालीमिश्रगाम-
 तोरीमिदास ॥ १०० ॥ पाडेकहेनावशोधेजघाट ॥ स्वामीसेब-
 गदोन्यूचालेजघाट ॥ १०१ ॥ गुजरीकहेनामनोकाचकी ॥ सुनो-
 मूळपाडेहुमकाहेपकी ॥ १०२ ॥ पडिमकहेनामनोकाकहा ॥ मि-
 पाहज्मनाइमरहाहीकहा ॥ १०३ ॥ गुजरीकहेनामनोकामनी-
 क ॥ बिलकेवरियामाहिचलमानवीक ॥ १०४ ॥ गुजरीकहेनाम-
 नोकाबिधान ॥ पछुनगीन्याजठतरीधमान ॥ १०५ ॥ गुजरीकहेनाम

मेकाकहा ॥ पंडितगयाबुडघोररहा ॥ ६ ॥ साहिलजुलहदीअ
 लहकासरूप ॥ कासीनगबीचअधेअनूप ॥ १०७ ॥ जडेतींकवे
 डीगलेमेंजजीर ॥ गोदीसिकंदइइहेजपीर ॥ ७ ॥ डाखागं-
 गावीचदीनांडवोय ॥ रघनहारसुप्रथजडेतींकतोह ॥ ८ ॥ ॥
 हाथीषूनीबेगलीनाबुलाय ॥ मसकबांधडाखाहाथीकेजपा-
 य ॥ १० ॥ हाथीइससिंघइषादयाल ॥ कुरनसकरीदेषंबका-
 नबाल ॥ ११ ॥ पीलवानकूंआनदिहादीदार ॥ हाथीउलटमेड
 लीहासहार ॥ १२ ॥ कहनासिकंदरूकावोजफील ॥ कंरोवे
 गतउभडलगावोनळील ॥ १३ ॥ देव्याशिकंदरुदिवानाजसिंघ
 ॥ १४ ॥ आयेचितानंदकलाकोटरंग ॥ १४ ॥ दुदकारगूंजेचलेभा
 गफील ॥ देव्याशिकंदरुसध्यानलील ॥ १५ ॥ चरनधोयपी-
 येसिकंदरुसिताब ॥ तूंहीअरसमकानुंहीहैकिताब ॥ १६ ॥
 दिनयेकदसमेंबुज्यापंडपाय ॥ अटकापखाफूटकीन्हीसहा-
 य ॥ १७ ॥ बोलेसिकंदरुसिहरकोनकीन ॥ पडुचेजगननाथ
 पंडाअधीन ॥ १८ ॥ लोदीसिकंदरुगयादूतघासकेसेंबुज्यापा
 वकहियेविलास ॥ १९ ॥ अटकापखाफूटसुनयेवसेष ॥ प
 डुचेकवीराजसाहिलअलेष ॥ २० ॥ जलहेमडाखाजसीतलस
 रीर ॥ पडुचेजगननाथसाहिलकबीर ॥ २१ ॥ दिनयेकदस
 मेंकीयाहैअजाव ॥ भखाहैगगोदिककहैहैआव ॥ २२ ॥ बे-
 खाबसेयेकसुंदरुसरूपगयेपीरसुरसदुलईसंगअनूप ॥ २३ ॥
 आसकमासूकसतगुरकबीर ॥ गलेबांहेबेखाधरैकोनधीर

॥ २४ ॥ चाकीभतोरिअनारीडूवतगयेभागभाडीअबेमुषघन
 ॥ २५ ॥ बावनसाषबानीअरीनीउबोय ॥ रुमीरामानदकू
 रद्यामुषयोय ॥ २६ ॥ शिसासिहरकीनकासीकसेस ॥ भागे
 अतोरह्याकीनपेस ॥ २७ ॥ तुनियात्रकमानभईहेउदास ॥
 हाजररह्यायेकचमराजपास ॥ २८ ॥ सिम्याहीउराहीबिरा
 गीबिटव ॥ पादेपुकारैअकीनाअचम ॥ २९ ॥ साधोफिला
 रीगयेस्तोरीपाय ॥ स्वाहस्यकद्रकुलीयेमुलाय ॥ ३० ॥ अ-
 लरीगयेपाकरस्यायेजेवग ॥ रीअेकोतवालबाहोअन्यूनतेग
 ॥ ३१ ॥ ऊगरापह्याहेअकासीमऊर ॥ भगतिकेद्रोहीमुलह
 रीचमार ॥ ३२ ॥ घटरलरीपायेकचअनफेर ॥ दाराला
 घडलकुमीपाहेअघेर ॥ ३३ ॥ कारीकुटीअरशोरअधेश्वन
 स ॥ नीमनचलेहेकधीराकेपथ ॥ ३४ ॥ बोलेकमीरसुमो
 जोरिदास ॥ स्वावोतकूरावरदमीबिशास ॥ ३५ ॥ बाध्यात
 कूराइदगीजोसाज ॥ सुमीहेधनीकुकनीराअमाज ॥ ३६ ॥
 नीलायबोडीअलीकाहीधाम ॥ चढेरामराजाधर्याकेसोनाम
 ॥ ३७ ॥ नीलायबोडीदुरीहेअध्यान ॥ अवनधनअमीनेकीये
 हेअवान ॥ ३८ ॥ जालीरामीकूजपाईहेमोष ॥ पासेअअ-
 पीचजईअरोक ॥ ३९ ॥ रेदासकरीगलेबाधरीन ॥ लागुभ
 याहेअपट्टदस्तकुलीन ॥ ४० ॥ रेदासपकरेगयेहेकबीर ॥
 कासीसहरकीनसोपीसरिर ॥ ४१ ॥ कासीसकलसोअली
 नीमुलाय ॥ सालगसीसालाघोचालेनयाय ॥ ४२ ॥ यद्वि

तपठें पाटकते जसेव ॥ जुलहैषुलाये पथरके जदेव ॥ ४३ ॥
 कनक काजने ऊधरुहै जध्यान ॥ भये सातसै अंगरे दास जा
 न ॥ ४४ ॥ दूटे जने ऊसवामनसूत ॥ पंडित भये सिषरे दास
 कृत ॥ ४५ ॥ त्रिलोक मांहीं जबाजे निसान ॥ परेशान पाडे ज
 मूधे मुहान ॥ ४६ ॥ चरनका भरोसा जो भारी अधार ॥ भई
 कौन लीला जुलहरी चमार ॥ ४७ ॥ पीपा प्रचई सुनो हं हंस
 प्रान ॥ रहे गाग्रं नभे नगहै निधान ॥ ४८ ॥ रामानंद दख्याल
 ईहै जजाय ॥ धनमाल घोरे दीयेहै लुटाय ॥ ४९ ॥ बैरागधा
 रे सती सीता संग ॥ कूदे दरियाबी चरज पूतरंग ॥ ५० ॥ सोर
 नशरादीप नग्रीनिधान ॥ पंडुचे पलकबीच कुरचान ग्यान
 ॥ ५१ ॥ भेटे कृष्णादेव साहिब मुरार ॥ चेराचरन काज तुम्हा
 रे अधार ॥ ५२ ॥ देषे द्वारानग्रद्रम दयाल ॥ रहे येकहु फता
 नजरसें निहाल ॥ ५३ ॥ ल्याये छापपीपाज गतेके जमा ह ॥
 त्रिलोकसाकाज कुरवान जाह ॥ ५४ ॥ घातापयाके कगी
 हूं आनगंज ॥ सीतासतीवेच दीनीज संग ॥ ५५ ॥ पीपादी
 याहै जस मही लुटाय ॥ सीतासतीसेरबाघन बलाय ॥ ५६ ॥
 धाये बनजारे लैनें कूंज बैल ॥ करीगामहां सीपीपाकी जगे
 ल ॥ ५७ ॥ पीपारपर्दये लियेहें गिनाय ॥ तूरतचून चावल
 लीयेहें मंगाय ॥ ५८ ॥ पीपा भंडरादीयोहै अमोघ ॥ जीमे
 बनजारे नगके जलोक ॥ ५९ ॥ पीपा तुम्हारी कहांहै जठो
 र ॥ रजनी गई बीतहुवाज भोर ॥ ६० ॥ नागा सहसो जो दीने

दिवाय ॥ घाड़ ह माराजलीजीखुषाय ॥ ६२ ॥ दसबीसवधी
 याशोरखाइअनत ॥ पीपाकहेमेरेसाथीभगवत ॥ ६३ ॥ ते
 लननग्रयीवबेघेजतेल ॥ सुषसेकहेराममीठीबसेल ॥ ६४ ॥
 सुषसेकहूरामलोगेजपाप ॥ तेलनसुनायापीपाउलटजाप
 ६४ ॥ रामरामकहेतेसूयेकीजसाथ ॥ धरोपिउबोजाभेरान
 नपाष ॥ ६५ ॥ तेलणकहेतेराकोनेरसम ॥ पीपाकहेतेराम
 पीयोषसम ॥ ६६ ॥ तेलनउलटबहुरउरेकुशाय ॥ तेलीसूवा
 देषरीनीजथाह ॥ ६७ ॥ पीपाकहेबोसोबीबीजराम ॥ मूयेकी
 सगसगातीकाकाम ॥ ६८ ॥ पीजरीलईबाधउठावोसिताब ॥ प
 कोरामहकाशोरस्त्यावोकिताब ॥ ६९ ॥ जंपेरामतेलनशोर
 सराखाटब ॥ भईराउखिनभेजोधिहीछुरभ ॥ ७० ॥ रामनाम
 सावाशोररुगसररीर ॥ धरोघेरभीतररुवावोक्पूनभीर ॥
 ७१ ॥ तेलनलीयेहेजपीपाकेपाष ॥ तेलीदिपाहेजपलभेउरा
 य ॥ ७२ ॥ पीपायेकरिनभेसुटेचारधग ॥ बहुरपायेफेरसी
 ताकेसग ॥ ७३ ॥ भगतमालसबरीचुरतसिधसेल ॥ त्रिगु
 ननिरास्तमधीनप्याथमेल ॥ ७४ ॥ हर्दमहरीहेतहरहरहृ
 र ॥ साहिवजगतईसप्रषतनूर ॥ ७५ ॥ दिसदरदिसबीषत
 हिबदयाल ॥ अगमशोरनिगमपोजनजरीनिहाल ॥ ७६ ॥ स
 वदब्रह्मकोनिरतरनिरोध ॥ यकेपुरानगरासकलसिध
 बोध ॥ ७७ ॥ अगमधुनध्यानअमानअमान ॥ सुत्मबेदसा
 शीनिरतपरबिदान ॥ ७८ ॥

द ॥ कुस्मपरसुसमबांचलागैसमाध ॥ ७५ ॥ विनापंथचलनाथ
 घरमेंअधूत ॥ सुरतपरत्रितहेनिरतपरसंजुत ॥ ८० ॥ उडैपों
 नशानंसुरतनिरतपंष ॥ अकलदेसचलनाअंछरहेबेशंक ॥
 ॥ ८१ ॥ हेसोइलायंअलफकेजमाह ॥ अलफऔरइलामंन-
 हीधूपछांह ॥ ८२ ॥ छुछमसेंछिकेहैंरषेहैंजसीस ॥ मंक्रता
 रधागाबिहागाजईस ॥ ८३ ॥ छुछमरूपसोहैंजओवंअनाद-
 दहूंबीचदीदारदेव्याअगाध ॥ ८४ ॥ पटलमेंअटलहेअटल
 कुंजदेष ॥ सुरतनैननासाजोइस्याअलेष ॥ ८५ ॥ भुजसंष
 कलगीकलाहैंअनेत ॥ कहतेचित्रभुजदिलकीजबंक ॥ ८६
 चित्रभुजचितानंदसहंसभुजसरीर ॥ असंषभुजताकेप्रम-
 गुरजपीर ॥ ८७ ॥ दोभुजउरैहैंपरैअसंष ॥ निरगुनऔरअगु-
 नयोहीहैबेशंक ॥ ८८ ॥ बेशंकबांनोसमानासमूल ॥ अधरमे
 मधरहेविनाअलफूल ॥ ८९ ॥ समाधानसुरतिजवितिनिता-
 न ॥ ब्रह्मबीजबानीअमानीअमान ॥ ९० ॥ सुजीलासुजीवनस
 दाहेकनाथ ॥ जारूपअगैसकलरूपमात ॥ ९१ ॥ अनंत
 कोटनेजंउमेजंउमेज ॥ रंगीपुरषकीरंगीलीजसेज ॥ ९२ ॥
 रबनपूरचक्रउगवैहमेस ॥ सोकोटजोजनधरेध्यानसेस ॥
 ९३ ॥ सेससहंसनादकनेउचार ॥ सुनियेंगगनबीचभौरा
 गुंजार ॥ ९४ ॥ दाइअरसवीचबोलेन्हामेस ॥ विनातालअव-
 रजुबानीअवेस ॥ ९५ ॥ कुंजीपपीहेकहुकनादनौर ॥ कोष
 लकलारूपविरहनकठोर ॥ ९६ ॥ सुरततालध्यालअजव

रागवैन ॥ गगनरासमंडलसुनें कान्धेन ॥ १७७ ॥ अजह
 अथ्यत्मधजवरूपरगपाहलवर्जदि जिंदे पैरजग ॥ १७८ ॥ सुर
 तीसकतरूपसुनिये सुभान ॥ सुनियानककीमतजतेन प्राम ॥
 १७९ ॥ बरदगतबुरे बजेई रबाब ॥ अजबव्यालपूबी सुनें सैस
 न ॥ १८० ॥ तनमनत्रककीमकुराभिहान ॥ मूरतअमूरतयेक
 रतसुभान ॥ १ ॥ पारसप्रसकरसोनाहोतलोह ॥ सुभोपरमेरे प्र
 मधामजोह ॥ २ ॥ ब्रह्मउपिउ योजहजरहसूर ॥ निरवाननिरगु
 मनिकटहिमदूर ॥ ३ ॥ ब्रह्मउपिउ सैन्यारामेरेस ॥ कल्पसवधि
 तेसुसगीहमेस ॥ ४ ॥ सतपरधहाहि बरयकेजमूला ॥ गरी
 बधसकूलैसमाधानकूल ॥ ५ ॥ अथसवैयागीदउ अल
 किलिषतं ॥ बाजीदुमीसेनी बिघर्या ॥ काइकारवानसभ
 सहि ॥ फधदूटगयातबऊटमूवा ॥ महापकरपलानउताखा
 हि ॥ १ ॥ अरबाइबलीकहुकेनगली ॥ धीरापीराअककारा
 हेकलीपैरपियादापालकिर्यो ॥ कर्षीइसतीकाधसवाराहे ॥
 ॥ २ ॥ सतसुदपुरायअतइसभिया ॥ सभरुदासकल्पसा
 राहे ॥ कपरेपोरतनेसेडारे ॥ अबसतप्रामइमारोहे ॥ ३ ॥
 नीबीरोवेबोस्तीधोवे ॥ दूसनभरतारहमारोहे ॥ मिनामार
 मसतानभयताग्यानिजनिकटनिवारोहे ॥ ४ ॥ उरैमिअ
 बमासीयापअतह ॥ सतगुरभूमारउताखाहे ॥ कहगत्
 कटकवुनियादूती ॥ योहहूबनेकेसागारोहे ॥ ५ ॥ इम
 ज्ञानलियाजगरीसगुरु ॥ जिनजप्रमदलसवासाहे ॥ ६ ॥

छतो लन मो लन हीं जाका ॥ देष्या न हीं हल का भा सा है ॥ ८ ॥
 कुच रूप न रेष विवे क लष्या ॥ चाष्या न हीं मी ठा षा रा है ॥ ग ल
 तान समान समा य र ह्या ॥ जो पिंड ब्रह्मंड से न्यां रा है ॥ ७ ॥ सु र स
 ष स मा ध ल गाय र है ॥ देष्या इ क अ ज ब ह जा रा है ॥ क हें दा स ग
 री ब अ ज ब दरि या जिल मिल जिल बान र पार है ॥ ८ ॥ सु ष सा
 य न्हा न च लो हं सा ॥ भो सा य भू ल र हे लो ई ॥ कु ल का ट ल ग्या
 ज म चान ठ ग्या ॥ अ ग ली पि छ ली स म ही षो ई ॥ १ ॥ निं द त ने
 मी न र ता य ली ये ॥ कु च स म जे हें न हीं गु र द्रो ही ॥ सं तो का दो
 ष ध रें दि ल में ॥ अ घ पा प के बी ज ब ड्ढ त बो ई ॥ २ ॥ सु स रे सा
 ल्यो हित कार करे ॥ सा सू सा ली को ई न न दो ई ॥ ज ग ल डे म हे ष
 ती त न हीं वो लै न हीं सा च ज ग त धो ई ॥ ३ ॥ ल ग डे म रू बे न हीं
 भे द ल हें ॥ गु रु बी र ज मंत्र ह म गो इ ॥ सा धू मा ष न म धि छा क
 र है ॥ ज ग षी ब न हे पि छ ली बो ई ॥ ४ ॥ दि न चा व त हे सु न दं
 ग भ या ॥ ज म त ल व छु टि ज ब रो व त हें क हें दा स ग री ब ज गाय
 र है ॥ म रू बे नि स वा सर सो व त हें ॥ ५ ॥ १ ॥ त प रा ज लि या ब
 उ बु ल म की या ॥ अ ग्म अं ध स्यो न हीं सू रु त हे ॥ घ ट में स त सा
 ल ग रा म स ही ॥ चे त न हो य कर ज ड पू ज त हें ॥ १ ॥ पा ती नो री
 न हीं सु ष मो रें ॥ प ध र या ह न से लू रु त हे ॥ अं धे व ह रे गुं गे ग ह
 ले ॥ न हीं स ब द अ ना ह द बू रु त हें ॥ २ ॥ का म धे न स दा क ल
 वृ छ क ला ॥ जं हां अ मी म हां र स दू रु त हे ॥ क हें दा स ग री व म
 ग न गा दी ॥ गे बी ग ल ता ना गुं ज त हे ॥ ३ ॥ क लं के नि ज नू र ज

हरसदा ॥ विभेविधारथपारकला ॥ काद्रुकारवानश्रमानसही
 ॥ रहतारमताहेचलपखलाह ॥ १ ॥ सरवगश्रभगश्रनाहद
 जे ॥ जलपलपूरनहेसुनसिला ॥ दरवेसदयालनिलालकरे
 कनीधनीश्रुबेनजला ॥ २ ॥ घटदेहसनेहनहीजोके ॥ श्रवनवि
 समेनहीकठगला ॥ सुखरूपनरगश्रभगविद्या ॥ सेवेनमोगे
 वेद्यामयला ॥ ३ ॥ करलेरीदारशुद्धारसही ॥ तेराश्रुगनश्रुगम
 क्षायजानभला ॥ कहेदासगरीबखलपलधिये ॥ कोईदुगेमेंप
 करेनपला ॥ ४ ॥ ३ ॥ त्रिकाननिरजनचीन्हभईया ॥ दुपरारि
 दमोचकरेकला ॥ गरभवासमिटेनिजनामरटे ॥ क्यूजुगन
 श्रुगनचेलेधरता ॥ १ ॥ चलधीरकरोश्रभगतनगरी ॥ तूनप
 चोरासीक्यूफिरता ॥ सतसगनसेनिजसाधनकी ॥ नहीनामवि
 नाकारजसरता ॥ २ ॥ दयावतविवेकभयेग्यानी ॥ दुकछेस्क
 र्तीसेसभलरता ॥ खुडतखुडतसभपकरलीये ॥ इनसेजम
 यकनाउरता ॥ ३ ॥ धुकोनबहासेश्रानफध्या ॥ देपोषागवि
 पतीक्यूजरता ॥ समजेनहीसोयसुद्रगहले ॥ बडेभूतभ
 यितोपिडधता ॥ ४ ॥ श्रुताकोनेकभेररहू ॥ चलधोरसुहे
 म्पजिमाहुरता ॥ कहेदासगरीबठिकाससरा ॥ जाहानादधय
 उधजबपुरता ॥ ५ ॥ ४ ॥ ऊर्तेकेजेतीमुकतामोती ॥ विभे
 विगनीभेट्याहे ॥ विहरीताकाभरनामनली ॥ येरेलपपुर
 नयेगहे ॥ १ ॥ येकविदपिछानजिहानरध्या ॥ कोईबापक
 कोईदिहे ॥ २ ॥ कोईपीतसोखापातलप्या ॥ कोईमसर

भयासमधेठाहै ॥ जदकालमहांबलीपकडलीया ॥ मरहट-
 मेंआयकरलेव्याहै ॥ साऊसमहीषपरफोरे ॥ सिरफोरदिया
 पुतजेठाहै ॥३॥ गतबूजतहैजदफूकदिया ॥ षरषोजनहींसभ
 मेव्याहै ॥ कहैदासगरीबउपाधलगी ॥ सभभूतभयेजगहेठाहै
 ॥४॥ ५ ॥ मघपूछतहैप्रतीतनहीं ॥ नादीबादीऊगराठाने ॥ मु-
 कतारूकतानहींराहलहैं ॥ नहीसाधअसाधकूंजानतहैं ॥१॥
 देवलजाहींमहजदमाहीं ॥ साहिवकासिरज्याभानतहैं ॥ घं-
 डितकाजीडोबीबाजी ॥ नहीनीरधीरकूंछानतहैं ॥२॥ चेतन
 कागलकाटतहै ॥ धरपधरपाहनमानतहै ॥ कहैंदासगरीब-
 निरासचले ॥ द्रकारजन्मनरलानतहैं ॥३॥ ६ ॥ दुषदुंदउपा-
 धमेंजीवबधे ॥ सुअथकीनहींउपासाहै ॥ नेमीधरमीधरमधा-
 मफिरैं ॥ साधसंगतकूंहासाहै ॥१॥ बघनीठगनीकूंलूटलिये
 चीन्हा नहीत्रिगुनरासाहै ॥ जलअरघलीयाजमआनलीया
 न्यतेजलवारहमासाहै ॥२॥ सूफेनहींसिंधअबंधविद्या ॥५॥
 तीतोरेत्रघासाहै ॥ जममारतहैमुगद्रमोछे ॥ चिसम्यूंमेंदेत-
 धवासाहै ॥३॥ चंचलचोरकठोरकुटलवच्यापहरतमुलमुलष-
 साहै ॥ जमनगनकरैसाहिवकीसों ॥ देगानुऊबहुनतिरासा-
 है ॥४॥ दिलषोजभईयानिजनामजपो ॥ सतपूरनब्रह्मसुला-
 साहै ॥ कहैंदासगरीबपधरपटकौ ॥ तुम्हडारोत्रिगुनपासाहै ॥
 ॥५॥ ७ ॥ भंगीरंगीभडुवेभाडी ॥ सरकरऊकादमतोडतहैं ॥ क-
 कडफकडघरफूकदिया ॥ मुरगीअंडेकूंफोडतहैं ॥१॥ बकरीकु

कडी सभषायगये ॥ दीवारभिसतकालेउतहे ॥ गूदाभयबगी
 बगदर् साहिबइ विसमाझेडतहे ॥२॥ काठेहे पातउलटका
 जीगूदातलबहुन समोडतहे ॥ हीकभैरे सुषमालतिया ॥ चप
 नी हडीयाकुरोडतहे ॥३॥ काजीकसधुतलमानाही ॥ कसपाल
 पतीलनिघोडतहे ॥ कहैरासगरीबदरसनाही ॥ बकरेजेटे
 सिरतोडतहे ॥४॥ ५॥ भगीभरुवेनहिभैमानेबीतेगीखानसही
 सिरपर ॥ ककडेहेकालविहालकरै ॥ ब्याफिरगाहेक्सिम
 लिहेप्रपर ॥१॥ बकीपमडीसुषपानचये ॥ हुटेगीदानपडेध
 डप्रपोसतप्रभातपिलावतहे ॥ दुकफीमलईअमलीअडप्र ॥
 ॥२॥ शरक्यूशुपुरकावतहेकोईश्रावतनाअमलीभडप्र ॥ कहें
 रासगरीबविटबमुवा ॥ जमआकरीयाअमलीअडपर ॥३॥ ४॥
 जुलमीजुलमानाआउभईया ॥ गलकाटतहेबदसासीजे ॥ पि
 जडीयानातजहिलवाका ॥ सुरापानआधीक्यूपीजे ॥१॥ रहेको
 वब्रषसगतसाधोकी ॥ जलमैपालनकाक्याभीजे ॥ चदनब
 नमैरगलावतहे ॥ येकबासविटबीनासीजे ॥२॥ बहुरेश्रा
 गीपदछबकहा ॥ समजेनहीमूळकहारीजे ॥ कहैरासगरी
 बकुटलकाजीअलज्वाबसरेमेक्यारीजे ॥३॥ १२॥ पापीप्रभा
 तनहीभैटे ॥ सुषवेषनपपतंगेजाका ॥ जननीनौमासतिरा
 सबई ॥ इकारजनमनिसकीमाका ॥१॥ चौरासीकुडपरैपापी
 हेभुगनभुगनहंभीकाका ॥ यवछेदमभेदनपीरलगे ॥ मिटा
 नाहीअछाटाका ॥२॥ अिससेरीसाधुसतगये ॥ श्रीहमारगक

रतनबहुतबांका ॥ कहैं दासगरीबधूबूज भईया ॥ भयातीनलो
 कस्वाबतसाका ॥ ३ ॥ ११ ॥ अष्टदशेते ॥ अजबमहरंममि
 ल्याग्यानअगहैषुल्याप्रषप्रतीतसैंदुंदभाग्या ॥ सबदकीसिंध
 मेंफंधमनुवागया ॥ बिहघनघोरसैंहंसजाग्या ॥ १ ॥ अष्टद
 लकमलमधजापअजपाचले ॥ मूलकूंबंधवैराटछाया ॥ नि
 कूटीतीरबौहनीरनदियाबहैं ॥ सिंधअवरभरेहंसन्हाया ॥ २ ॥
 षेचरीभुंचरीचाचरीउनमनी ॥ अकलअगोचरीनादहेरा ॥ सुंन
 सतलोककूंगमनहंसाकीया ॥ अमपुरधाममहमूबमेरा ॥ ३ ॥
 अछरधामकीडोरघनघोरमैमिलगई ॥ भेदभेद्यामंक्रतारमह
 ली ॥ जनदासगरीबयोहबिषमवैरागहै ॥ समऊदेषोनहीबात
 सहली ॥ ४ ॥ १ ॥ बिहकीपीरजिसगातगूदानही ॥ बीऊपिंज्रग
 याअसतसूक्या ॥ उनमनीरेषधुनध्यानन्हिचलभया ॥ पाच
 जहूदतनठोकफूक्या ॥ १ ॥ लंगेगीभाहजबधाहैदेताफिरे
 बिहकेअंगमेंरोवताहै ॥ पलकअंऊंऊरेंध्यानबिहनिधरें ॥
 प्रेमरसरीततनधोवताहै ॥ २ ॥ हाउतनचामगूदाअसतगल
 तहै ॥ उडैगागतननरूईरंगापिउतनपीतउदीतबैरागहैदेतहै
 मधतोकूंकबंगा ॥ ३ ॥ हंसप्रमहंसअंबंगसेजामिल्या ॥ बिह
 विवोगयोहजोगजोगी ॥ दासगरीबजहांपाषय्यालेफिरें ॥ १ ॥
 पिवेसहीरसभोगभोगी ॥ ४ ॥ २ ॥ दीदबदीदप्रतीतप्रतछ
 है ॥ नैनकेनादमैप्रकहोई ॥ अजबगलतानकुरवानयेक
 तंतहै ॥ सबदअतीतकूंप्रषलोई ॥ जैसैंपानीकेबीचमेंबु-

दसुदास्येति ॥ फिरपानीकीचीचपानीसम्यय ॥ जैसेइहदरि
 यावमेउदभूतप्यासहे ॥ किसीपारधीसुतकीद्रिष्टयाया ॥ २ ॥
 सबदटकसालकीलहरछानीनही ॥ जैसेरीपद्रवतभोडल
 धरीता ॥ सुतसूधभरततमसतकधरे ॥ हृदकाजीवसभ-
 सकसरीता ॥ ३ ॥ जैसेतिसीमेतेतर्हेकष्टमेष्यगनिहेदूधमे
 घृतमविकाकिसीया ॥ सोरिवसाधश्रमाधनिहचतभयेमूरप्या
 त्वजिहोश्रानपीया ॥ ४ ॥ माभकेकमलपरचुरबबाजिस्वी ॥
 सुरतघोरनिरमकानहीमेसा ॥ मेरउदमेदानपरकलासुन
 सुषकरैसोजानतयोयनटभगतयेसा ॥ ५ ॥ यकयाजीगि
 रीविषमसाभेसाहे ॥ शूरप्यासेपीधेपेठसेके ॥ सायबानीपठे
 ध्यानसुनमेधरे ॥ महलकामहरमीभेषभेरे ॥ ६ ॥ अजगेवके
 खेटमेघोटसगीनही ॥ सबदश्रीतमेनेसहोई ॥ वासगरीबगु
 रभेदहेपाईये ॥ अगमपुरधामकीबाटजोई ॥ ७ ॥ १ ॥ घटघट-
 मेंनादउचरबानी ॥ मीहींमहलमेंमारफतिमावताहे ॥ तालब
 रदगजहातपसुरपूरये ॥ विनासुषनादबजावताहे ॥ १ ॥ तूर
 ततकरधुमारनिसनममे ॥ अजबगुलअरयेकनूरचपाकीक
 लाबेनसुषचैमसुनतेभये ॥ विध्यहेहस्तलेत्रिहकफा ॥ २ ॥
 धारअनअतयेकमधमेसाभया ॥ सिधरकीसुनमेजिकरला
 मी ॥ केतगीकमलजहाअबबारीबनी ॥ भवरगुजरन्दिता
 तामी ॥ ३ ॥ बुलहनीदगडुसहाभईबेवकरतघरविठित
 मिसेशूरजोती ॥ अजबदरियाबजहाकोटबेडेपडे ॥ अगमहे

हंसविनचंचमोती ॥ ४ ॥ जहांगुमटअनूपयेकसेतछत्रबन्यां
 ॥ गगनगुलजारजहानूरगादी ॥ दासगरीबदिलदूसरादूरक
 र ॥ सबदअतीतसुंनमेंसमाधी ॥ ५ ॥ ४ ॥ देवहीनहीतोसे-
 वकिसकीकरौं ॥ किसेपूजूंकोईनहीं दूजादूजाकताही नहीं
 तोंकितकिसकीकरौं ॥ पिंडब्रह्मंडमेंयेकसूज्या ॥ १ ॥ जाग्या
 हीनहीतोजागकिसकूंकहूँ ॥ सूताहीनहींकिसकूंजगावों-
 षोयाहीनहीतोषोजकिसकाकरौं ॥ विछर्यानहींजिसकूंठि
 ल्याऊं ॥ २ ॥ बोलतासंगऔरउलताहैनहीं ॥ कलाकेकोटमें
 अलषछिपिरह्याप्यारा ॥ गैबसैंश्याऔरगैबछिपिजाय-
 गा ॥ गैबहीगैबरचियापसारा ॥ ३ ॥ शानकूसोधकरमूलकूं
 द्रगहो ॥ बेदकेधुंधसैंअलषन्यारा ॥ बेदकुरानकूंछाडदेबाव
 रि ॥ नूरहीनूरकरलेजुहारा ॥ ४ ॥ क्रमनाभमनाछाडदेबावरे
 छाडसमब्रतयेकबैठिठाहीं ॥ दासगरीबप्रतीतहतीकहै ॥
 ब्रह्मंडकीजोतइसपिंडमाहीं ॥ ५ ॥ ५ ॥ **अथ गुलनेलिष**
तं ॥ चकोनामकीनावजिहाजभईया ॥ तेरापारचलनेकूंजोदिला
 हैजी ॥ अजबकहरदरियावमेंनावलागी ॥ जहांमनमलाह-
 जाजुलहैजी ॥ १ ॥ चपूचितलावोब्रह्मवांनबांधी ॥ बडापंधकेबी
 चमेगुलहैजी ॥ जहांभवरभारीनावडिगमिगैहै ॥ ठेकाबाईभई
 यागहगलहैजी ॥ २ ॥ सूवाबोलताषाषकेपीजेरेमें ॥ सुरतसिंध
 मेलाबुलबुलहैजी ॥ चिदानंदचिन्होब्रह्मगाजताहै ॥ जैसैंमधक
 रबासनाफुलहैजी ॥ ३ ॥ कहैंदासगरीबदलालमोई ॥ सोदाना

मकीनाहसमतुलहेजी ॥४॥ १ ॥ सुनषाघकेपूतलेवातभ
 रिया ॥ पलकमारतेषाघहोयआहिगारे ॥ हसमीकीलसहस्र
 रथपालकीहे ॥ तेरेवैहससागीघेडेपहिगारे ॥ १ ॥ प्रिसेमह
 लोभेशानकरमोदमानीदिनभयीकहाठहराहिगारे ॥ हसाग
 मनकीन्हापोडफुकवीन्ही ॥ कुलाक्रमकेलोकदेहधहहेरे ॥
 ॥ २ ॥ श्यागेधरमरायहेलेषालीजियगा ॥ कृभीञ्चकीराइद
 आहिगारे ॥ परेगैबकीमारवैजारमाही ॥ तेराहसगोतेजहाप
 गारे ॥ ३ ॥ नहीनामनेहामनीमेलकाती ॥ सीसपीटरोयाबईधा
 हिहेरे ॥ कहेदासगरीबदलालसोरि ॥ नामसुनेसेबुनीरीसा
 यहेरे ॥ ४ ॥ १ ॥ बरीछेउसाहिवकानामलीजे ॥ कटेफधस
 भषधनहीषीन्हाहे ॥ देईधामफूपूजकरमगनहोरि ॥ देषो
 सबदकीनहीञ्चकीनताहे ॥ १ ॥ भेरीभेदरीन्हासबदमहल
 करे ॥ सीसीसुनभेलायकरपैठिध्याये ॥ माह्यभोरचापहत
 इमोहकाजी ॥ वहीम्यानबवारतिरकारल्याये ॥ २ ॥ चढेसी
 लसतोषविवेकबका ॥ जहाकामबलकटकसमफुकवीन्हे ॥
 अयद्याकेसोतेरेफारचाये ॥ खनरागन्हितंतविबानधीन्हे ॥
 ॥ ३ ॥ श्याकीमारभेदामगळकोटछाया ॥ सफरजगकीराडहे
 यितभार्ह ॥ दुरजनमारकरमगनभेनादवाज्या ॥ देषोरीदब
 रदीदप्रतीतभार्ह ॥ ४ ॥ चित्तसोतेरेबैठकरबाधियाजी ॥ इ
 मलोकप्रलोककूपामनकीन्हा ॥ उलटीखालचालेनहीञ्चके
 हेजी ॥ निरालंभविबानन्हितंतविन्हा ॥ ५ ॥ १ ॥ गैबीगेबदरि

पाबमें मारगोता ॥ जैसें मीन का षो जनहीं पावता है ॥ कहैं दा
 सगरीब द्रहाल धारा ॥ प्रबी प्रेम की बेगन्हि बावता है ॥ ६ ॥ ३ ॥
 बंदी छोड साहिब का ध्यान धरो ॥ निरालं भनि जनूर निजने क
 है जी ॥ १ ॥ जल थल मै थीर गंभीर गैबी ॥ देषो लोक पर लोक मै राक है
 जी ॥ धर ध्यान दुरबी न अकी न कीजे ॥ दिल दे हरे बैठ कर परिष भाई
 कुरवान कतार के सेहरे पर जहां सुरत और त्रत दो विष आई ॥ २ ॥
 अलह नूर मोले मगन आय है जी ॥ गलतान सुभान सही देख ली
 जै ॥ बैठ्या अर सके तषत पर आय साई ॥ दीदार के वास तै सी सदी जै
 ॥ ३ ॥ देष दीदार दरहाल दरिया जाके सुकट पर संघर विफल मि
 लै जी ॥ जोती जग मगे जोत विजोग वानी ॥ जाकी षलक में पलक
 जिहान है जी ॥ ४ ॥ नही दीषता सुगध की द्रिष्ट आवै ॥ संतोषो ज
 लीया कल धूत है जी ॥ स्तन से लकर सिंध में सुरत पैठी ॥ जहां अ
 पशव गत अन भूत है जी ॥ ५ ॥ मनी मार कर छत्र कूं फेर भईया ॥ हो
 यगी अदल अब धूत इम भेद हा जी ॥ अलह बैठ कर अपनि साफ क
 ता ॥ चित चैंतरे चूक नही भई का जी ॥ ६ ॥ पडै गै वकी मार सुमार ना
 ही ॥ देषो कुफर कूं कुफर दिषलावता है ॥ फजल सिर फजल जहां
 होय भईया ॥ जाके एक नही फल की लावता है ॥ ७ ॥ सुना सिघर
 के महल में दीया डेरा ॥ चैंक चादनी विचन ही पलाय क डे ॥ कुफर
 कूं मार पे माल नी चाकौरे ॥ लाल घां बाध कर जहां जक डे ॥ मलागी
 रकी से ज सुली न जर आवती ॥ मिले सुलतान कूं कुफर तो ड्या ॥ दा
 सगरीब कबीर सत गुर मिले सुरत और निरत का तार जो ड्या ॥ ८ ॥

४४ ॥ बरी छोट साहि बकूचीन्हि भईया ॥ मारो नूरके सिधमे गे बगे
 ॥ विनाय पपपीउते भवर सुनमें चढे ॥ अछे त्रिछमे बैठ निज
 सुनतोत ॥ २ ॥ बया की दास थीर नाम चो घातुगे ॥ सत घर बत बा
 नी बिसास ॥ प्रेमके पीअरे की चबे झारहे ॥ कम पिउ की द ईतोउ फ
 सा ॥ ३ ॥ येक पीअरे पास मअर बे झारहे ॥ घो जकर पो जकर ये ज
 के जी ॥ केन से मेद से अर सखल तरहे ॥ सुगे मति सुगा फ हरि थोमी
 ॥ ३ ॥ सुनके ता ममें पाच प्रप चहे ॥ तीनके भवन पर गमनकी मे ॥
 बय मजार सिर पीट रोवे सय ॥ उते वाका सत्रि छ स छेती मे ॥ ४ ॥ प्रे
 मकनी पर्के नामहि चैरेटे ॥ चर चकोर जे ध्यान ध्यनी ॥ वास
 मरी बय हषे सओ या वि हे ॥ ती पीं जरा छाउ महीं ब्रह्म म्यामी ॥ ५ ॥
 ५ ॥ बरी छोट साहि बकूचे य भईया ॥ तेरे ने ममे बै म बिसार
 कनी ॥ कछु कर भजिन धोस धरनी धरे ॥ लोक प्रलोक येक सव
 रयनी ॥ ६ ॥ सुखिम सा रूप बिसतार येता क्रिया ॥ अद थीर अ
 त मधन हीनेरे ॥ सिष्ट क्य कता गो सिष्ट मे र मिरहा ॥ नेन के की
 चमे सही हरे ॥ ७ ॥ गुलकास निया सओ यो पग धजी न हे ॥ म
 सुगधकी द्विष्ट मे नई पावे ॥ सरत की सिल से धि तत्रागे चले ॥
 विगाचा कर का भेद पाये ॥ ८ ॥ पिउ ब्रह्म उं सै सिध न्यारी कहू
 ॥ त्रिजारी भिजूरी नही दसमा ॥ हदये हदके मध निज महस
 हे ॥ रोस मी से जवि न देष विसमा ॥ ९ ॥ रग म हल की सैल जहा
 सरतहि चल करे ॥ त्रि तनू वार थीर पार पेसे ॥ पिउ ब्रह्म उं फा
 बो ज पावे नही ॥ विगाचा कर था कर मेले ॥ ५ ॥ अवन दोर

नेनजहांनासिकाहेनही ॥ नहींमनपवनजहांसीसुद्धारा ॥ -
 सतकमलकायानहींघोयानहींपाया ॥ नूरजहूंरश्मवगतह
 जारा ॥ ६ ॥ जहांरहतहैंहंसजोसिंधसुभ्रभस्या ॥ मीनकेघोज
 मसताकरहना ॥ दासगरीबकबीरसतपुरमितेसमऊकरषे
 लनहींभेदकहना ॥ ७ ॥ ६ ॥ भलीभांतकेभेदसैंरहनांघारो ॥
 अगरीदीपकेधामकुंजानाहैजी ॥ चिदानंदकुंचीहिदीदारपा
 वै ॥ जाकानंचूवर्थाअसमानाहैजी ॥ २ ॥ वैद्याचांदनीचौक
 मैयारमेराअडीलपडरानहीतासकेजी ॥ बानीबोलताअत्र
 अनरागरागी ॥ जाकागावनांकोनहींगायसकेजी ॥ २ ॥ अ
 रसकुरसपरपंथहैजीनमेरा ॥ मीनींघोजकीबाटलषावता-
 हूं ॥ पलकवीचमेंसरेकीसैलक्रता ॥ अगरीदीपकेधाम-
 चलावताहूं ॥ ३ ॥ कहूंबातवैराटकेघाटकीजी ॥ ग्यानीग्यान
 कुंपायकरबुडजाते ॥ येकजिलमिलीसिंधहैदीपदरियाको
 ईब्रह्मज्ञानीजहाजायहांते ॥ ४ ॥ व्हैंगंगकेलासब्राकास
 माही ॥ सिंवकेसीसपरसैलहैअगमरासा ॥ जहांदत्तगौर
 षनहींध्यानध्यानी ॥ अचलनूरहींनूरदेषोतमासा ॥ ५ ॥
 अरसकुरसकेबागमेंकोनमाली ॥ जहांनूरजहूरकेकंदहैजी
 कहैदासगरीबसंभालभईया ॥ देषोचाषतेनहींसोअंधहैजी
 ॥ ६ ॥ ७ ॥ षबरदारहोयषेलनाघारभाई ॥ चितानंदकीचांद
 नीबीचरहना ॥ पगपीठउलरानहींफेरियेजी ॥ सबदस्वाल
 केसुनेसैंसीसदेना ॥ २ ॥ कुलफजडीहैघारमहबूबमेरे ॥ स

पतपरीकाभेध नहीं भेदता है ॥ उलट पवन द्वादस वैदी पजार्ई
 षटक मलकू मूख न ही छेदता है ॥ २ ॥ ब्रह्मसोककी घात सुन
 रीऊजाता ॥ रगरोसनी दीपन ही दीषता है ॥ तपजोगकर भग
 तभैमा मभार्ई ॥ श्रवसापसष दीकहासी षता है ॥ ३ ॥ गुलसफ
 की गली भिनिपसकू गाडवे ॥ मार तितार चातीर तुका ॥ सीसकू
 काट कर सधमह नूबले ॥ इतक कूछाड कर कहा तुह कया
 ॥ ४ ॥ मनसूरकू वेष मा चरु यो हू जिये ॥ श्वनसही हक वेले दि
 याना वही सककटे हेरु प्रमुषधोका ॥ इतक नही छाड सूखी
 चखाना ॥ ५ ॥ इतक ही इतक मे फुकत न दिशे ॥ बहे हे श्र
 तत ररिमाव मा ही ॥ कही वास गरी बयी ह इतक ताचास ही ॥ श्र
 घमसूर हे हक सार्ई ॥ ६ ॥ ७ ॥ जिमीषतमान जिन राये धूनो
 यभविन ॥ सनभार्ई पारसो तो सुघघ सार हे ॥ आदस्यतरूप
 रगत्रिभैषजूनी ॥ ततन ही बार पार हे द्रिष्ट न ही श्यवे ॥ छुष्टि
 मधगाधभेवनिरगुन निराकार हे ॥ सोह श्वनूपरूप पार ष
 तप्रघस्थाये ॥ श्वकल विचार हे ॥ श्वरंधाममाष वेदता परक
 नववा ॥ ४ ॥ श्यामो मकतार हे ॥ यमनी चमके बीजस सधमान्य
 जबनूर ॥ मेघजो मसार हे ॥ ३ ॥ तनूनकनात वली विनश्रजब
 भेष ॥ जाडूतो जू हार हे पाया विग्यान भेवमूरत गो विसध देवा
 न ही जीत हार हे ॥ ४ ॥ छत्रसेत श्वगर शेरसे जोगो सुरगी ॥ जोष
 गरी गुलजार हे सबद सिधसुरतसेस ॥ कहा है गरी बरा स
 खजवरी रार हे ॥ ५ ॥ ६ ॥ जल घलके पीचमे रभिर ह्याध देपदी

दारद्रहालहैरे ॥ ओहसेनसुंभानजिहानमाही ॥ जोअजबमह
 सूबअकालहैरे ॥ १ ॥ पारसकीधानतोसुत्रकीधारमें ॥ कहोमोती
 हीरालालहैरे ॥ गलतानअसमानमेंअजबमोला ॥ येकसिष्टनि
 लोककामालहैरे ॥ जलबूंदसैजूनजिहानसभहोतहे ॥ येक
 पलककेबीचपैमालहैरे ॥ पाषंडकूं पूजपाषंडप्रलोगया ॥ सिष्ट
 सूबाठग्याजालहैरे ॥ ३ ॥ पथरकेफैनेसैफैजपाईनही ॥ सीसज
 मद्रूतकासालहैरे ॥ कौनमारेकहोकौनमरिजातहे ॥ छाडहंसा
 चल्याषालहैरे ॥ ४ ॥ अगरमूलकेफूलकीवासनाकहतहं ॥ फि
 लमिलीरंगरिसालहैरे ॥ सेतहीहंसजहांसेतश्रवरसरू ॥ सेत
 हीकमलजहांतालहैरे ॥ ५ ॥ खुदबुदेसंषकहारावश्रौरंकेहे
 नजरद्रनजरनिहालहैरे ॥ दरियावकीलहरदरियावल्थेली
 नहे ॥ भवरश्रौरफीलजलफालहैरे ॥ ६ ॥ धमकीबुरजसभ-
 सीतेकेकोटहैं ॥ अजबध्यालीरच्याध्यालहैरे ॥ दासगरीब
 ओहअमरनिज्ब्रह्महै ॥ येकहीफलफलडालहैरे ॥ ७ ॥ १०
 अथअप्रीतलिषत ॥ मरदानेमरजांहमनीपरमारहे ॥ श्रौ-
 सामहलअद्रपपलकमेंद्वारहै ॥ १ ॥ जोराबुरीबलायजीव
 जगभूंचहै ॥ पलकपहरछिनमाहनगाराकूंचहै ॥ २ ॥ सुरत
 सुहंगमनेसपेसहेवावेरे ॥ बदीविधारीवेगधनीकूंध्यावेरे ॥
 ३ ॥ दमकीडोरीषोजद्रीवाधूवहे ॥ अगरदीपसतलोकअजब
 महसूबहै ॥ ४ ॥ सुत्रपुत्रअहतारछारसभगातरे ॥ हरेहंम
 हसूवकासैलायानेहसंगनहीसाधरे ॥ ५ ॥ हंसअकेलाजाय

हिरवरदेतरे ॥ सखदहमारमानमामनिजचेतरे ॥ ६ ॥ ज्येतल
 घेरेपीउखरघसगपालकी ॥ हरेहामहमूबगजेगेवरघसठाठ
 निसानीकासकी ॥ ७ ॥ हकहस्तापीषानबरीकरहरे ॥ याहमु
 रगीरवकूहगऊक्यासुरे ॥ ८ ॥ हिरूपाहस्वीसमुससतजम्प
 सुरे ॥ मूजानैवरियावनिस्थाहेकासुरे ॥ ९ ॥ तीव्रचिडीबुटेरभ
 पेहलवानरे ॥ हरेहामहमूबसुलावगपुकारघत्हरेहममेरे
 ॥ १० ॥ रमजानीरमजानम्यासचोपादिया ॥ पकरपझारीकूह
 कहीयोहक्याकीया ॥ ११ ॥ भूमीभूनगजारघालक्यूकाळता
 वेधेरबरहमानगलाक्यूकाळता ॥ १२ ॥ श्रीसेंबूडेनाबहोतहे
 थारकरे ॥ हरेहामहमूबकहतादासगरीबनामनिजपरघरे ॥
 ॥ १३ ॥ १ ॥ महमूरीचेतारहजारापकरता ॥ सुलतानीशूदेप
 बलकसासकरणा ॥ १ ॥ सोलासहसमुदेस्वीपरमनीभोगरे ॥
 सतगुरकेउपेदेसलीपातजजोगरे ॥ २ ॥ मुरीषठारासावऊ
 रगेवरघनासीसमहसमैसेलकागमोलयबन्या ॥ ३ ॥ कस
 व्रीतनलेपगुलाबीगधरे ॥ हरेहामहमूबपीन्यापानेपूषप
 रमनीधरे ॥ ४ ॥ दलवारतगजठाठधरसतुमाररे ॥ सह
 रानेसहनाईमहलधुधारे ॥ ५ ॥ हरेमोतीसुकताज्याहर
 लासरे ॥ मिसरिनपूबीधेरमजानेमासरे ॥ ६ ॥ लाशाबान
 निहगमसवदसवहरे ॥ भलकानासाश्रिचदूहवरदूहरे ॥
 ॥ ७ ॥ राजपाटगजराठकाडकफनीसरे ॥ स्परसबदकीचो
 टतोडवमधर्गरे ॥ ८ ॥ नमरीनजरमिहासजिदागुरपीरघाप

हरेहांमहमूबकहतादासगरीबतबीबकबीरथा ॥ ४ ॥ २ ॥ क
 हांहुवादेसाषसवदसुनसीषरे ॥ बंकीपगडीबांधपानचबपी
 करे ॥ १ ॥ तकहविरानीनारतारनहीकाछता ॥ अंतरविषैविका
 रगलीदरहांछता ॥ ३ ॥ तजबैस्वाकास्वांगभांगक्यापीजिये ॥ क
 कउअत्रसतीतधूमनहीजिये ॥ ३ ॥ केफीकेफविसारअमल
 मैचूरहे ॥ हरेहांमहमूबगोसतमद्राषाहसुकुतासूरहे ॥ ४ ॥
 कागजसुडीबनायनासक्युंलीजिये ॥ योहभीसतीद्रबारनधूमा
 दीजिये ॥ ५ ॥ मैंनबैनसुरसैनरसनमैंरासहे ॥ पूररज्ञाजगदीस
 केबलविसरामहे ॥ ६ ॥ रामरसायनछाडककडसैंनेहरेहरे ॥
 हांमहमूबदीन्हायासविसारपरीमूषषेहरे ॥ ७ ॥ आकधतूरानी
 मसुसरढाषातहे ॥ जनमजनमजुगभूलजुपिछलीदातहे ॥
 ॥ ८ ॥ अमलनामक्रतारकमकांजिपडी ॥ हरेहांमहमूबकहता
 दासगरीबसुहंगमसतजडी ॥ ९ ॥ ३ ॥ हेमौलामसतानमुलाय
 ममहलरे ॥ चीन्होसबदसिताबजीबनासहलरे ॥ १ ॥ राजारंक
 फकीरफनाहोयजाहगे ॥ बिनाबंदगीवादबोहनपिछताहगे ॥
 जनमपदारथपायपुरषजान्यानही ॥ गीदीगदहस्नानसबदम
 न्यानही ॥ ३ ॥ लेषाबारंवारधरमरायलेतहे ॥ हरेहांमहमूब
 कहतेदासगरीबकसैंदीदेतहे ॥ ४ ॥ ४ ॥ मौलामगनसुरारविंस
 अचीन्हरे ॥ दिलअंदरदीदारअरसदूरबीनरे ॥ १ ॥ इलापिंगला
 फिरसुषमनाधावही ॥ त्रिकुटीजरीषैबैठेप्रमपदपावही ॥ २ ॥ जिलके
 सिंधअपारसुकतकाधामरे ॥ अचलअगोचरेदेवपुरषदृषामरे ३ ॥ निक

निरजनधुरजङ्घु यशु हारीये ॥ मीनीमारगबोजसिधुयोफारिये ॥ ४ ॥
 नेनोहीमेंतालविसासखलेषहे ॥ हरेहातहसूबकहतस्यसग
 रीवरूपनहीरेषहे ॥ ५ ॥ ५ ॥ विनामूलायसधूसगगनैरमरझा
 ॥ कोईनजोनेभेवसकलसभभर्मरझा ॥ १ ॥ अष्टत्रिंशद्विततार
 अषारषजोधहे ॥ महीगामनहीधामसुकतनहीमोषहे ॥ २ ॥
 अत्रसिधासनसेतपुरषक्यरूपहे ॥ वरनश्वरननिर्जरिश्वाय
 धूपहे ॥ ३ ॥ वेषपदमउजियारपरषनहीखावही ॥ कलमलि
 ध्यासोहोयटरेमहीभावही ॥ ४ ॥ अखगतपूरनब्रह्मपरस
 प्रथानरे ॥ हरेहामहमूबकहतारासगरीबनुसबदपिछान
 रे ॥ ५ ॥ ६ ॥ सिधुब्रह्मकराजइगिनतीकहाअसुसुकतेबेकु
 ठसमजयेतलक्ष्य ॥ २ ॥ सषलुगनकीशुनिउमरवउधारी
 या ॥ जाजननीहुरबातसुकग जपारिया ॥ २ ॥ येतीउम
 रविसदमेरगाषतरे ॥ समहरतगेनकामनमेठसुतरे ॥ ३ ॥
 होमोरमउस्थीकशुषावतसगहे ॥ सूरेखनतजचारपरेखेन
 गधि ॥ ४ ॥ लकसरीषाकोटपेरपेमासहे ॥ मरनाहेहैदा
 नसहीसिरकालहे ॥ ५ ॥ रावनकीरसरीतरगीलाराजया ॥
 थोराभवनविषानममोमईसाजया ॥ ६ ॥ ईइवरनकमेरसु
 मेरसलामिया ॥ होयहोयगयेअनतघनेवहुनामिया ॥ तेती
 सकोटकीवधविद्यासुनलीजिये ॥ बाधस्यापाससिर्भानस
 जासुररीजिये ॥ ७ ॥ पकरेजौराकालसुकूपउसारिया ॥ अ
 सहुतवलकीसिस्तरावनमारिया ॥ ८ ॥ फोकटराजरपाट

पिटे गाञ्चंतरे ॥ हरे हांमहमूबकहतादासगरीबभजोनिज-
 कंतरे ॥ १ ॥ ७ ॥ येकलषजाकेपुत्रसवालषनातिया ॥ राव
 नराजअपारजुभिन्नभातिया ॥ १ ॥ कुंभकरनसेबीरहमीरह
 ठीलहें ॥ बलबंतअपरमपारजुअग्मअडीलहें ॥ २ ॥ जोजनचा
 रमुकामअरारीरंगहें ॥ जहांरावनकीसेजमंदोवरसंगहै ॥
 ३ ॥ त्रिलोकीकीअसदेषपलमेंगई ॥ चौकीबैठेदूतछारसुषमें
 दर्ई ॥ ४ ॥ येकरतीभरकंचनमाग्यानामिल्या ॥ रावनराजवि
 राजदेषछारहरल्या ॥ ५ ॥ तपजयकोनेकाजराजकीआस
 पर ॥ बजरपरखाहैआनरावनकील्हासपर ॥ ६ ॥ पलमेंषंड
 विहंडसकलसैनागई ॥ हरे हांमहमूबकहतादासगरीबचि
 त्रहैदर्ई ॥ ७ ॥ ८ ॥ क्याराजाक्यारीतअतीतअतीमरे ॥ जोथ्या
 गयेअपारनचंपीसीमरे ॥ १ ॥ याहदुनियांसंसारपतासाषंड
 का ॥ जोरापीवैघोरविसरजनमाडका ॥ २ ॥ कामकिरोधमध
 लोभवयाऊल्लटहीं ॥ हिरसखुदीघटमाहसुबोहदिधकूटहीं ॥
 ३ ॥ संसासोगसरीस्सुरसरीबहतहें ॥ न्हाहीचौदाभवनग
 मनसारहतहें ॥ ४ ॥ दुरमतदोजगमाहबलेवौहभांतहै ॥ स्
 तगुरभेराहोयतन्हिचैस्वातहै ॥ ५ ॥ आजजजीवअनाथपत्या
 हैबधमें ॥ हरे हांमहमूबकहतादासगरीबजगतसभफंधमें
 ॥ ६ ॥ ६ ॥ अकलविकलहोयजायसुसतगुरबाहरी ॥ बंमनके
 घटमाहसुबसैबलाहरी ॥ १ ॥ ममताकादरियावऊकोलेषा
 तहें ॥ सुरनरमुनिजनपंडितसभहीन्हांतहें ॥ २ ॥ कहरल

इरफे लोरवु वलपानी तदी ॥ १ ॥ यपनी यपनी गारस भे बेंठे मदी
 ॥ २ ॥ इद्रउरब सीछाप्र शमोत गकेगदा ॥ चद्रसगी गृग दाम
 विलयक्याभया ॥ ३ ॥ शुक्लपृ ष शशि यपुर ए प्रभातरे ॥
 इद्रसरसभगति नरई की रातरे ॥ ४ ॥ रापट सिहा होय गरि
 इहत्यावे परे ॥ मेक बाग य मान पीये को संधे परे ॥ ५ ॥ या
 मनदी मत छहटेरे ती पारिये ॥ एरे धाम ए ग ब व ता रासग
 शी वरतन यपुर गारिये ॥ ६ ॥ ॥ १ ॥ रतन जत न हो रायो पा रा बिद
 रे ॥ फामन बाल बिदाल नम गले परे ॥ १ ॥ सब व भोग स
 जोग सुता आक्रमे ॥ सन कारि क कूशु यो ही निज धर म हे ॥
 ॥ २ ॥ मयनी छिष्ट चलाय जगत गारस की वा ॥ जैसे परे पत
 ग देय दीप करिया ॥ ३ ॥ छड चाम पागाम सु घोरा रभरे ॥ सप
 त छड तिस माह सुकहे दुरभरे ॥ ४ ॥ नरव नगी ना घे ह पुरका
 गामहे ॥ वर बासा से देव खटके कामहे ॥ ५ ॥ काम भवर कु य
 लाग वरब सी भोगी वा ॥ ति हू लोक हे कार सु बेरे जोगिया ॥ ६ ॥
 वरब सी ल म्या सरा प सरीर सुहि भई ॥ हाडी घर घर वार क
 मत पट मै छेई ॥ ७ ॥ ती नम जर की मार श्री द्विषा नके ॥ हरे
 साम सुशु व कह ता रास गरी व सम जले जानके ॥ ८ ॥ ११ ॥
 माह बुनिया ससार सरी कत जायगी ॥ न्हि भे विसे विस सुमी
 राया यगी ॥ सा सी बात प्रेरन पूरा पारिया ॥ दे धो य भगवार क
 छड ह कारिया ॥ २ ॥ पाहन सैन घफेर सु सी फिर ता परा ॥
 ॥ ३ ॥ मोया सास्तरतन मजत

॥ जान्यां नही ॥ सतगुर अरथ विचार सबद मान्यां नही ॥ ४ ॥
 मोट पाप सिर श्रोत जगत संग जात है ॥ घालीर हाथ लील लग्या
 क्या हाथ है ॥ ५ ॥ पारासुर से देव काम कुंदर मले ॥ जाये व्यास
 बसे षषे वट नीं कुं छले ॥ ६ ॥ ताहूं बिंदके व्यास ताहम छोदरी ॥
 हरे हां महमूब कहता दास गरी बर ही कहां सोधरी ॥ ७ ॥ १२ ॥
 जलकी बुंद विचार साज जिन साजिया ॥ दस हरि की देह बनाय
 निवाजिया ॥ १ ॥ जनम कर मलिष दीया लिला टनु म्हारे ॥ पान
 पान पौह चाया समऊ गवाररे ॥ २ ॥ दंत नही जद धीर दिया थाषा
 नकूं ॥ राध्या जटरा माह तुम्होर प्रानकूं ॥ ३ ॥ मलमूत्रके कीच
 विसंभर राषिया ॥ असी जठरा माह हंस भला किया ॥ ४ ॥ जूनी
 संकट काट जुबंध छुटाईया ॥ आया जगके माह सुपीर सुजाई
 या ॥ बोजें छेल बिलल गुल्लड गावहीं ॥ नाचै चंड चूडै लधनी
 नही ध्यावहीं ॥ ६ ॥ न्हिचै नूर जहूर धनी की दात है ॥ योह बाल
 कबिलकांत समऊ कुच्छ भांत है ॥ ७ ॥ असा जुलम गुदार गद
 हरी गधकी ॥ पूजे देई धाम सुनिद्या पदकी ॥ ८ ॥ मठी मसानो
 जाय कर बो कचढावहीं ॥ तो बाताल बदेषे गला कयवहीं ॥ ११
 ॥ १५ ॥ डूबपुर घानारी पुत्र समेतरे ॥ हरे हां महमूब कहता दास
 गरी बंधनी नही है तरे ॥ १० ॥ १३ ॥ दुर जोधन से राजा पाजा गोद
 का ॥ असा जगत उपास चंद ज्युई दका ॥ १ ॥ म्यारा घूहन गुल्लख
 तुल्य पारे ॥ हथी इन हलके देषो कोटि हजाररे ॥ २ ॥ रापतरा
 जजहूरा तुरिया सोहनी ॥ इकोत्र वीर हमीर पदमनि मोहनी

॥ ३ ॥ हादसजोजनछत्रफिरेयासीसरे ॥ सुरजोधनकील्हासमु
 जबकधीसरे ॥ ४ ॥ कहागयेसुरजोधनसैमासगधी ॥ हरेहाम
 हसूबकहतायासगरीबकेफज्यूभगधी ॥ ५ ॥ १४ ॥ सुरजो
 धनजगमाहीराजाभारधी ॥ यडोश्वरयविबानछधमसेस्वार
 धी ॥ १ ॥ नर्यमितीनेलोकयलोकधनतहे ॥ भगतवच्छतभ
 गवानसुपडेसतहे ॥ २ ॥ लपसधामीबनविबानसमऊरे ॥
 भागतवच्छतजिनसगसकेकोगजरे ॥ ३ ॥ श्रोपतिवारनमाया-
 रीयेथसतरी ॥ श्वधेऊकोपीनसुपरेबसतरी ॥ ४ ॥ यडोबाधी
 हारगयेहेरानरे ॥ इनकीश्रोपतिनारनपावेजानरे ॥ ५ ॥ सिर
 धरसोरनकतसेश्रोपतिथारिया ॥ दूसासमहकरेकोपरिसारै
 या ॥ ६ ॥ तूहीतूहीकरटेरीश्रोपतिजानराय ॥ उबरेगजरग्राह
 सुभजनकासराय ॥ ७ ॥ दूसासनरुधीरपकरपसुगहाभी
 पमश्रीमाकरसुपोरुछनाकहा ॥ ८ ॥ रुधैसुरसैटेरीश्रोपति
 थारिया ॥ भगतवच्छतभगतसुधीरबकाईया ॥ ९ ॥ पलमे
 धीरधनतपितानदधितमे ॥ जीमितीन्वैलोकश्रोपतिहधमे
 ॥ १० ॥ पचधतारीनारबप्रवापाटहीसीतालगेकलकतसुप्रधा
 टही ॥ ११ ॥ हाप्रवेतासाईसायेगतकीनरे ॥ हरेहामसूबकहता
 सासगरीबहोतधनहोनरे ॥ १२ ॥ १५ ॥ भीसमश्रीमाकरनधुरीपु
 रनाथिया ॥ सुरजोधनकीसगततीर्थफाटिया ॥ १ ॥ भीयवाये
 नानसुयेसुयमाररे ॥ शोनाश्वरजपूकपरीधनस्वररे ॥ २ ॥ करम
 परेदलमाकविहउमहोयगया ॥ कुलकुलायाकाडजनमक्यो

यगया ॥ ३ ॥ ग्यारासातरबीचअंडदलघेरिया ॥ छुटेगोबीवान
 सुकंपसुमेरिया ॥ ४ ॥ धरनिधसकभैषायकंपैससिंसुरे ॥
 लषसंधानीवानचलेधपूररे ॥ ५ ॥ तुहीतुहीकरटेरीदासीद्र
 सकी ॥ कपैचौदाभवनषवरनहींकरसकी ॥ ६ ॥ वीरषेतव-
 रियाममडेहेंभारथी ॥ अरजनजोध्याभीमकतहेंअरती ॥ ७ ॥
 जबहिहुदईनादपंचायनसंपरे ॥ रामचंदरचठिध्यापेजैसैल
 करे ॥ ८ ॥ असाभारथकीनदीनयरकीदुनी ॥ दुर्जेधनदलमाह
 प्रेअसेसुनी ॥ ९ ॥ बेरबेरकीटेरिसुनतहेंजानराय ॥ रषियोष
 चोअंडधनीतूध्यानराय ॥ १० ॥ मेंदासीहूं तोरजुगनजुगसंग-
 कीचरनकमलचितमाहींचेरीअंगकी ॥ ११ ॥ करनामईदयाल
 दयाकरराषिया ॥ विलीतनेबिसंभअवनपाकिया ॥ १२ ॥ राय
 तइद्रतनाघंटातादुटिया ॥ हरेहांमहसूबकहतादासगरीबअ
 उबंधछुरिया ॥ १३ ॥ १६ ॥ ठाराछुहनगैवहुईपलमाहरे ॥ सुर
 नरसुनिजनगंद्रपगोतेषाहरे ॥ १ ॥ कैरोंराजविराजीपलमेहोत
 है ॥ योहजीवनजुगमाहीदेयोतोतहै ॥ २ ॥ असरअसांसभग
 येसुरोंसेषिलसरे ॥ जैसैंबांसबसीनपतंगबिनजलसरे ॥ ३
 उरमेंअगनउछालकुचालकुबधकाहरेहांमहसूबकहतादास
 गरीबगयेसभरंकराय ॥ १५ ॥ १७ ॥ गयेवैनबलिरायबिलंबन
 लागिया ॥ १ ॥ सौजगअरंभकीन्हसुनोबडभागिया ॥ वावनरू
 पसरूपछलेबलिरायरे ॥ चाह्यासुरगससूलरिसातलजायरे
 ॥ २ ॥ त्रिलोकीत्रिपेंडबिसंभमापिया ॥ अरधपेंडनहींपाईबलि

जहाकापिया ॥ ३ ॥ आधैपगकूपीठनवायपरे वलिती छरे ॥ ४ ॥
 आहरपतिराजबिसभरबीचिरे ॥ ५ ॥ गरबपरछरीसाहिबहे
 धुकतेधडे ॥ हरेहामहसूबकहतादासगरीबभगतिषागेरहे ॥
 ॥ ५ ॥ १८ ॥ अनिजाननहारसकलकीजानता ॥ घटघटनेक
 कासीपूरनप्रानथा ॥ १ ॥ अबगतिभिनिष्यभिनिमससमैमह
 लोहे ॥ हाजरिमाजरिदेपिकस्येक्यागहलोहे ॥ २ ॥ अलषपत,
 ककेबीचिबकासाईसरे ॥ हरतिनितांनैलायदेपिजगरीसरे ॥
 सेतबरनसभरगबिरगविचाररे ॥ ३ ॥ हरेहामहसूबकहता
 दासगरीबदेविदीदाररे ॥ ४ ॥ १९ ॥ हिरेंदेकपटकमलर
 योर्वेनहीं ॥ सोहतपरीअमभूलगाटिगहरीगहीं ॥ १ ॥ हरबी
 मनमारिमसैरधोपरे ॥ अचनहदसयदधमोरजसतुयकवेठरे
 ॥ २ ॥ विजुभीकमलपरसिधसरोवरसुनरे ॥ छूठहायगठ
 छाडितसरयिमनरे ॥ ३ ॥ लोकेकोटपरचोटअकारपसारहे
 अजसेतीभिनिजोबसतुनिपारहे ॥ ४ ॥ अलषअलीलपर
 मसदमजहालारिये ॥ हरेहामहसूबकहनादासगरीवरहत
 यरपदये ॥ ५ ॥ २ ॥ नमअयरप्रअयरसायानहींमूलरे, अ
 वृअसथानजहामनऊलरे ॥ १ ॥ पीघुअनतअपारअतिसभा
 मरे ॥ ततेवेताअमहसबसेफिकामरे ॥ २ ॥ सुमाधानसअगत
 सलेमाबादरे ॥ अजरअमरपररेपोषादिअदिरे ॥ ३ ॥ बिकुठ
 भिसतिविसारनासहेजामहे ॥ अलहस्यसतलोकनवेतासा
 पहे ॥ ४ ॥ अजरअलिअउरेपकिसिमिसीसुनरे ॥ अजरअमर

धरबसोपापनहीपुनरे ॥ ५ ॥ तहांवहांपदमअनंतपेवाजाहि
 मे ॥ अछेद्विछफलहंसातहांवहांषाहिगे ॥ ६ ॥ अमरभुमिअ
 स्थानप्रानजहांचालरे ॥ अनंतकोटतहांसिधअमीतेमालरे ॥
 ॥ ७ ॥ अवगतपुरकाराजाअवगतिनामहै ॥ हरेहांमहमूबक
 हतादासगरीवहमारागामहै ॥ ८ ॥ ११ ॥ प्रमानंदकीपीठिल
 गीप्रवानरे ॥ साहूकारअपारवसैंधुनिध्यानरे ॥ १ ॥ सौदागर-
 येकपीठवनजकूंआईया ॥ सतगुरजाकानामकिन्हंनहींपाई-
 या ॥ २ ॥ प्रपटनसहरहमाराअधरअधारहैं ॥ अवगतिअप-
 अलेषअसाहूकारहैं ॥ ३ ॥ केसोनामकवीरखुलासाफिरतहैं ॥
 अनंतकोटिसंगबोडिबालददुरतहैं ॥ ४ ॥ धरतीधरैनपावसैं
 रनहींसीगरे ॥ बालदबिसवेबीसभिरचमधिहिंगरे ॥ ५ ॥ अज
 रमुनंषादाषछुहारेछोतकेसोसंगवनजारेयेकैगोतके ॥ ६ ॥
 केसरअौरकसतुरीपानखुपारियां ॥ पंचरंगजंडेलंबेअमर-
 अटारियां ॥ ७ ॥ तंबूतनेअपारसपेदखुरंगरे ॥ सपतखुरोंके
 गायनतालबरदंगरे ॥ ८ ॥ महसूदीअौरषासेकचियाबाफते ॥
 तकूंबैलग्याननारखुहेलीनाकते ॥ ९ ॥ पीतंब्रपहरानकरोंकी
 सैलरे ॥ अयेकासीधामलादकरिबैलरे ॥ १० ॥ हेहरहेहरही
 यअनबालददुरी ॥ नूरतेजकेसंतअनमजलसजरी ॥ ११ ॥
 चौपडकेबैजारलगीहैंचांदनी ॥ विंजनभोजनपाषनचीपीरा-
 धनी ॥ १२ ॥ गीहूंचावलचूनमिठाईदालिरे ॥ शृतसहतपक-
 वानपरीजहांपालरे ॥ १३ ॥ गैबीअरसबिबानखुरोंकीसैलके ॥

कोई न जाने भेव जीव स भले लहे ॥ १४ ॥ स्याहसिक इअनक
 रिमेले पाईया ॥ हरे हाम ह मूव कह तादा स गरीव भेद नही
 पाईया ॥ १५ ॥ २२ ॥ येक च दरिये क गुदरी सत गुर पासरे ५
 मन ही नीक से बाहर होय है हासिरे ॥ १ ॥ स्याहसिक इअनक
 रिडेरे जात है ॥ बोले माय क बीर र हा क छ पात है ॥ २ ॥ इन
 क पटी कुल ही न लग या करे ॥ वहा के सो वनि आरा करि हेत
 टिरे ॥ ३ ॥ जह स्याहसिक इअन गुर मोटि कीन्हिया ॥ उम
 कर ता पुरष क बीर त वैवस्य कीन्हिया ॥ ४ ॥ हमरे जा क परा
 युन हेँ आत्मा कारेने दारा साप दल भेय पखा छे बारने ॥ ५ ॥
 पान पान घर माहि न ही हेँ मेरे ॥ घर दल कीन्ही हासि कीया
 चोह जोरे ॥ ६ ॥ सुसकल की पास्तान करे गा जान करि ॥ इक
 के सो व मिआरा उत स्याधान करी ॥ ७ ॥ सुनियो स्याहसिक
 इसा थी भाव है ॥ कसी के वैजार दरव बी हलाय है ॥ ८ ॥ उ
 री गहने धर करि सी धारेत है ॥ गी डी गी डी बीर विलावत ले
 त है ॥ ९ ॥ रास गिर्न न नम ह मारे ये क है ॥ हरे हाम ह मूव
 कह तादा स गरीव सुँ के कोई देय है ॥ १० ॥ १३ ॥ कुटल भेय
 कुल ही न क म भी कूर है ॥ भाष भगति न ही जाने स्वाना सार
 है ॥ १ ॥ चल मे लेषा भावरे य पि रिधाव ही ॥ वहा के सो वनि
 नारा भूल भुलाव ही ॥ येक हि स कारा धानित नू मे ले ग या ॥ के
 सो वार क बीर सो मे ला दे गे या ॥ ३ ॥ ती म यो स दर वे स न हा म न
 स्ते वे ॥ गे वी किर न की व क च करि पास वै ॥ ४ ॥ ग ग उ तर कर गी क

हुयेदलभिन्ने ॥ कहां गये बने जारे बोडी अंनरे ॥ ५ ॥ के सो औरक
 वीर मिलतये कै भये ॥ हरे हां महं मूब कहता ॥ दास गरीबत-
 की रोवै देहे ॥ ६ ॥ २४ ॥ स्याह तकी नही लषी निरंजन चालरे ॥
 ये प्रचे सैं अंगे मागे ज्वालरे ॥ १ ॥ सालाक्रमसभान सरी कत देषि-
 या ॥ स्याह तकी निर्भागन का गज छे किया ॥ २ ॥ स्याह सिकंदर च-
 रन जु हारे जान करे ॥ तुम अब गत पुरष कवीर बसौ उर आन क-
 र ॥ ३ ॥ तुम षालक अबंग सरूप कवीर हैं ॥ हरे हां महं मूब-
 कहता दास गरीब पीर न सीर पीर हैं ॥ ४ ॥ २५ ॥ योह सो दास
 त भाय करी प्रभातिरे ॥ तन मन रतन अमो लब दाऊ साधरे ॥
 १ ॥ विछर जाहि गे मित मता सुं नली जिये ॥ बोहर न मेला हो-
 यक हो क्यो की जिये ॥ २ ॥ सील संतोष विवेक दया के धाम हैं
 ॥ ग्यान रतन गुलजार संगीती राम हैं ॥ ३ ॥ धरम ध्वजा फर
 कंत फर हरे लो करे ॥ तामधि अज पानाम सुसौदारो करे ॥ ४
 ॥ चलै बन जूवा ऊठ हूँठ गळ छाडिरे ॥ हरे हां महं मूब कह
 ता दास गरीब लगे जमंडरे ॥ ५ ॥ २६ ॥ जमजौरा का जाल
 कालष गसीसरे ॥ हे फले त छिन मां हि सुमर न ज गदीसरे ॥
 ॥ १ ॥ असा सा ज बनाय विसर न हीं जाय पे। जनम पदारथ पे
 यव होर कहां पाईये ॥ २ ॥ जमजौरा का जोर कठोर विजोग-
 है ॥ अवलोकतिर साल सुदीर घरो गहै ॥ ३ ॥ जे जानै तो जा
 न सब दकुं मानरे ॥ हरे हां महं मूब कहता दास गरीब होत
 है हानरे ॥ ४ ॥ २७ ॥ जमजौरा जल थल नैं छोडि है न हीं ॥

उडेंगडेगळुमाहवधतहेरई ॥ १ ॥ अथलोकसभगीर
 नमकीमारहे ॥ योषघटघडविहडमिलेतनछारहे ॥ २ ॥
 जमकासुगइबोटविसासीक्यालत्या ॥ क्याहासलकलिमा-
 हीसतगुरककद्या ॥ ३ ॥ अतततीकीमारअपारअमुलहे ॥
 कामजोराजगमाहरेषजाशुलहे ॥ ४ ॥ कहाचकवेगयेअह-
 उदेविषिराजयेमनोमईमकसूदनगेबीसाजये ॥ ५ ॥ अज
 यमबेलोतरियाअरियापलसिअ्या ॥ तारामडलतेजफरकत-
 हेअ ॥ ६ ॥ अदसूरसतिभानगरदर्मेअपीया ॥ हरेअमह
 मूषकहतादासगरीबजनेसैकपिया ॥ ७ ॥ २८ ॥ सावतअोरम
 इलीकगयेअसूररे ॥ राजारकअपारमिलेसभभूररे ॥ १ ॥ क
 रिलेपेटीआगअगिडीआदरे ॥ कोतवालघटमाअमारताका
 रि ॥ २ ॥ नरकबहेमोदारदेहरागदरे ॥ क्यादेव्याकलमाहिप
 साकफधरे ॥ ३ ॥ हासलकायरदूरहिदूरिनचालता ॥ हरेअ
 महसूनकहतादासगरीबहटीमैसालथा ॥ ४ ॥ २५ ॥ हादि
 पदनयेजारबशनफीकायत्या ॥ जमककरकूमीकथानगल
 मेअत्या ॥ १ ॥ मारअहेसुहपायसीसधडपीटही ॥ जमरोके
 नोदारगलाअोरपीटही ॥ २ ॥ रिअकखादसरीरसिंघासनसे
 जरे ॥ परीचगनचुगभूलनछाडेहेअरे ॥ ३ ॥ अंसमदकीमा
 पीमडुबाभोगरे ॥ अरदर्अपमाहिसूटहेसोगरे ॥ ४ ॥ अ
 सासगरहकीहसंगजोचालहे ॥ अरदमधजपानामअपी
 योहमाअहे ॥ ५ ॥ अोरदूनतनचोरतिसेनहीसूटहेअनीसक

टबंधनामसैं छूट है ॥६॥ उरमें आसन मारघजाना भूव है ॥ त
 पजपको नै कामवेचना दूव है ॥७॥ लालोंके थ्यो पारपलक दु
 क मूदरे ॥ घैर चव्यामत याहि अग्यानी गुंदरे ॥८॥ काटे कुटल
 करीर सरीर ऊरोर है ॥ चलसत गुरकेटे सजुपदम करोर है ॥९॥
 हस्लीसे जसुरंग तुरंगन चावते ॥ जिनके नाम नगामक हीं पाव
 ते ॥ १० ॥ मरना है सहस्रबहक दूहकरे ॥ नजरकरो नरतावो
 पदमप्रपिरे ॥११॥ ८॥ सुजनीसे जविच्छायकर चौरदूरावते ॥
 जाघररवनीरंभारागी गावते ॥१२॥ सूने महलरमंडूवासें काग-
 रे ॥ हरेहां महसूबकहतादास गरीब जगतनिरभागेर ॥१३॥
 ३० ॥ षलकमुलक कुंदेष संगतीको नहीं ॥ जमको है सुकता
 रसीसे वैठै वही ॥ १ ॥ होगाहालविहाल सबदकुं सोधरे ॥ पुत्र
 विसास्यामाता बालकगोदरे ॥२॥ और सुहेली आनसैं नबत-
 लाईया ॥ कंठधुकधुकी आययानसमजाईया ॥३॥ असेंमौला
 पोयामहलके मां हिरे ॥ हरेहां महसूबकहतादास गरीब ब्रि-
 च्चमधिच्छाहरे ॥४॥ ३१ ॥ न्याराकबून होय निरंजन देहसैं
 रसासकलघट पूरि प्रमसुषनेहसैं ॥१॥ जूंदरिया मधिलीन
 मीनमघजोहरे ॥ पंछीपैर अकासषोजनहीं होयरे ॥२॥ विनयं
 षोंके भौरा ऊँडे आकासकूं ॥ इलापिंगुला सुषमनसो धै स्वासकूं
 ॥३॥ गुंगे कूं गुड षायाके से जानिये ॥ सेनसुषरतिसें पावेव
 चनपिछानिये ॥४॥ कालीपीली सुरही धीली धेनरे ॥ सेनव
 रनसभदूधसकलइकवै नरे ॥५॥ नहीं ऊचनहीं नीचनिरं-

सनवातिरे ॥ करताकेसुभमाहिर्छीं सचौररातिरे ॥ ६ ॥ सोहसा-
 चीभजनदूसरकोईरे ॥ हरेहामहसूबकहतादासगरीबधनी
 कूजेहरे ॥ ७ ॥ १२ ॥ बाजीगिरकीबाजीसेघाघटका ॥ सूकागुड
 गुडयानसेईभासाटका ॥ गुडपेसेकासेरविकेविषढाककाभेडक
 तरनीऊनसेधाकापाटका ॥ २ ॥ हरेहामहसूबयेकनागोरीबिल
 निरघकरनाटका ॥ जिमकीबुधिनहिंघोरपीवैमधमाटका ॥
 ३ ॥ पोसतभागतमायुसुसमनकाटका ॥ हरेहामहसूबगेषत
 बाह्यस्यमछुरीकीफाटका ॥ ४ ॥ सुलतानीबाजीरधनाथाजा
 टकानानकघोररेकासभेदकहेंघाटका ॥ ५ ॥ भरघरगोपी
 चरजोगयेकराठका ॥ हरेहामहसूबघोरघबतकबीरतिलाक
 तिलाटका ॥ ६ ॥ इलापियुसाजुपमनहारकपाटका ॥ भिबेनी
 केतीरपियालाघाटका ॥ ७ ॥ गंगनचछानछींआयकमवहेछा
 टका ॥ हरेहामहसूबकहतादासगरीबमहलावेराटका ॥ ८
 ॥ १३ ॥ कुसरीहोवैसतबदनाकीजिये ॥ वेखाकेबिसबासचर
 नचिमरीजिये ॥ १४ ॥ खुगलचोरचजालकुडनरनीचहे ॥ आ
 काहरिसेदेमसप्रमलसीचहे ॥ १५ ॥ कपटीलपटीलोभीनया
 हर्महे ॥ तार्सेकरलेमीनिनामदरकूमहे ॥ १६ ॥ शानीछानीराठ
 नमनजानछीं ॥ आकेसिरपरमारचीसदसपानही ॥ १७ ॥ वीणस
 पीसभवोयसकलससारमे ॥ बिनावरगीमहीबडेदरबारमे
 ॥ १८ ॥ अजामेसाथधिकारकीयेथघणपरे ॥ नारदसतसहेत
 उचायेकापरे ॥ १९ ॥ सराफनमदपीवनबेखाभोगरे ॥ आकेम-

गतविलासकियाग्रनजोगरे ॥७॥ अजामेलवैकुण्ठबठयेदे-
 षरे ॥ गतिकाचटीविवानसुभगतिविबेकरे ॥ ८ ॥ कियाक्रम-
 कानासनामचिनघीपरी ॥ हरेहांमहमूवकहतादासगरीब
 विनावारीवरी ॥ ९ ॥ ३४ ॥ अरजनसुमलावृद्धउडेआकास
 कूंकरमपीछलेभोगयेकैलासकूं ॥ १॥ नारदचिनघीउरीमे
 ट्याकरमरे ॥ नलकूंबरदीयासरापकीयाअधरमरे ॥ २ ॥ औ
 गुनमाहींगुनकरदेवेंसंतरे ॥ भलाकरतहोयवरासुदूत्रदतरे
 ॥ ३ ॥ गीधव्याधऔरभीलनीभावनजानहीं ॥ जाकूंकेसीभगति
 दर्इधुनिध्यानहीं ॥ ४ ॥ सहंसअठसीदेवकोटितेतीसरे ॥ ब्र-
 ह्माविसनमहेससुधाजगदीसरे ॥ ५ ॥ इंद्रवरनकुमेरजहांधर
 मरायहें ॥ अनंतकोटिसुरसंतसुजगिउपायहें ॥ ६ ॥ पंडितहा
 दसकोडविप्रसहदेवसे ॥ षेवटबिनाजिहांजकौनकौहषेवसे
 ॥ ७ ॥ जहांपुंडरीकपारासुरनारदव्यासरे ॥ गौरषदतदिगंबर-
 औरदुरवासरे ॥ जहांमारकंडपिपलादिकरुमीरिषरे ॥ कपल
 मुनीजगमाहिनबाज्यासंषरे ॥ ९ ॥ नौजोगेसुरत्रिभैकागसुसंड
 रे ॥ जहांबावनगादीजनकभगतिप्रचंडरे ॥ १० ॥ जहांरुषदे
 धूपहलादभगतिकेसंभरे ॥ जगरचीजगदीसकियाअरंभरे
 ॥ ११ ॥ बाज्यासुपचकासंषसुरगमेंधुनिसुनी ॥ गनगंद्रपगल
 तानसकलग्यानीगुनी ॥ १२ ॥ बालनीककेसंषकियेसुरमातरे
 द्रोपतसुतकेआइदिलमेंभ्रंतिरे ॥ १३ ॥ कणकराबाज्यास-
 षसुरगभईसैलरे ॥ पंडौकर्मविधंसगयेसंभमैलरे ॥ १४ ॥

असाधचरजकीन्हरीन्हकेसीरधरी ॥ हरेसमहसूबकह
 प्रसासगरीबधनीनरहरहरी ॥ १५ ॥ १५ ॥ अथवेनपारं
 तीलिधंत ॥ बदेजानसाहिवसारवेपिबरमावरवापकाबर
 नहीकलपरबारवे ॥ १ ॥ अलबुदसेजिनसाजसाज्या ॥ लल
 मदरियानूरवे ॥ हेसकलसरबगसाहिव ॥ बदेयनिकटनदूर
 वे ॥ २ ॥ जिदमोनीवेनसूनी ॥ अगतागुरपीरवे ॥ अलटपटन
 मेरषठनाललमदरियातीरवे ॥ ३ ॥ अजवसाहिवहेसुभान
 ॥ योजरमकाकीनवे ॥ भिजरीकेघाटषठकर ॥ ध्यानधरपुर
 यीनवे ॥ ४ ॥ अजवररियाहेहिरबर ॥ ममहसपिछानवे ॥ अ
 वपापनघादघातस ॥ गाजिमीघरतमानवे ॥ ५ ॥ अस्तवचायअ
 ललसाहिव ॥ अुरसकजजहूरवे ॥ अरसऊपरमहलभालक
 ररकिलमितानूरवे ॥ ६ ॥ मोलेकरीमपूरायपूबी ॥ धुनसह
 सरआपवे ॥ बगरोजनिवाजकलमा ॥ हेसबदगरमापवे ॥ नि
 रभेविहग्मनादबाजे ॥ निरपकरहुकदेशवे ॥ अरसीअजोनी
 जिदमोनी ॥ अलपषादखलेपवे ॥ ७ ॥ मढीमहसनतास
 के ॥ आसनधसर्मीधेनवे ॥ पाजीशुलामगरीबतेरा ॥ देष
 निअपधेनवे ॥ ८ ॥ बदेपोजपेशपकरिवे ॥ लेषासरेमैस्त्रि
 जियेगा ॥ करधनीकाजिकरये ॥ ९ ॥ अिकरफिकरफिलाद
 करले ॥ अदरूनीथरसवे ॥ हासीमवालीयादकीजे ॥ आसरे
 मितरसवे ॥ १० ॥ रसगरंगीलारामजपले ॥ अलषकादरया
 रवे ॥ पीराफकीरापरसले ॥ पूजोसनेसीसाधवे ॥ ११ ॥ दर

गहमिटेजौडंडतेरा ॥ नेकीनिरंतरराषवे ॥ नापैदसैपैदाकि-
 या ॥ नूनामविनानापाषवे ॥ ४ ॥ दिलसफाकरसेलानकीजे ॥
 बंकमारगचाटवे ॥ इलापिंगुलासुषमना ॥ नूउत्तरऔघटघा-
 टवे ॥ ५ ॥ बंकनालबिसालबहना ॥ हैशमीरसअरसवे ॥ र-
 मनाबिहूँनारागगावे ॥ विनांचिसम्यौंदरसवे ॥ ६ ॥ प्यालाअ-
 मीरसपीजिये ॥ पूल्हहैबजरकपाटवेअरसकरसअबंधअव-
 गत ॥ कोल्हूचवैविनलाटवे ॥ ७ ॥ निरजैनिरंतरनेमरषि ॥
 अकलाअनाहदरातवे ॥ सुकतामुलायमयादसाहिव ॥ दूरक-
 रदिलघातवे ॥ ८ ॥ जोगीबिवोगीबिंदरष ॥ सुनमैसमाना-
 सिंधवे ॥ हाजरगुलामगरीबहै ॥ सोलाकलारचीचंदवे ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥ बंदेदेषलेदरहालवे ॥ सुनमंडलसैलकरले ॥ अजव-
 गीबीष्यालवे ॥ ११ ॥ जवरूतपरनासूतहै ॥ नासूतपरमलकूत-
 वे ॥ मलकूतपरलाहूतहै ॥ लाहूतपरअनभूतवे ॥ १२ ॥ सुनि-
 लेसहंसरजापकू ॥ सुनमैतिलहराबांधवे ॥ सेसकैसिरध्या-
 नधरिये ॥ उलटसरकूसांधवे ॥ १३ ॥ तीनसुरतनिरषनिहचल-
 ॥ पैठिदेषपंतालवे ॥ मूलचकरगनेसगैबी ॥ रंगरूपविसा-
 लवे ॥ १४ ॥ डंडधारीभुजाभारी ॥ मुकटकीछवषूचवे ॥ अमीअ-
 नाहदअदलहै ॥ फजलीफजलमहबुबवे ॥ १५ ॥ दुकडलट-
 चिसमैसिंधमै ॥ जलकैजलाविंदजोरवे ॥ अजबरासबिला-
 सवानी ॥ चंदसूरकरोरवे ॥ १६ ॥ हलकानभारीहैसुरारी ॥ अ-
 जवदूरिनैनवे ॥ दिलमगजअंदरमहलहै ॥ नूसमजलेयाहसै

मवे ॥७॥ येकगुमटश्रटसधमादहे ॥ दुलतेघहगमचौरवे
 ॥ सेतछत्रसीसोहे ॥ अजबबजलभौरवे ॥ ८ ॥ अजबनूरग
 हरजोती ॥ जिलमिलेजिलकतवे ॥ हाजरगुनामगरीबहे ॥
 जसादेपचारनधमवे ॥ ९ ॥ १ ॥ वेदेदेपहामहमूरवेशरसऊ
 परधनीसाहिब ॥ महीयेवकसरवे ॥ १० ॥ असलमीराथधरत
 किया ॥ हेमगनमहबूबवे ॥ चासकाराति कप्रसथर ॥ दे
 मिलेगुदिमूबवे ॥ ११ ॥ अधरकजअनूपबानी ॥ योलताकअथे
 मवे ॥ १२ ॥ सधनीवे ध्यानविम ॥ जेसभेफोकटकैमवे ॥ १३ ॥ अ
 जरमूरतअभेसरत ॥ देपिलेगुलजारवे ॥ कुसफडुभीयोदि
 षसिकरंममेरीदारवे ॥ १४ ॥ विसमनाजरअल्हहाजरमेनफिन
 विसारवे ॥ इरीअशुदधजातपायम ॥ निपसकूडुकमारवे ॥
 वमडुसतिरयेककरलेहपमनासभासवे ॥ इत्यपिगुलानद
 सत्री ॥ यिनासरवरपालवे ॥ १५ ॥ सुयनमानसमूससापा ॥
 देपवेकहदेधवे ॥ गरीबदासनिवासगारी ॥ हेशलहधले
 मवे ॥ १६ ॥ बदेदेपलेडुरवीनवे ॥ खेनकउघारकिबारपोल्हो ॥
 धीजलविनमीमवे ॥ १७ ॥ विमजसगहामीनचसता ॥ ना
 मनीकाअधरवे ॥ वेडेविद्यामखमानदेवो ॥ कोलथेपाहकद
 रवे ॥ १८ ॥ पानीविनासरवरसरु ॥ जसफूलहेगुलजारवे ॥
 अधरवागधननफल ॥ काइमकलाकरतारवे ॥ १९ ॥ करनि
 गहअगहथासन ॥ अरधताविगबदरवे ॥ विमापपावजता
 लसुर ॥ बामेबजैजहामधरवे ॥ २० ॥ विसमथकअनकना

सा ॥ अधरमहलअकासवे ॥ दरीषानैदमडुलीचा ॥ चुस
 मकरदंमस्वासवे ॥ ५ ॥ बानीविनोदअसोधपुरचंदानहींज-
 हांस्वरवे ॥ पानीपवननहींभवनभारी ॥ कलासंषसपूरवे ॥
 ॥ ६ ॥ काइमऊलफकूंचीलगी ॥ षोळेहोईसतपीरवे ॥ क
 हतादासगरीबतबीबतनचंगाकरतकवीरवे ॥ ७ ॥ ५ ॥
 आसकइसकदरफनावे ॥ येकस्तुजतसेतीसुषनकीजे ॥ बो
 लनानहींघनावे ॥ १ ॥ घनावोलतडोलपौना ॥ मनमूरादाछूट
 वे ॥ पंछीपंषेरूपौनहे ॥ योहचलैपैडैउठवे ॥ २ ॥ चलैपैडै-
 ऊठमनुवाब्बाडतनयाहदेहवे ॥ बपरेबटाऊकोनसाऊकिया
 कासेनेहवे ॥ ३ ॥ पैडैचल्यामनूवाफिरे ॥ कीन्हाजरासुकामवे
 ॥ मातापितानहींबंधवा ॥ कोनैतुम्हारागामवे ॥ ४ ॥ अकल
 देसअलीलपुरसे ॥ ऊतसाकिसहेतवे ॥ कमलफूलसुंनअ
 वर ॥ जहांभौरासेतवे ॥ ५ ॥ अगरवैलीहैचवेली ॥ संषकि
 रनसुभानवे ॥ गरीबदासनिवासपदमें ॥ फजलपुरकुरबान
 वे ॥ ६ ॥ ६ ॥ फजलतालबइसकगालिव ॥ बिरहबंगविवोग
 वे ॥ नेमीनिवाजीदगाबाजी ॥ दूरफरयोहसोर्गवे ॥ १ ॥ कावा-
 अरसबिनकुरसहे ॥ बंगीदरददिलबंगवे ॥ मकामनीसेंबग
 लहे ॥ पोहचैकोईतहांगरदवे ॥ २ ॥ मरदहाजीहोतहे ॥ जहां
 नहींकायरकामवे ॥ तंततसबीफेरिये ॥ जहांस्याफसीनाना
 सवे ॥ ३ ॥ जीवताहीमरमूलाने ॥ नामनकाघोरवे ॥ काजीक
 जामैक्यालियाषाईगऊबऊछोरवे ॥ ४ ॥ डुकसंककरउससरे

कीहोगाजहाहिसाववे ॥ घूनीपुस्त्यालफीरतहै ॥ निवसीज
 हाकिमाववे ॥ ५ ॥ कीतेगुनाहगनीमर्णेश्व ॥ ज्वायकरकिसुभ
 तवेगूरागुलामंपातहै ॥ येकटेभीवचनाथवे ॥ ६ ॥ कटेजीवश्च
 नाथकरद ॥ सरैबदलादीनवे ॥ गरीबरासेहकहाजीतमोगो
 सतसीनवे ॥ ७ ॥ ७ ॥ यदेदेपलेनिजमूलवे ॥ कलाकोटश्चसव
 धारा ॥ अथनिरसुनफूलवे ॥ १ ॥ ऐश्वर्यश्चसुवश्चयगतश्च
 धरश्चादश्चनाथवे ॥ कमलमोतीजंगमगे ॥ जहापुरतनिरत
 सुमाधिये ॥ २ ॥ भयमभारीरवनसोभ्या ॥ भजीरामरहीमवे
 ॥ साहिबधनीकूयाकर ॥ अपखलदखलधकरीमवे ॥ ३ ॥
 मन्बरपीररहेसगतेरेविछरतानहीपलकवे ॥ कायमकलकु
 रवानजा ॥ घालंकबसेहैपलकवे ॥ ४ ॥ कलकधनीहैकलक
 मै ॥ तूजलकपलकसमोयवे ॥ अरसचातनहैविद्वगम ॥ अ
 धरविसमैसोयवे ॥ ५ ॥ बैराटमैयेकघाटहै ॥ ५ ॥ संघाटमैइक
 अरवे ॥ ६ ॥ सदाभरमैइकदेहेरा ॥ जहापूवहैइकयारवे ॥ ६ ॥ स
 वहेदिलबारसाहिय ॥ देषनानहीभूलवे ॥ गरीबरासनिवासन
 कपर ॥ भईसेजासुलावे ॥ ७ ॥ ४ ॥ बदेअधरवेहाचलतवे ॥
 साचनानसुगरसाहिय ॥ नहीकरयागलातवे ॥ १ ॥ अधरपोह
 भीअधरगिरबर ॥ अधरसरवरतालवे ॥ अधरमरीयागत
 हैजहा ॥ अधरहीरेतालवे ॥ २ ॥ अधरमीकाअधरपेवद ॥
 अधरपानीपवनवे ॥ अधरचराअधरसूरज ॥ अधरसीराम
 वनवे ॥ ३ ॥ अधरबागअधरबेले अधरीकूपतखववे ॥ अध

रमालीकौहकताहै ॥ अधरफूलविलावचे ॥ ४ ॥ अधरबंगला-
 ध अरख्यौढी ॥ अधरसाहिव आपवे ॥ अधरपुरगढहूठनगरी ॥
 नाभनासांमापवे ॥ ५ ॥ हूठहाथहिजरहासल ॥ अधरपर-
 येकअधरवे ॥ गरीबदासंअधरध्यानी ॥ ओढियेकैचदरवे-
 ॥ ६ ॥ १ ॥ बंदेपाषनासपिछानिवे ॥ पाषसेलापाषपरचीषा-
 षहैअस्मानवे ॥ १ ॥ पाषसेवापाषपूजापाषसाहिगरासवे
 पाषचंदनपाषअरपन ॥ पाषहैऔहधासवे ॥ २ ॥ पाषसं-
 षापाषफालर ॥ पाषहैवैतरवे ॥ पाषवीनापाषवंदा ॥ पाष
 यारानूरवे ॥ पाषसिंज्यापाषआसन ॥ पाषहैऔहतषतवे
 ॥ पाषैपुजाशीपूजता ॥ जोपाषहैसभरषतवे ॥ ३ ॥ पाष-
 करसीपाषतुरसी ॥ पाषमालाफेरवे ॥ पाषरागीपाषगवै ॥
 पाषनाडुभेरवे ॥ ५ ॥ पाषभौरापाषचौरा ॥ पाषपुसपंगंधवे-
 ॥ पाषमोतीपाषहंसापाषसंवरसिंधवे ॥ ६ ॥ पाषरुहरापा र
 षमिहरा ॥ पाषसूरजचंदवे ॥ पाषसत्रपाषवसत्र ॥ पाषपु स
 रआनंदवे ॥ ७ ॥ पाषवानीपाषप्रानी ॥ पाषबोलनहारवे
 ॥ गरीबदासंपाषहोकर ॥ पाषकरदिदारवे ॥ ८ ॥ १० ॥ बंदे
 जानसाहिवअजरवे ॥ अजरसूरतअजरसूरत ॥ अजरहै-
 औगजरवे ॥ अजरहीराजापजपिये ॥ अजरहैऔहलालवे ॥
 निहलालवे ॥ अजरहीराजापजपिये ॥ अजरहैऔलालवे ॥ २
 ॥ अजरनैनाअजरवैनाअजरमालातिलकवे ॥ येकअ-
 जरीकहांगावै ॥ अजरहैसभसूलकवे ॥ ३ ॥ अजरकायस-

अजरायमा ॥ अजरअक्षरधामवे ॥ अजरपीघू अजररुते
 ॥ अजररुतेनिहकामवे ॥ ५ ॥ अजरघाटी अजरवाटी ॥ अ
 जररुतेभीहृदारवे ॥ अजरअजरीजातहै ॥ अजरअजरमका
 ग्नारवे ॥ ५ ॥ अजररपानं अजरध्यान ॥ अजरस्सनसमा
 वे ॥ अजरमन्त्रअजरजतर ॥ अजरपावैदादवे ॥ ६ ॥ अज
 रसंजम अजरसाधा ॥ अजररुतेफलफूरुवे ॥ अजरअजे
 लीजअवगत ॥ अजरस्वरधमूलवे ॥ ७ ॥ अजरनायक अज
 रपायक ॥ अजरताहृषवासवे ॥ अजरकाया अजरस्माय
 अजरनिहचरुवासवे ॥ ८ ॥ अजरनायव अजरसाहिव ॥
 अजरसारीसैनवे ॥ गरीवदासे अजरहोना ॥ अजरफोव
 फैनवे ॥ ९ ॥ ११ ॥ अथपनिवर्त्तारुनीलीलिषत ॥ अजरगह
 सादमरीआना ॥ तबलगठगैनतुमरावाना ॥ १ ॥ दोही
 वेहहरभैरुकारा ॥ जिनहसोकीपठौपकारा ॥ २ ॥ के
 टककरूपैमाला ॥ अमककरकेतोरौषाला ॥ ३ ॥ चौदहको
 बाधजमत्पाऊ ॥ परमरायकृत्रासुदियाऊ ॥ ४ ॥ चौद
 भवनहुहाईगाजे ॥ जिसकोधुनजमककरभाजे ॥ ५ ॥ अ

सोहंसाहसकीयेअमाना॥२॥अंसृतपानअमीरसचोषा-
 ॥पीवोहंसानाहीधोषा॥३॥यारसकीजोलुगैखुसारी॥ग-
 गनमंडलमेंसुनअधारी॥४॥ऊरैअमीरसअंसृतधार॥जा
 नैगाकोईपीवनहारा॥५॥हंसप्रेवाअंसृतपीवै॥संघोकल
 पजुगेजुगजीवै॥६॥दूदैंबंधनहोतषुलासा॥गरीबदास-
 पदहंसनिवासा॥७॥सेतसिंघासनसेतहीअंगा॥सेतह-
 नजाकैसेतहीरंगा॥९॥सेतषवाससेतहीचौरा॥सेतैपो-
 हपसेतहीभौरा॥१॥सेतैनादसेतहीतूरा॥सेतसिंघाष्ठा-
 नावैहंरा॥३॥सेतैनदीसेतहीबिरछा॥सेतैचंदनससतक
 चरच्या॥४॥सेतश्रोवरसेतहीहंसा॥सेतैजाकासभकुलवे-
 सा॥५॥सेतैसंद्रचंद्रजोती॥सेतैमानकसुकतासोती॥६॥
 सेतैसुसटसेतहीथाना॥सेतधजाऔरसेतनिसाना॥७॥गरी
 बदासऔधामहासरा॥सरनरसुनजनकरोविचार॥८॥३
 ॥बिनहीपंथपंथहैमाई॥बिनचरनोंचालैसोजाई॥९॥बिन
 हीदेहधरैजाहांध्याना॥देहनप्रेनपिंडनप्राना॥१०॥पिडब्रह्म
 उवाकनहीबानी॥मनबुद्धसेतिअगमनिसानि॥३॥अल-
 फइलामगासनहीप्रेहा॥गगनमंडलमेंजुत्यासनेहा॥४॥
 येतायेलमजोदिषलावै॥सोसतगुरसाचाकहलावै॥५॥
 गरीबदासमनधरैनधीरं॥अधरधारपंथबाटकबीरं॥६॥
 ॥७॥रूपनरेषमेषनहीवाना॥आषाअसतरुनाअसथा-
 ना॥९॥अकलअसुमीगसनहीमोरी॥होसतगुरकहांपा-

ऊढोरी ॥२॥ ऊचाधामगामनहींकोई ॥ विनाचरनजहांचरु-
 नाहोई ॥३॥ अचरजलीलाभगमअपारा ॥ कैसेंपाऊपथ
 सुम्हार ॥४॥ अरतनिरतकासारसतेसा ॥ उत्तरेहसापारह
 मेसा ॥५॥ कहैकबीरप्रपवरिधाम ॥ गरीबदासयेकनौका
 नाम ॥६॥ ५॥ आदसनातनपथहमारा ॥ जानतनाहीयेहस
 सारा ॥७॥ पथोसेतीपथअलहदा ॥ भेषोबीचपरयोहैबहदा
 ॥८॥ षट्दसनसभषट्पदहोई ॥ इन्द्रपथनपावैकोई हिं-
 दूतरककचरनहींजानै ॥ रोमाग्यासकरैधिकतानै ॥९॥ दे-
 न्यूदीनअकीवनभासा ॥ वैपूर्वचैपबसनिवासा ॥१०॥ द-
 ह्दीनकाबाचघाठेया ॥ उचरदषनमैहमदेध्या ॥११॥ गरीव
 दासहमनिहचैजान्या ॥ चार्योकूट्सीदिसध्याना ॥१२॥
 ॥१३॥ कैसेंहिंदूतरककषया ॥ सभहीयेकेहारेभाया ॥१४॥ कै-
 सेंचाइनकैसेसूचयेकेहाइयामतनगूद ॥१५॥ येकैबि-
 दयेकभगदास ॥ येकैसभषट्बोलनहरा ॥१६॥ षोमक-
 तीसयेकहीजाती ॥ ब्रह्मबीजसभकीउत्पाति ॥१७॥ येकै
 कुलयेकैपरवार ॥ ब्रह्मबीजकासकरूपसारा ॥१८॥ ऊच
 नीचइसविपहैसोई ॥ कर्मकृकरमकषावैदोई ॥१९॥ गरी
 बदासजिननामपिछान्या ॥ ऊचनीचपदइप्रवाना ॥२०॥
 अथभारतीलिखत ॥ पैहरीभारतीहस्त्रवारैतैतपुजज
 हाप्रानधारे ॥ पातीपचपहोपकरपूजादेवनिरजनभोर
 पूजा ॥२१॥ पदषट्मैभारतीगाजे ॥ सकळमईहरिनोतविरा

१॥ सातसरोवरमंजनकीजै ॥ जतकीधोतीतनपरहीजै ॥
 २॥ ग्यानकागोबामैलनराषै ॥ धरमजनेऊसतमूषभाषै ॥
 दयाभावतिरुकमसतकदिजै ॥ प्रेमभगतकीअचमनहीजै
 ३॥ जोनरऐसीकारकमावै ॥ कंठीमाहासहजसमावै ॥ ४ ॥
 गायत्रीसोजोगिनीतीषोबै ॥ त्रपनसोजोतमकनहोवै ४
 संजासोजोसिंधपछानै ॥ मनंपसरेकूंधरमैआनै ॥ सोसं
 ज्याहसरेमनसानी ॥ कहैंकबीरसुनोरैरयानी ॥ ५ ॥ अैसीआ
 रतीत्रिभुवनतारै ॥ तेजपुंजजहांपानउधारे ॥ पातीपंचपहो
 पकरपूजादेवनिरंजनऔरनदूजा ॥ ६ ॥ अनहदनादपिंड
 ब्रह्मंडावाजतअहनिससदाअषुंडा ॥ गगनथालजहांउड
 गनमोती ॥ चंदसूरजहांनिमलजोती ॥ आतनमनधनसभ
 अर्पनकीन्ह्यापरमपुरुषजिनआत्मचिह्या ॥ प्रेमप्रकासभ
 याउजियारा ॥ कहैंकबीरमैदासतुम्हारा ॥ संज्याआरती
 करोविचारी ॥ कालदूतजमरहैजषमारी ॥ लाग्यासुषमन
 कूंचीताला ॥ अनहदसबदुडैजनकारा ॥ ८ ॥ ऊनसुनि
 संजमअगमघरजाई ॥ अछैकमलमैरह्यासमाई ॥ त्रिकु
 टीसंजमकरलेद्रसन ॥ देषतनिरषतमनहोप्रसंच ॥ प्रेमस-
 गनहोआरतीगावैं ॥ कहैंकबीरमौजरुबौहोरनआवैं ॥ ३ ॥
 ९ ॥ हरहरजीकामरमनपाया ॥ जिनपौहचोलाअजबबना
 या ॥ पवनकीसूईपवनकाधागा ॥ नौदसमाससीमतेलागा
 ॥ पांचततकीशुदरीबनाई ॥ चंदसूरजदोधिगरीलगाई ॥

वहीराठाठरुगापा॥ आपैसीवै

हरावै॥ १३॥ कहैकबीरसोईजनमेरा॥ निरधीरकाकरैनवेरा॥
 ४॥ रामनिरजनभारतीतेरी॥ अवगतगतकूबसमजपदै नही
 १४॥ कूपोचमतमेरीनिशकारनिरहेपनिरजनगुणभतीत
 तीहूदेनाग्यानध्यानसेरहैनिरुहा॥ १५॥ जानीजायनसेवा
 सतकसनदनारदसुनिजन॥ सेसपारनहींपावै॥ सकरु
 नपरैनिगुवासर॥ १६॥ भजहूताहुरुहवै॥ सबसुमरैअप
 नैवनमाना॥ तौगतरूपीनजाई॥ कहैकबीरकृपाकरुजन
 प्रन्येहैतूसमजाई॥ १७॥ ५॥ चरकीआरतीचरकैछाजै॥
 चरकेतारुपधावजवाजै॥ चरकेगायनचरकूगावै॥ चरसन
 तिघडरनअवि॥ १८॥ चरकीवानीबौरैचर॥ फिरुमिरुचर
 लाभरभूर॥ चरकबीरचरहीभावै॥ चरकेकहैपरमपदपावै
 ॥ १९॥ ६॥ तेजकीआरतीतेजकैभागे॥ तेजकभोगतेजकौ
 रुगै॥ तेजपपावजतेजवजावे॥ तेजहीनाचैतेजवीगावै॥
 २०॥ तेजकाथारुतेजकीपाती॥ तेजकापहोपतेजकीपाती॥
 तेजकेआगैतेजविराजै॥ तेजकवीरआरतीसाजै॥ २१॥
 आपैआरतीआपैसाजै॥ आपेकीगरआपेवाजै॥ आपेतारु
 जाबकनकारा॥ आपनचैअपदेखनहार॥ २२॥ आपेदी
 पकआपेवाती॥ आपेदोहपआपहीपाती॥ कहैकबीरवो
 सीआरतीगारु॥ आपामधेआपसमाज॥ २३॥ ८॥ अरु
 आरतीअरुसमोई॥ निरभेपदमैमिरुनाहोई॥ सेक॥ दि

लकादीपपवनकीवातीचितकाचंदनपांचोपाती ॥ १ ॥ त्त
 कातिरुकध्यानकीधोती ॥ मनकीमारुअजपाजोती ॥ १०
 नूरकेदीपनूरकेचौरा ॥ नूरकेपौपहनूरकेभौरा ॥ ३ ॥ नूरकी
 जोजिनूरकीजालरी ॥ नूरकेसंषनूरकीरात्रि ॥ ४ ॥ नूरकी
 स्यौंजीनूरकीसेवा ॥ नूरकेसेवकनूरकेदेवा ॥ ५ ॥ आदिपुरुषअ
 दहीअनरागी ॥ सुनिसंपदमैसेवाहागी ॥ ६ ॥ षोजोकमरु
 स्तरतिकीडेरी ॥ अगस्वीपमैषेलोहोरी ॥ ७ ॥ निरभयपद
 मैनिरतिसमानि ॥ दासगरीबद्रसद्रबानी ॥ ८ ॥ १ ॥ अदली
 आरतीअदरउजारा ॥ सतपुरषदीजोदीदारा ॥ टेक ॥ कै
 सैंकरछुटैचौरासी ॥ जंजीसंकटबौहततिरासी ॥ १ ॥ जुगन
 जुगनहमकहतेआये ॥ भौसागसैंजीवछुटाये ॥ २ ॥ करवि
 सवासस्यासकंपेषो ॥ यातनमैंमनसूरतदेषो ॥ ३ ॥ स्वासा
 पारसभेदहमारा ॥ जोषोजेसोउतरेपारा ॥ ४ ॥ स्वासापारस
 आदनिसानी ॥ जोषोजेसोहोयदरवानी ॥ ५ ॥ हरदसनाम
 स्वहंगमसोई ॥ आवागसनबौहरनाहोई ॥ ६ ॥ अर्बतोचढे
 नामकैछाजै ॥ गगनमंडलसैंनौबतबाजै ॥ ७ ॥ अगस्वलीरु
 सबदसहदानी ॥ दासगरीबद्रिहंगमवानी ॥ ८ ॥ २ ॥ अदली
 आरतीअदरुवपना ॥ कोलीबुनैविहंगमताना ॥ टेक ॥ र्या
 नकारछध्यानकीतुरिया ॥ नासकाघागानिहचैचुरिया ॥
 १ ॥ प्रेमकीपानकमरुकीषाडी ॥ सुरतकासूतबुनैजिजागदी
 २ ॥ नूरकीनारुफिरेदिनराती ॥ जाकोलीकूंकालनपाती ॥ ३

करुकापुटा धरनीगाढा ॥ गहरयकिनातानागाढा ॥ ४ ॥ नि
 रतकीनही बनेजेकोई ॥ सोतोकोठीअवचठहोई ॥ ५ ॥ रे
 नाराजिककाबुनदीचै ॥ भैसेसतगरसाहिबरीफै ॥ ६ ॥ बा
 मगरीवसोईसतकोठी ॥ तानाबुनहैअरसभमोली ॥ ७ ॥ ३
 अदलीआरतीअदलभदनी ॥ नामबिनाहैकापासनी ॥
 टेक ॥ ऊठीकायाअरुलुहारा ॥ इहापियदासुषमनदारा ॥
 १ ॥ किरतघनीभूलेनस्तोई ॥ जाफटनिहषानापनहोई ॥ २ ॥
 सोनरकीटपतगभवगा ॥ घोरासीहैधरिहैभगा ॥ ३ ॥ उबूत
 घानीभुगतैघनी ॥ समजेनाहींसबदसहदानी ॥ ४ ॥ हमहैस
 वदसबदहममाहीं ॥ हमसैयिनऔरकहूनाही ॥ ५ ॥ पाप
 नदोबीजबनायो ॥ सबभेदकोऊबीरहैपाया ॥ ६ ॥ सब
 वैसर्वस्त्रेकमैगाजे ॥ सबदबजीरसबदहैराजे ॥ ७ ॥ सब
 वैथावरजगमजोगी ॥ दासगरीबसब्वरसभोगी ॥ ८ ॥
 अदलीआरतीअदलजमाना ॥ जमजौरामोवैतरुबा
 न ॥ टेक ॥ परमरायपरहमरीपाई ॥ नीबतनामचढेरे
 भाई ॥ १ ॥ चित्रयसकेकागजकीरौ ॥ सुगनजुगनमेदौत
 कसीरौ ॥ २ ॥ अदलीपानअदलयेकरासा ॥ सुनकरहस
 नपावैगासा ॥ ३ ॥ अतराईलसुखरदाना ॥ परमराय-
 काहैतरुबाना ॥ ४ ॥ मैदौतरुबकरौतापीरा ॥ भेदेदास-
 गरीबकबीरा ॥ ५ ॥ ५ ॥ अदलीआरतीअदलपठाक ॥ ज
 गनजुगनकारेवात्पाम ॥ टेक ॥ शादिनाथेपिडनपाना

नहीं पानी पवन जिमी असमाना ॥ १ ॥ कंछु मंछु करंभनका
 पा ॥ चंदसूरन ही दीपवनाया ॥ २ ॥ सेसमहेसगनेसनब्रह्मा
 नास्दसारदना विसक्रमा ॥ ३ ॥ सिधचौरासीनतेतीसों ॥
 नों औतारन ही चौबीसों ॥ ४ ॥ पांचततना हीं गुनतीना ॥ ना-
 दविंदना हीं पटरीना ॥ ५ ॥ चित्रगुपतना हीं किरतमबाजी ॥ ध-
 रमशयन हीं पंडितकाजी ॥ ६ ॥ धंधूकार अनंतजगदीते ॥
 जादिनकागदकौहकीनचीते ॥ ७ ॥ जादिनथेहमतषतषवा-
 सा ॥ तनकेपाजीसेवगदासा ॥ ८ ॥ संबजुगनपरत्पूपरवाना ॥
 सतपुखकैसंगरहाना ॥ ९ ॥ दासगरीबकबीरकाचेरा ॥
 सतलोकअमरापुरउरा ॥ १० ॥ ६ ॥ औसीआरतीपारखली-
 जै ॥ तनमनधनसभअरपनकीजै ॥ टेक ॥ जाकैनौरुषकुं-
 जदिवालेभारी ॥ गोवरधनसेअनंतअपारी ॥ १ ॥ अनंत
 कोटजाकैबाजेबाजै ॥ अनहदनादअमरपुरहजै ॥ पुनमं-
 डलसतलोकनिधाना ॥ अगमदीपदेष्वाअसथाना ॥ ३ ॥ अग-
 रदीपमेंध्यानसमोई ॥ जिलमिलजिलमिलजिलमिलहोई
 ॥ ४ ॥ तातैपोजेकायाकासी ॥ दासगरीबमिलेअवनासी-
 पा ॥ ७ ॥ ऐसीआरतीअपरमपारा ॥ थाकेब्रह्मावेदउचारा-
 ॥ टेक ॥ अनंतकोटजाकैसंभूध्यांनी ॥ ब्रह्मासिषवेदपढै-
 वानी ॥ १ ॥ इंद्रअनंतमेघरसमाला ॥ सबअतीतबृधनहींद-
 बारा ॥ चंदसूरजाकैअनंतचिरागा ॥ सबदअतीतअज-
 बरेगवागा ॥ ३ ॥ सातससुंद्रजाकैअंजननैना ॥ सबदअतीत

अजवरगवेना ॥ ५ ॥ अनतकोटजाकैवाजेवाजे ॥ पूरनब्र-
 ह्मअमरपुरछानै ॥ ५ ॥ सीसकोटरामाऔतारी ॥ सीता
 सगरहतीनारी ॥ ६ ॥ तीनपदमजाकैभगवाना ॥ सपतही
 रुक्मिणीसगवाना ॥ ७ ॥ तीसकोटसीतासगवेरी ॥ सपत
 हीरुरापादेफेरी ॥ ८ ॥ जाकेअरुपरसकलपसारा ॥
 असापूरनब्रह्मपारा ॥ ९ ॥ दासगरीबकहेनरहोई ॥ बौ-
 हप्रदधीबैवीरुकाकोई ॥ १० ॥ गरीबसतवादीसबसतहै ॥
 आपआपनेपास आजजकीअर्दासहै ॥ सकलसंतप्रनाम-
 ॥ ११ ॥ अथरागवल्पाणरिपते ॥ घटहीमैचदचकोरा ॥
 साधोभाईघटहीमैचदचकोरा ॥ टेक ॥ दामनदरवैषन
 हरगरेजै ॥ बोलैदादरमोरा ॥ १ ॥ सतशुरगसतीगसतफि-
 रावै ॥ फिरताग्यानदुहोरा ॥ २ ॥ अदलीराजअदरुबादसा
 ही ॥ पाचपचीसौचोरा ॥ ३ ॥ चीन्होंसबदसिंधपरकीजै ॥
 होनागारतगोरा ॥ ४ ॥ त्रिकूटीमहदमैआसनमारो ॥ जहाच
 हैनजमुकाजोरा ॥ ५ ॥ दासगरीबभगतकीजो ॥ इवा-
 जातहैभोरा ॥ ६ ॥ १ ॥ घटसैद्रसनहूरा ॥ साधोभाई-
 घटमैद्रसजहूरा ॥ टेक ॥ कायकीरउलटकरभागे ॥ पौ-
 हचेगेकईसरा ॥ १ ॥ गगनमडरुमैअनहदबबै ॥ जनके
 जीनेतरा ॥ २ ॥ त्रिकूटीमहदमैध्यानसमोवो ॥ जिर
 मिरुजिरुमिरुनूरा ॥ ३ ॥ अगरीपमैआसनमारो-
 मिरुगईजमकीपूरा ॥ ४ ॥ सपपदमजहापरघटदेये ॥ सु-

सदमिलया पूरा ॥ ५ ॥ दासगरीब अटल जांगीरा ॥ काँढे कौन कर
 रा ॥ ६ ॥ २ ॥ दिल दरवेस को ई है जग मै दिल दरवेस को ई है ॥ टेका ॥ मग
 जमनी कुं पी सब हावै ॥ दुर कर दोष दुई है ॥ १ ॥ पंथा सी मै सतप-
 दनी मै सो हं सुरत सुई है ॥ २ ॥ रस कु स साषन संतोषाया ॥ जीव
 त जगत छुई है ॥ ३ ॥ अब तो चढे नाम के छाजै ॥ होनी होय स
 हुई है ॥ ४ ॥ मूल कमल कुडिठ करवा थो ॥ उरु टी पौं न गुई-
 है ॥ ५ ॥ दासगरीब अगम पुर डेरा ॥ चेतो अंध लोई है ॥ ६ ॥
 ३ ॥ धन ते अवगत रंग रगे है ॥ धन ते अवगत रंग रगे है ॥ टेका ॥-
 जो सुते सो जना विगते ॥ जागे सो ई जमे है ॥ १ ॥ सूरे ते ई नगर पौ
 हचे ॥ कायार उरुव भगे है ॥ नौ मे हारे द्र सब दरीवा दस मै ध्यान
 लगे है ॥ २ ॥ संन सह र मै हुई सगाई हमरे हंस मंगे है ॥ ३ ॥ निरगुन
 नाम निरारु भ चीन्हो ॥ हमरे साध सगे है ॥ ५ ॥ विन सुष बानी-
 सत गुर गावै ॥ नाही दस पगे है ॥ ६ ॥ दासगरीब अगम पुर डेरे
 ॥ सत के दाग दगे है ॥ ७ ॥ ४ ॥ कब हने न होवे मे लारा मधन ॥ क
 बून होवै मै ला ॥ टेका ॥ चेतन हो कर जड कुं पूजै ॥ मूरष सुठर
 बैला ॥ १ ॥ जिस दग डै-पंडित उठ चालै ॥ पीछै पड ग या गै ला-
 ॥ २ ॥ औ घट घाटी पंथ विकट है ॥ जहां हमारी सैला ॥ ३ ॥
 बीना बंदगी म्है साकी जै ॥ बोका, नेके पैला ॥ ४ ॥ कू कर सु-
 कर परकी जैगा ॥ छाड सकल वद पैला ॥ ५ ॥ घर ही को सप
 चास परत है ॥ ज्युते लीके बैला ॥ ६ ॥ पोसत भांगत मा पूपी दें
 ॥ मूरष सुष स्यौं नैला ॥ ७ ॥ सहंस इकी सौं छसै दस है ॥ निस-

वासरतैहा ॥ ४ ॥ गरीबदाससुकनपारउतरगये ॥ अनहद-
 नादपुरैहा ॥ ५ ॥ मीठाहैअवनासीरामरसमीठाहैअब-
 नासी ॥ टेक ॥ जोपीवैपरडोकनातहै ॥ पावेपरमनिवासी
 ॥ १ ॥ पीधव्यापभीसागरतिरगये ॥ छूटगईचौरसी ॥ २ ॥ मन
 सुथरवीरुहारानगरी ॥ षोकोकायाकासी ॥ ३ ॥ दिवदिष्टी
 जहांध्यानधरतहै ॥ दसैंफूलभकासी ॥ ४ ॥ रतनअमोठीसुष
 कासागर ॥ सोइसबदनिवासी ॥ ५ ॥ नभकापवनगगनच
 ढपनै ॥ अनहदपुरकावासी ॥ ६ ॥ बिरहविवोगीइस्दसपीवै
 आत्मप्रेमपियासी ॥ ७ ॥ कोटकठाजीठमिठगनियारा ॥ क
 ठतमरसभजासी ॥ ८ ॥ सेतसुभानप्यानगमनाही ॥ दसौदि
 साफिरभासी ॥ ९ ॥ कोटकठापरसषकठहै ॥ जहासुरजन
 घेंदवगासी ॥ १० ॥ गरीबदासघटहीमैषोजो ॥ बाहरभरसधु
 रसी ॥ ११ ॥ ६ ॥ आतमरामविनानीहसरै ॥ आत्मरामवि-
 नानी ॥ टेक ॥ जोजानैसोईपहचानै ॥ गावैअनहदवानी ॥ १ ॥
 अथेगुगेवधरेडोई ॥ पूनैपथरपानी ॥ २ ॥ पातीतोरचठावैसुरष
 ॥ ३ ॥ भगतेचारूपानी ॥ ३ ॥ बिनावदगीपारनठतरै ॥ कोटजगक
 रदानी ॥ ४ ॥ धरुनापताठपठाये ॥ कडागईसुरगविबानी-
 ५ ॥ धूकूनामनिरवनगाया ॥ किन्सोरामदिधानी ॥ ६ ॥ सप
 तपुरीपसभसजका ॥ सेतपजाफररानी ॥ ७ ॥ प्रह्लादरस
 कूनिसदिनगावै ॥ गिरबरसैदुरकानी ॥ ८ ॥ भगननराया-
 जरतानाहीं ॥ थैसीवदवदवानी ॥ ९ ॥ नरसिपरूपधरेना-

न धरत है ॥ द्विष्टसुष्टुनदी आवै ॥ २ ॥ लघदीरघकुछकहानजा
 ई ॥ जोपावै सोपावै ॥ ३ ॥ अठोत्तरपिदभये है परहो ॥ स्यौकी
 नारकहावै ॥ ४ ॥ नीजनी कूकै सै दरसै गौ रजसी सषठावै
 ॥ ५ ॥ नारदसुनिठपवेसमिठीया ॥ गौरजकै मनभावे ६
 स्यौ कूतारगमनदीना ॥ गौरजततसनावै ॥ ७ ॥ ब्रह्मरिंद्रक
 पाटजहावै ॥ बरुटपेचरीलावै ॥ ८ ॥ सहस्रकसलदलजिलमिठ
 रगा ॥ चोषा फूलचुवावै ॥ ९ ॥ गगानमनामपसरभती ॥ घ
 रनकपठसै आवै ॥ १० ॥ परवीकोटपरमपदसाहीं ॥ सषकै
 सागरहावै ॥ ११ ॥ सुरतनिरतमनपौनपवारथ ॥ च्या रूततमि
 लावै ॥ १२ ॥ आकासै बडचलै विहास ॥ गगनमडल कूध्या
 वै ॥ १३ ॥ मोरमुकटपीतवरराजै ॥ कोटकलाछिवलावै ॥ १४ ॥
 भधरनबरगातासकै नाहीं ॥ विधरत है निरदावै ॥ १५ ॥ विन
 दीघरुनौचठैचितानंद ॥ विनसुषवैनसनावै ॥ १६ ॥ गरीबदा
 सयहकथकहानी ॥ न्युगगायइषावै ॥ १७ ॥ १ ॥ नाम
 निरजननीका ॥ सतोनामनिरजननीका ॥ टेका ॥ तीरथवरत
 थोथरैलागे ॥ जपतपसजमफीका ॥ १८ ॥ भजनवदगीपारउता
 र ॥ सुमरथजीवनजीका ॥ १९ ॥ करमकइच्योहास्करत है ॥ नाम
 अभयपट्टीका ॥ २० ॥ कहाभयो छत्रकीछाहिचहाया ॥ राजपा
 टपेठीका ॥ धानामसहतवेरतनभलाहै ॥ दरदरसामैभीषा
 ५ ॥ आदधनादभयतहेनौपा ॥ सुनोहमारीसीषा ॥ ६ ॥ गरी
 बदाससतघरकैसरने ॥ गगनमडलमैदीषा ॥ ७ ॥ १० ॥

अथरागविजोग॥ सुनियौसंतसुजान॥ गरबनहीकरनारे॥
 चारदिनाकीचिहरबनीहै॥ आषरतोकौंसरनारे॥ टेक॥ तूं-
 जानेमेरीअसीनिबहेगी॥ हरदमलेषाभरनारे॥ ३॥ षायहेपी
 लेबिनसेलेहंसा॥ जोरजोरनहीधरनारे॥ ४॥ दासगरीबस-
 कलमैसाहिव॥ नहीकिसीस्यौंअरनारे॥ ५॥ १॥ सुनियौसं-
 तसुजान॥ दियामैहेलारे॥ टेक॥ औरजन्मबौहतेरेहोहिगे
 ॥ मानसजनमहुहेलारे॥ १॥ तूंजकहैमैलसकरजीरौं॥
 चलनातुमैअकेलारे॥ २॥ अरबषरबलगमायाजोरी॥ संग
 नचलसीधेलारे॥ ३॥ यातोमेरीसतकीनिबरीया॥ सतगुर
 पारपहेलारे॥ ४॥ दासगरीबकहैरेसंतो॥ सबदगुरूचितचे
 लारे॥ ५॥ २॥ १०॥ अथरागप्रज॥ रामनजान्यारे॥ सूढनररा-
 मनजान्यारे॥ टेक॥ जलकीबुंदमहलरच्या॥ यौहसकल
 जहांनारे॥ जठरअगनसैराषिया॥ तेरापिंडरप्रानारे॥ १॥
 जहांतोकौंभोजनदीया॥ अमरतरसषानारे॥ गरबवासतै
 काढकै॥ नरबाहरआन्यारे॥ २॥ लीलाअगमअगाधहै॥ सूर
 तविधनानारे॥ सातपितासुतबंधूवा॥ क्यादेषभुलानारे
 ॥ ३॥ इनमैतेसकोनहीं॥ क्यूंभयादिवानारे॥ जातनचंदन-
 लेपते॥ लेधरेमसानारे॥ ४॥ सुवैसिंभलसेईया॥ तरदेषलुभा
 नारे॥ चंचसारव्याकुलभया॥ बौहतेपछतानारे॥ ५॥ मा
 नसरोवरकमलदल॥ परदूरपयानारे॥ गयेरसातलराहं
 कौं॥ पढपोथीपानारे॥ ६॥ सतगुरसंतसेयेनहीं॥ पूजैपाषा

नारे ॥ मरकव भये कुम्हारके ॥ फेरसूकरस्वानारे ॥ ७ ॥ पंथपु
 रात्म बूफ है ॥ कोई सतसु जानारे ॥ स्वासापारसनाम है ॥ भना
 भीधसथानारे ॥ हिरदेसै हरपाईये ॥ भिकुटी परवानारे ॥ ग
 गनमठठसै गुमट है ॥ जहोपजानिसानारे ॥ ८ ॥ हाजरनाज
 रहैपनी ॥ साहिवदिलदानारे ॥ पठकौचौराकीजिये ॥ ताप
 रकरवानारे ॥ ९ ॥ मनपवनसुरतसै आम है ॥ कहनिरतबया
 नारे ॥ जैसै भलठ अकासकौं ॥ धरहै धुनध्यानारे ॥ ११ ॥ आ
 सनबेपभडोलमन ॥ जोपदहसमानारे ॥ गरीबदासयोपा
 ईये ॥ पीवपुरषपुरानारे ॥ १२ ॥ २ ॥ लेपाठीजैरेपनीकेठेपाठी
 जैरे ॥ टेक ॥ हाटपटनसभलुटगये ॥ कडुअबक्याकीजैरे-
 ॥ पूजीसालगवाईया ॥ फिरकौनपतीजैरे ॥ ११ ॥ भैगाफुल
 भूत्याफिरू ॥ गठवसचढीजैरे ॥ घाकरचोरअनादका
 सिरपरबोकादीजैरे ॥ २ ॥ सीसकाटहाजरकोरे ॥ जबसतए
 रीजैरे ॥ अमीमहारसनाम है ॥ अमरतपैहपीजैरे ॥ ३ ॥ गग
 नमठठभाठीजैरे ॥ कमलादलभीजैरे ॥ सबदअनाबदघोर
 है ॥ चठवससुनीजैरे ॥ ४ ॥ पूजीसाहूकारकी ॥ याद
 हरवमछीजैरे ॥ गरीबदासदुनैकरै ॥ सोसाहक-
 हीजैरे ॥ ५ ॥ २ ॥ लेषादेनारेपनीकेठेपादेनारे ॥ टेक
 गगीरागठचारहीं ॥ गावतमुषबैनारे ॥ ६ ॥ नारे
 लकी ॥ छाडीसभसैनारे ॥ १ ॥ रोकडपरीढकीरही-
 ॥ सभजेवरगहनारे ॥ फुकदीयामैदानसै ॥ कुल्लेननदेनारे ॥

२- मुगदरमारेसीसमें ॥ जमकंकरदहनारे ॥ अतरचत्पातागीरहो-
 य ॥ ज्युंमरदकसहनारे ॥ ३ ॥ फूल्यासोकुमलातहे ॥ चिनियां-
 सोदहनारे ॥ चितरगुपतलेवालीया ॥ जवकागदफहनारे ॥
 ४ ॥ चलियेआबदिबान्ने ॥ सतगुरेसंकहनारे ॥ मुसकलसे-
 आसानहोई ॥ ज्युबौहरमरेनारे ॥ ५ ॥ बोयाअपनासभलुने
 ॥ पकरेहमनअहनारे ॥ चरनकसलकेध्यानसे ॥ छूटे-
 सभफिनारे ॥ ६ ॥ परानंदनीसंगहे ॥ जाकेकसधेनारे ॥ ग-
 रीबदासफिरआवहीं ॥ जोअजरजरेनारे ॥ ७ ॥ ३ ॥ भजन
 कररामडुहाईरे ॥ भजनकररामडुहाईरे ॥ टिक ॥ जन्मअमोली-
 तुजदिया नरदेहीपाईरे ॥ देहीकूंदेवालेचनहीं ॥ सरनरमुनिभा-
 ईरे ॥ १ ॥ सनकादिकनारदरेटे ॥ चहूंवेदागाईरे ॥ भगतकरेभोज-
 लतरे ॥ सतगरसरनाईरे ॥ २ ॥ मिरगाकठनकठोरहे ॥ कहीकर्हा-
 डुहकाईरे ॥ कसतूरीहेनाभे ॥ बाहरभरमाईरे ॥ ३ ॥ राजावुडेमा-
 नमेपंडितचतुराईरे ॥ ग्यानगलीमेवंकहे ॥ तनधूरमिलाईरे ॥
 ४ ॥ उससाहिबकूंयादकर ॥ जिनस्योजवनाईरे ॥ देषतहीहो-
 जातहे ॥ परवतसेराईरे ॥ ५ ॥ कंचनकायाछारहोय ॥ तनटोक-
 जराईरे ॥ मूरषभौडूवावेरे ॥ कयामकतकराईरे ॥ ६ ॥ चमराजु
 लहातिरगये ॥ औरह्मीपानाईरे ॥ गनकाचढीविवानमेमु-
 रगापुरजाईरे ॥ ७ ॥ स्यौरीभिलनीतरगाई ॥ औरसदनक-
 साईरे ॥ नीचातिरेतोसैकहूंनरमूढअन्याईरे ॥ ८ ॥ सबदह-
 मारासाचहे ॥ औरकंठकीवाईरे ॥ धूमकेसेधौलहर ॥ तिहूं-

लोकचलाई ॥ १५ ॥ कलविघकुसमलसुभकटे ॥ तनकचनकाई
 रे ॥ गरीवदासनिजनामहे ॥ नितपरदीन्हाईरे ॥ १० ॥ ४ ॥ अथ
 मंगललिखत ॥ लगनलगीसनलोकअमरपुरचालीये ॥ सनम
 इलसतलोक ॥ दीपधरवालीये ॥ टिक ॥ जागियानादवजा-
 यरथाहेओलने ॥ सतलोककेअकलिषहेचोस्नि ॥ १ ॥ हम
 विक्चारनचीर ॥ छारवोहतेकियेमिहरवानमहमूब ॥ त-
 न्हाअनागिनदीये ॥ २ ॥ होतेकीटपतगसग ॥ किसविधलीये
 ॥ कमेंजौराकालसहीजगजगजिये ॥ ३ ॥ अकलठदासीरागअर
 समेंबानता ॥ सुगतनिरतनईनेस ॥ पवननहीडोलता ॥ ४ ॥
 मनरातेसतलोक ॥ सिधमेंगीवहे ॥ उलटसिलेअनुरागात-
 हानहीस्त्रीबहे ॥ ५ ॥ निरगनऊड काभेद ॥ भवरकोईजान-
 सी ॥ दासगरीबसमधि ॥ अमरपुरतानसी ॥ ६ ॥ १ ॥ दीनकेजीर
 याल ॥ भगतविरददीजिये ॥ घानेजादगुलामअपनकरलीजि
 ये ॥ टेक ॥ घानेजादगुलाम ॥ तुम्हारहैसही ॥ मिहरवानमह
 मूबजुमानजगपतरही ॥ १ ॥ बादीकाजामगुलामगुलामगुलाम
 मह ॥ घडारहैदरवार ॥ सआबोंजामहे ॥ २ ॥ सेवगतलवदारद
 रठम्हारेकूकही ॥ श्रीगनअनंतप्रपार ॥ परिमोहचूकही ॥ ३ ॥
 मेंधरकावदजादा ॥ अरजमेरीमानिये ॥ जनकहतादासग-
 रीव ॥ अपनकरजानिये ॥ ४ ॥ २ ॥ धनसतगरवरयाम ॥ अट
 लबरहमबरी ॥ चलहनकेवडभाग ॥ सहागनधनघरीपेटक
 चलोसपीसनलोक ॥ सेहरागाईये ॥ मुमीपनथालुभरयास-

चौक पराईये ॥ १ ॥ हलदवानहितकीन ॥ बीनजहांवाजहीं ॥
 धनसतगुस्त्रपदेस ॥ दिहाडाअजही ॥ २ ॥ दुलहनिदोहेदेह ॥
 समंगलगावहीं ॥ सतप्रसक्तैधाम ॥ सचौरदुरावहीं ॥ ३ ॥ दुरे
 सहंगमचौर ॥ सचौरीगाईये ॥ ब्रह्माघंडेवेद ॥ लाडेपरनाईये ॥
 ४ ॥ संकरसाहासोध ॥ समागसकीजिये ॥ विषाविसंभरोपत्र
 टलवरदीजिये ॥ नारदपुरैनादसकलसख्यावहीं ॥ सुनमंड-
 लसतलोक ॥ अगमघरछावहीं ॥ ६ ॥ जहांसेतधजाफिररां-
 हि ॥ अरसतबूतन्या ॥ अनहदनादअगाध ॥ ल्यायेनूरीवना
 ॥ ७ ॥ नादतूरडफजांज ॥ संभ्रमुरलीकैजे ॥ बरदंगकालरभेर
 अजबतुरहीसजे ॥ ८ ॥ रंगमेहलमेंरासविलासअपारहैं ॥ च-
 लीसमीउसधामसकंतहमारहै ॥ ९ ॥ दसपरकारअपारअ-
 जबधुनध्यानहै ॥ दूलहवरवरियाम ॥ पियानिहकामहै ॥ १०
 ॥ विषमडेहेलीवाट ॥ पंथनहींपाईये ॥ सुनमंडलसतलोक ॥
 कीनविधजाईये ॥ ११ ॥ सुनमंडलसतलोक ॥ दुलहनीदूरहै ॥
 सबदअतीतपिछान ॥ नूरभरघरहै ॥ १२ ॥ नूररह्याभरघर ॥
 दिवानदिसहै ॥ दुलहनदासगरीब ॥ तघनजिसपेसहै ॥ १३ ॥
 ३ ॥ अबगतअपरसपार ॥ पारनहींपावेहो ॥ नादबिंदकाजी
 व ॥ भरमडहकोवेहो ॥ टिक ॥ मनमनसानहींहौर ॥ ध्यानक-
 हाधरियेहोकासैकरी ॥ फिलाद ॥ कहोकाकरियेहो ॥ १४ ॥ त-
 जदुरमतकासंग ॥ रंगनहींलागेहो ॥ कोटजनमकाखान ॥ हा-
 उनहींछाडेहो ॥ १५ ॥ विघेहलाहलषांघ ॥ जगतममधनाहो ॥

ज्यूहेउकिं संगसिकारीकृताहो ॥३॥ कऊवातजेनबीड ॥
 हंसकेसं होइहो ॥ अथगुरुकचेल ॥ धेलसभघोईहो ॥ ४ ॥ वि-
 ष्यामजमजार्यूसटेघाईहो ॥ बाहरकिसाश्चचार ॥ बूहीपडि
 ताईहो ॥ ५ ॥ खगमीनीकाध्याननहीनरधरियेहो ॥ भीसाग्र
 मैश्वान ॥ वीहरक्यू परियेहो ॥ ६ ॥ पारसपवकीपरस ॥ सर-
 तठहरावोहो ॥ नैरतनिरंतरलाय ॥ श्वगमपुस्जावोहो ॥
 ७ ॥ जहाजिसमिलजिलमिलहोय ॥ अजबधिलषानाहो ॥ ज-
 नकहमादासगरीवसदेसादिवानहो ॥ ८ ॥ १४ ॥ रत्नागस्त्य-
 सागर ॥ हसाचात्रे ॥ जहापारसपदमखनत ॥ अमीतेमाच
 रे ॥ १ ॥ रत्नसिंधवेराग्रमुकतेमासंहै ॥ हीरेमोतीमुकतेप्ल
 र्कोपासंहै ॥ २ ॥ कामधिनकलबिद्ध ॥ चित्पामनवीन्हरे ॥ लो
 घनहूलैभ्रजा ॥ अथदुरवीनरे ॥ ३ ॥ हूलैअथकपावा ॥ लोको
 पाचरी ॥ अथदुरवीन ॥ तहापदवाचरी ॥ ४ ॥ वकाहीरादेअ
 सरतहैरानहै ॥ अथजाफराह ॥ अथमुरथानहै ॥ ५ ॥ मान-
 सुरेश्वरप्रवी ॥ हरदमलीजिये ॥ फेरगकसखगग ॥ तहांसिर-
 दीजिये ॥ ६ ॥ पलकींचीरदुरह ॥ निनपटवीचहै ॥ गरीवदास
 गलजारा ॥ प्रमलसीचहै ॥ ७ ॥ अथप्रमावंगलासिधन ॥ य
 गलाधूववन्पासिनोर ॥ जोमैसरजचंदकरोर ॥ टेक ॥ थाव
 गलेकीहादसदहै ॥ मध्यपवनपरवानारामभजेतेजुगच
 गतेरा ॥ मानरहोतविराना ॥ १ ॥ पाचततचीरतीनघननका
 साप्रधकवनाया ॥ यावगसिमिसाहिधेवेह्या ॥ अथगमेदलकाय

२ ॥ रूमरूमताराइनदमकै ॥ कलीकलीदस्वदा ॥ सरजस
 श्रीसर्वत्रसाजै ॥ वांध्यापरमानंदा ॥ ३ ॥ वंगलेमैवैकुंठवनया
 ॥ सप्तपुरीसैलाना ॥ भुवनचतुर्दसलोकविराजै ॥ कारीगिरकु
 रवाना ॥ ४ ॥ यावंगलेमैजापहोतहै ॥ रंकारधुनसेसा ॥ सरनर
 मुनिजनमालाफेरै ॥ ब्रह्माविसनमहेसा ॥ पागनगंद्रपालत
 ध्यानमैतेतीसकोटिविराजै ॥ सुरन्हितंतीवीनासनिये ॥ अ
 हदनादूवाजै ॥ ६ ॥ इलापिंगुलापींधपरीहै ॥ सधमनजूल
 हुलंती ॥ सरतिसनेहीसबदसनतहै ॥ रागहोतनिहतंती ॥
 ७ ॥ पांचपचीसोंमगनभयेहै ॥ दिध्यापरमानंदा ॥ मनचंचल
 न्हिचलमयाहंसा ॥ मिलेपरमसधसिंधा ॥ ८ ॥ नभकीडोरी
 गनसैंबांधौ ॥ तौइहारहनेपावै ॥ दसोंदिसासैंपवनज्कोरे
 कोहेदोसलगावै ॥ ९ ॥ आठोंवधतअलित्योवाजै ॥ हेतास
 वदटकोरा ॥ गरीबदासयोंध्यानलागवै ॥ जैसैंचंदचकोरा
 ॥ १० ॥ बंगलासौईसत्तपरवान ॥ तामैपारब्रह्मकाध्यान ॥
 टेक ॥ सादेतीनकरोरबृच्छहैं ॥ यावंगलेकैपामा ॥ सालेसा
 रसरीरसरोवर ॥ नौलषवागषुलासा ॥ ११ ॥ यावंगलेकैअ
 गैकूवा ॥ उरधसुषीसहंसता ॥ मनवासालीवारेटारै ॥ अ
 दौबधतचलंता ॥ १२ ॥ इलापिंगुलामधसधमना ॥ तापरये
 कसरही ॥ अमीमहारसक्काकपरीहै ॥ पीवतहोपरुसनई ॥ रो
 सनतकियेरासहोतहै ॥ बाजेबजैअपारा ॥ पांचौइद्रीअसुधिर
 होई ॥ घूमैसनमतवारा ॥ १४ ॥ संघोंकमलकलसकीन्यांई ॥

सनभमर भनकरै ॥ कोइलमोरपपीहेबोलै ॥ दादरअधि
 कठुजरै ॥ ५ ॥ वीनातालपषावजबलै ॥ गाबैगद्रफरपी
 ॥ शिवकीतहासमाधिलगीहै ॥ चीन्हपरीबडभागी ॥ ६ ॥ पू
 प्रहलादश्रीरनामकवीरा ॥ नारदसुषदेवव्यासा ॥ गोरधक
 मभियगलताना ॥ दिष्याअजवतमासा ॥ ७ ॥ न्द्रत्याबिसनमह
 सरसेसा ॥ ररकरधुनहोई ॥ गुजवीरजयोहमबदीन्हा ॥ राष
 सबदकूषोई ॥ ८ ॥ मभसरोवस्कुपरबगला ॥ नहहसपरमह
 सधेले ॥ मरीषदसभसागरसेती ॥ हरसतपरबिले ॥ ९ ॥ बग
 नासोईसजनिजसार ॥ जर्मैपारखसकीदीदार ॥ टेक ॥ विल
 अदरदीदरहोतहै ॥ बाहरभीतरसोई ॥ विबैनीधसनानकीजि
 येम्लनमूअसभधोई ॥ १० ॥ बालेश्रमोससुफहारा ॥ छूटेसहसर
 धारा ॥ दिवदिसटीतेदिषतहैरे ॥ सोहरमवारवारा ॥ ११ ॥ गग
 जमुनासधसुसती ॥ पदनघाटफुहारा ॥ कालिंदीवाप्याप्र
 छाती ॥ धनवठभाराहसारा ॥ १२ ॥ इद्रदीनमहोदधबलै ॥ रा
 नागरलहराई ॥ जगन्नाथजगदीशधिरजै ॥ देषोबनूनाभार्ह
 ॥ १३ ॥ हरिद्वारसरिपैडीन्हाये ॥ बदीनाथविलासा ॥ हाराम
 तीदर्सनिनहोई ॥ करसदाधनधासा ॥ १४ ॥ लोहागिरपुस्कर
 पदपरसे ॥ गायपिडप्रधाना ॥ अठसठतीरघोहेतनमहर्षि
 मोछमुकतभयेप्राना ॥ १५ ॥ कासीकाइतीकायोसै ॥ सोहदा
 यन्तामाया ॥ अकलअनुधाअदअनाद ॥ सपतपुरीदर्य
 या ॥ १६ ॥ अतकरपरीअरथकेमार्ही ॥ सरतिनिरतिसेजानी ॥

गरीबदाससाहिबकाबंगला ॥ अजरअमरपरवानी ॥ ८ ॥ ३ ॥ बं-
 गलाधूबबन्याप्रचीनजामेंप्रसकलादुरवीन ॥ टेक ॥ बंगले-
 आगेड्योठीलागी ॥ पलकोंदीचिकबंधा ॥ छानवेंकोटसेघ-
 मालहै ॥ सबदसिंधारजंदा ॥ १ ॥ बंगलेअगोनघसरवरहै ॥
 तेतीसकोटिनपंता ॥ सहंसचहासीमुनींद्रबैठे ॥ सोहंजापजपंता
 ॥ २ ॥ बंगलेआगेवायविहंगम ॥ दोदरभितरीके ॥ ब्रह्मरंधका-
 घाटजहांहै ॥ साधूचढैसदेषै ॥ ३ ॥ बंगलेअगोनटुवानाचै ॥ ता
 हलघेनहींकोई ॥ परेगगनमेंधरतीऊपर ॥ घंडविहंडनहोई
 ॥ ४ ॥ बंगलेभीतररतनअमोली ॥ सेतपीतनहींजरदा ॥ विनहीच
 रनेंचलेचितानंद ॥ चिसम्यूआगेफिरदा ॥ ५ ॥ दिगजुजस्याम-
 अथर्वनचारों ॥ बंगलेसांहविराजें ॥ समसबेदमेंतारीलागी ॥
 अनहदनोवतवाजें ॥ ६ ॥ आसनपदमलगायरत्याहैहाथकम
 डलडंडा ॥ ब्रह्माआदअनादबैठे ॥ चारबेदधुनघंडा ॥ ७ ॥ स
 समबेदमेंसरतिलगावै ॥ सोसरतीमोहअंग ॥ गरीबदास
 बाहरकंधुभरै ॥ घटहीअंदरगंगा ॥ ८ ॥ ४ ॥ बंगलाधूबब-
 न्याहैवेस ॥ यामेंरंकारधुनसेस ॥ टेक ॥ रूमरूममेंनामच
 लतहैअजपातारीलागी ॥ सरतिनिरतिपरअनहदवाजें ॥
 समतेहैअनरागी ॥ १ ॥ मूलचक्रकाघाटबंधकर ॥ सघसनप
 वनअरोधै ॥ प्रथमअदिगनेसमनावै ॥ नाभकमलकूसोधै ॥ २
 र्धकनालकाघाटबिकटहै ॥ जहांप्रेचरीलावै ॥ अमीमहारसअम
 रतपीवै ॥ अजरअमरहोजावै ॥ ३ ॥ दहनैगंगाबासेजमुना ॥

मधुसूतसतीधार ॥ छलटासीनबंदे सरवरमेंयेसाधिलहभारा
 ७४ ॥ हाथनंपेरपिडनहीप्राणा ॥ सनसरवरमेंधेलै ॥ बासब-
 चीनीकानहीलागे ॥ तोकेसैभीरापेलै ॥ ५ ॥ डुरबीनथेनक-
 अनसरी ॥ पवनपिडभरगोला ॥ सरतिनिरतिकीससाल-
 गावें ॥ दर्सेरतकषमोला ॥ ६ ॥ कोटिकोटिदासनदमकाहीं ॥
 गरेजेसिंधसमूचा ॥ सीलवतहेलानीजोगी ॥ मिलेकण्ठकासू-
 चा ॥ ७ ॥ संघोंपदमजिलमिलैजोती ॥ अमपथवेराठा ॥ बरी
 वदाससतगुरकेसारे ॥ उनेरुष्येघटघाटा ॥ ८ ॥ ५ ॥ बगलाअ-
 जबबन्याहेपूब ॥ जोमेपारब्रह्ममहसूब ॥ टिक ॥ श्रीगेनोराफ-
 पात्रनचि ॥ न्नह्यानंदरिफावें ॥ नेजपुजकीसदरनारी ॥ अनह-
 दमालगावें ॥ १ ॥ पीतवरपहरानतासके ॥ सूहेवत्तरसाजे
 ॥ येककन्ठ्योरनोलषगोपी ॥ बगलेमहबिराजे ॥ २ ॥ चंद-
 सरदोयअधरचिरागा ॥ हकमीपीनरपानी ॥ सकलसतथी-
 रसकलसाहिबी ॥ बगलेमाहबिनानी ॥ ३ ॥ पत्नीतत्प्रवासम-
 हेहै ॥ हाजरनाजरताके ॥ त्रिलोकीकारणरसातल ॥ बवाकैडी
 धजलधि ॥ सुभरतनकारतनरामेहे ॥ रामरतनकूजांने ॥ इद्र-
 कवरजकागकीबिष्टा ॥ जोसेउलटातमें ॥ ४ ॥ हीरामोतीन्वा-
 हरजाई ॥ पारसपल्लेनवांधे ॥ सवदसिधचित्यामनसाहिब ॥
 सरनिगण्ठकूसींधे ॥ ६ ॥ चित्यामनपारसपरमेष्ठर ॥ हिरदे-
 माहविराजे ॥ गरीवदासताहीकूसेबे ॥ आकाअप्रयचररा-
 ने ॥ ७ ॥ ५ ॥ बगलाअजबबन्याहेसुन ॥ जोमेकलविरछा

कामधेन टेक ॥ गंगाकोटत्रिवेनीसंजम ॥ कामीगयाप्रयागा
 याबंगलेमेंसाहिबबैठपा ॥ सबदकरैअनरागा ॥ १॥ संघसुरसती
 बहैअगोचरा ॥ गुपनीगोपज्ञाना ॥ बंगलेकेपारसकीपैडी ॥
 पत्मापदनिरवाना ॥ २॥ याबंगलेमेंसेतगुमटहै ॥ तामधअल
 षगसाई ॥ सेतछत्रसिरमुकटबिराजे ॥ द्रस्पानेनैमाही ॥ नि
 रवानीपरवानीपदहै ॥ रूपबरनसैन्यारा ॥ बंगलेसांसैउडेवि
 हंगम ॥ धिलेअधरअधारा ॥ ४॥ अधरअधाराअपारपुरुषहै
 द्विष्टमुष्टनहींआवै ॥ छुछमरूपमरूपनजाके ॥ सेससहस
 मुषगावे ॥ ५॥ उडेबिहंगमअकलतरंगम ॥ जाके मोहनमा
 या ॥ सदगुरभेदीभेचकहतहै ॥ हमदिवद्विष्टलषाया ॥ ६॥
 जोजनसंघपलकमेंपोहचै ॥ बिनहींचरनौधावै ॥ अग्नींडो
 रसरतिसेधैचै ॥ फिरबंगलेमेंआवै ॥ ७॥ सरतिसहंगमसू
 लाविहंगमरपानध्यानमेंऊचा ॥ घटसठसहततसेतीन्यारा
 ॥ कहाघाटबंधकूचा ॥ ८॥ पिंडब्रह्मंडमेंन्याराजोती ॥ बि
 नहींपींधूलै ॥ गरीबदासाधिरकारजनमकूं ॥ जोइसपदकूं
 धूलै ॥ ९॥ १॥ बंगलाधूबबन्याद्रहाल ॥ जोमेंरतनअमोलीला
 ल ॥ टेक ॥ जतकीबुंदमहलमठकीन्ह ॥ नषसषसाजबनाया
 ॥ याबंगलेमेंगैबीधिलै ॥ नाह्वानाजाया ॥ १॥ याबंगलेकेचौ
 सठअंभा ॥ पांचपदरैयलागे ॥ तीनगुननकीगलियांमांहीं ॥
 कोइस्तनेकोइजागे ॥ २॥ कोटिउनचापवनगुंजावै ॥ नौनाडीसेने
 हा ॥ धामबहतरधारानगरो ॥ जोहिलरपासनेहा ॥ ३॥ चौधेप

देसमहरमनाहीं ॥ तीनगुननमेंधोषा ॥ चौथापदचित्पामन
 साहिब ॥ सीदारीकमरोका ॥ ४ ॥ अलसनीदजवाहीजारा
 ॥ कर्मनासनाहोई ॥ सीलसतोषविवेकनचीन्या ॥ जनमग्र
 कारथघोई ॥ आसात्रिसनावनीडुक्तनी ॥ मनमानारीस्ते
 ई ॥ बगलेकेदरबजेवैटी ॥ देषसहेलीदोई ॥ ६ ॥ दूतीदोईद
 लीविचोषले ॥ मोहेसरनरसारे ॥ गान्गद्रफञ्जीरगपानीध्या
 नीवगलेसाहपहारे ॥ ७ ॥ कामक्रोधश्चौरलोभमोहकी ॥ म
 दराप्याईभारी ॥ गरीबदाससतगुरसौदागर ॥ भोषागरसे
 यारी ॥ ८ ॥ ८ ॥ बगलाधूबकीयाबकसीस साहिबपारब्रह्म
 जगदीस ॥ टिक ॥ यावगलेकीचीन्हपरिहे ॥ ध्यानीदसमा
 सा ॥ पेंतयेकनसिहनतमागे ॥ थन्दासनपतदासा ॥ १० ॥ स
 चौरसीवालेछावै ॥ न्यारीन्यारीभाती ॥ साछीभूतसकलस
 गपिले ॥ कीडीकुजरहाथी ॥ ११ ॥ यावगलेकनेलनमोस ॥ स
 पदमऊनकाई ॥ यावगलेकुरापनसके ॥ सेसमहेसरतई ॥
 हरिमोती ॥ ललरनारो ॥ श्रीरलालनकीवाती ॥ यावगलेकू
 छाडचलेंगे ॥ नाकोईसंगनसाथी ॥ १४ ॥ चदसरदोकल्पवि
 रजे ॥ मययेकचबजफुहारा ॥ फलेकेजातीवरयेमोती ॥ ज
 नेनाअद्वारा ॥ १५ ॥ कामधेनश्चौरकलपहृष्टें ॥ येदोबगसेसा
 ई ॥ आवासधननिधपरमपदारथ ॥ अद्वगतप्रलयगसाई ॥
 ६ ॥ यावगलेमेंवाधवसतेंहे ॥ हसलेनगिरासी ॥ पकरेबेध
 मूर्त्चीने ॥ ताहमिनेअवनासी ॥ १७ ॥ पकसावाधकवीरपुर

प्रकृजडियातोंकजजीरं॥जाकाबंगलाअजरअमरहे॥धन
 पीरनशिरपीरं॥७॥संघकलपजगप्रलोजांहीं॥बंगलाडिगैन
 डेलै॥गरीबदाससतगुरकाबंगला॥नाकुछतोलनमेलै॥
 ६॥६॥कायाषेजलेरे॥तोमेंरहतापुरषअलेष॥द्विबचारु
 काखांगछाडदे॥क्यादिषलादेभेस॥टिक॥मुकताहलकी
 पीठलागीहै॥चौपडकेबेजार॥ब्रह्मसहरेवरमपुरचलिये॥
 अबातनगरअपार॥१॥असटकमलदलभीजनलागे॥ब
 रषतअंमरतनीर॥सोहंहंसाकियापियांना॥सानसरोवरतीर
 २॥बिनबादलबिनबिजलीचमकै॥बूहेंसंनफुहार॥संघक-
 लाफलकंताजोती॥गरानमंडलगुलजार॥३॥इसकायमेंनी
 जरुते॥अॅडेदरियाकूप॥सीसीसंघफिरैसरपीबै॥प्याले-
 अजबअनूप॥४॥इसकायामेंराममंडलहै॥बजैअनहदतूर
 ॥सोहंहंसासिंधमिलेहै॥जिलामिलनूरजहूर॥५॥तालवर
 दंगपधाकजबजै॥तुरहीनूरअनंत॥सबदअतीतपरमपद
 पाया॥चीन्हानिरखनतंत॥६॥इसकायामेंघाटपटनहै॥
 मलमूत्रसभधोई॥आपामेटभेटसाहिवकूं॥बहरनआवन
 होई॥७॥सीधिसनेकहोकाहोई॥मनपवनानहैनिस
 ॥अॅघटघाटवाटहैबंकी॥दुरलभदेसबदेस॥८॥रपाक
 ध्यानजिसधामनपैहचै॥साधीसबदसरीर॥संनअसुंन-
 परमसंनचीन्हो॥अॅडीमजलकबीर॥९॥सपनसंनपरसं
 घाजालर॥अॅछरधामकीडोर॥संक्रतारकीवीनचीन्हकर

हिनागारतगोर ॥ १० ॥ पचतततीन्पुंशुननासी ॥ धरध्वरम
 हीधील ॥ चंद्रसरनहींपावकपानी ॥ बंकीनगरीपील ॥ ११ ॥
 मेटोषेजवोऊसभहारी ॥ मिलहोनिरगुनतान ॥ द्यसगरी-
 बप्रमरगाभीन्या ॥ चीन्हापदनिरवान ॥ १२ ॥ १० ॥ अथ
 रामकलीलीघते ॥ रामसुमररामसुमररामसुमररामसाभ्या
 मजानप्रपानध्यान ॥ छाडोकुलबसा ॥ टिक ॥ कोटकमभल
 जारपारतेहठगारे ॥ सुकजलोकपायमोषनामजोउचरि ॥ १
 सरतिसिंधकोटकचंद ॥ गुलकेफलमाही ॥ पद बिवानेहेसमा
 नश्चादश्चननाही ॥ २ ॥ निराकरस्यधरधारवारपास्नाही ॥
 ध्यापकमहभूबधुवा ॥ धूपहेनछही ॥ ३ ॥ सघदूरवरजहूर ॥
 किलमिलकिलरगा ॥ धुरेनादसघसाध ॥ चस्नकोट्यागा ॥
 ४ ॥ अरसकुरसदूरदरसेनापुजदिघ्या ॥ कोटधानसाचमान
 कसकसपेध्या ॥ ५ ॥ अंमरजरकप्रमीपार ॥ पुरदनीबुस्याही
 ॥ प्यास्मसतकपाष ॥ सालनसिस्ताली ॥ ६ ॥ नादविदघट
 अकर ॥ देहगारेहनाही ॥ निरमलनिरधुवध्वेन ॥ दिघतहीहो
 तेंचन ॥ पलकनेकेसही ॥ ७ ॥ अदमूलरतनपूला ॥ सेतपद-
 सुभाना ॥ गरीबदासुजहाबाध ॥ दरसेमिदीबाना ॥ ८ ॥ १ ॥ राम
 सुमररामसुमररामसुमरलेई ॥ सतपुरउपदेसदीन्ह ॥ भा-
 तबीजबोई ॥ टिक ॥ कप्तकोधलोभमोह ॥ सत्रुहेतुसारे ॥ ह
 रघसोगारागदोष ॥ पकरकूनसारे ॥ १ ॥ तीनचीन्हपाचमा
 र ॥ पकरोमठधारी ॥ पुत्रतोपचीसता ॥ सेनहिअपारी ॥ २

पांचनारघटमंजार ॥ मनकीपटरानी ॥ द्वादसदलकोटक
 टक ॥ सैनोहैविरानी ॥ ३ ॥ साहूकारपकस्तीन ॥ लूटेगढ
 चौरा ॥ अ्यातमतोअनाथ ॥ सु नोरामवापमोरा ॥ ४ ॥ मनके
 सभराजपाट ॥ तीनलोकमाही ॥ अ्यातमतोअनाथजीब ॥ सु
 नेहोगसाई ॥ ५ ॥ फंधकाटकरोसाट ॥ मोजमिहरबाना ॥
 अरजतोकबूलहोय ॥ साहिबरहमाना ॥ ६ ॥ साहिबद्रबा
 रबीच ॥ कूकै बंदिजादा ॥ महजरकयूनसनोराम ॥ पूछहो
 फिलादा ॥ ७ ॥ समरअजगदीसईस ॥ सरनप्रायातोही ॥ ठ
 द्वादबारतौरै ॥ सनोरामदोही ॥ ८ ॥ अरथधरसकाममोछ ॥
 सरनसभकजा ॥ गरीबदाससरनप्राया ॥ बापरामराजा ॥
 ९ ॥ १० ॥ रामसमररामसमररामसमरबौरै ॥ हरदमतोअजपा
 जाप ॥ साहिबकुंभजोरै ॥ टिक ॥ इंद्रीघटपांचभूत ॥ दूतहैदि
 बनिपचीसप्रकृतलार ॥ जानेतीनजाने ॥ ११ ॥ कामसहरकरो
 धकहर ॥ लोभलहसऊठै ॥ मोहकेतोपरेफंधा ॥ कैसेकरदुटे
 ॥ १२ ॥ सैनादलअपारयार ॥ येतीठुकराई ॥ कैसेकरपखाजा
 य ॥ गढसरंगलाईई ॥ १३ ॥ अगडीहठबांनबांका ॥ जोध्या
 मनराजा ॥ कोटनोनिसानधुरै ॥ बाजैअर्नतबाजा ॥ १४ ॥ सिनाद
 लअपारसैजे ॥ संपलहरलहरी ॥ असियासनराजकरै ॥ मर
 दहैनमिहरी ॥ १५ ॥ सरगअौरपनालमिसन ॥ तिहंलोकलूटे
 ॥ तनगरकेसरनैअथि ॥ सोईजानबूटे ॥ १६ ॥ कायागढनाही
 नेरा ॥ देहसाचमानी ॥ भाडेकीडकानयार ॥ सोतोहैविरान

मी ॥ ७ ॥ दूनेतीनेनाहकीनेह ॥ हाटबीचटोटा ॥ पकरैगेजम
 न्हट्ट ॥ तिरोलगोटा ॥ ८ ॥ होयगावेउनहस ॥ देहजास्ती
 मी ॥ गरीबदासकहाबास ॥ पद्यवेजमीनी ॥ ९ ॥ ३ ॥ रामसम
 ररामसमररामसमरबीना ॥ नाहिकछूघाटवाट ॥ माररा
 प्रतिजीना ॥ टिक ॥ धुकूजोधरे ध्यान ॥ दूटगयेमलीना ॥
 गायपहलदराम ॥ श्वकलपदश्रीकीना ॥ ११ ॥ रंकारकरउ
 चार ॥ गजग्राहचीन्हा ॥ गीधव्याधगनका ॥ घोरभील
 नीकुलीना ॥ २ ॥ सितजायबाधाजहायोहीनामलीना ॥
 सिनादलपारद्वर ॥ राखनछ्योकीना ॥ बावनवलिरायस
 ले ॥ तीमपेडकीना ॥ त्रिलोकीसभमापलीन्ही ॥ आधापग
 पीना ॥ ४ ॥ दरोपतीकूवनीभीर ॥ दूसासनहीना ॥ खेसीली
 लाश्वपारुचनतवीरकीन्हा ॥ ५ ॥ तुलाधारजगदपार ॥
 नामदेवसहीना ॥ पलराजहानाहउठ्यासकलपसभकीन्हा
 ६ ॥ बालदउत्तरीश्वपार ॥ जगदानदीना ॥ कासीकवीरपुरषा
 तीनलोकाचीन्हा ॥ ७ ॥ कूवैलटकेफरीद ॥ सीमसाफकीन्हा ॥
 दिषोमनसंस्क ॥ जोसीसकाटदीन्हा ॥ ८ ॥ धेसाखेहनामगाय
 ॥ हसकजेलगोवे ॥ पीपादरयाकूद ॥ उलटवीहरसुवि ॥ ९ ॥
 गरीबादाससाहिबकू ॥ तनमनसभशरीपे ॥ बुरूजाहानजान
 पाहनजसथरीपे ॥ १० ॥ ११ ॥ रामसमररामसमररामसमर
 मीता ॥ सुतगरनहींपानध्यान ॥ मूर्त्तिहिसलीता ॥ टिक ॥
 हाज्जामसकलगाम ॥ गंदहेधलीता ॥ पाषतोषिमरदीन ॥

विरहनाजरीता ॥१॥ दसकासुमारकीन ॥ नासकपूनलीता
 ॥ इलापिंगुलाविचार ॥ सुघमनापलीता ॥२॥ सीलशोर-
 संतोषशान ॥ दयाधरसकीता ॥ कामक्रोधलोभसोह ॥ स
 नूकपूनहीजीत्या ॥३॥ साहिबदिलसैंविसार ॥ कौंनजुलस-
 कीता ॥ दुनियागुपतारयार ॥ छुडदेअनीता ॥४॥ नाहीश्री
 हस्यासोत ॥ लालहेनपीता ॥ अबैनहीपारष ॥ पटोकोटगपा
 नगीता ॥५॥ पिंडप्रानअरपदीन ॥ सतगुरोंसरीता ॥ गरीब
 दासपोबेयी ॥ ब्रह्मपदअतीता ॥६॥ रामसमर रामसमर रा
 मसमरलैरे ॥ जमशोरजहानजीत ॥ तीनलोकजैरे ॥ टेक ॥ इ
 द्रीअदालतचोर ॥ पाकरोमनअहरे ॥ अनहदटकोरधोर ॥
 सनैकपूनबहरे ॥१॥ सरतीनिरतीनादविंद ॥ मनपवनगह
 रे ॥ उनमनीअलीलरूप ॥ निराकारलहरे ॥३॥ धुनकध्यानसा
 रवान ॥ दुअनसैंफहरे ॥ दीषतकेसीतकोट ॥ भरसबरजदहरे
 ॥३॥ साचैसैंपीतकीन ॥ अठामनसहरे ॥ कहतेहैगरीबदास
 कुदलवचनसहरे ॥४॥६॥ रामसमर रामसमर रामसमरहीरा
 ॥ सुसक्लैसैंप्रसानहो ॥ मेटैदुषपीरा ॥ टेक ॥ चेतअंधकटैफं
 ध ॥ जमकेजजीरा ॥ भोजैजमदूतभूत ॥ तलबीतागीरा ॥१
 काजीपंडितमुकीद ॥ दहूदीनपीरा ॥ घातेहैसरगऊ ॥ कर
 नेततवीरा ॥२॥ अदलीदरबारयार ॥ काटैनकसीरा ॥ दमदम
 लेषानिसाफ ॥ छानेनीरषीरा ॥३॥ जातेहैदोजगराह ॥ प
 रायावहोरा ॥ कहतेहैभिसतदेषी ॥ चौबघरहदीरा ॥४॥

पीवतेहेंसाधसता। अमरतरसधीरा ॥ छान्नभोजनप्रपार
 क्षतरसंगचीरा ॥ ५ ॥ वजेबजेप्रपार, जमिडफमजी
 रा ॥ सरलीधुनसघटेर ॥ गहरपद्मगीरा ॥ ६ ॥ सीसकाट
 करोसाट ॥ पकरैमनधीरा ॥ गरीबदासजहाबासानामदेक
 वीरा ॥ ७ ॥ अथरागप्रसावरीलिघत ॥ मनतूचखरेसुषके
 सागर ॥ जहामुबदसिंधजनागर ॥ टेक ॥ कोटजनमजुगभरम
 तहैमये ॥ कबूनहाथलपारे ॥ कूकरसूकरधरभयार्थिरे ॥
 कउवाहसबुगारे ॥ १ ॥ कोटजनमजुगाराजाकीन्त्या ॥ मिटी
 नमनकीच्यासा ॥ भिन्नकहोयकरदरदरहाट्या ॥ मिल्यान
 निखावरासा ॥ २ ॥ ईंद्रकुमेरईसकीपदर्ई ॥ प्रह्लाबनधरम-
 राया ॥ पिसननाथकेहरकूपीहच्या ॥ विहरअष्टाश्राया ॥
 ३ ॥ संषजनमजुगमरित्तौयगये ॥ जीवतकूनमरेरे ॥ ह
 दसमथमहलसववेरि ॥ वीहरनदेहधरेरे ॥ ४ ॥ रोमक
 भिसतसभैतेदेधै ॥ राजमाठकेरसिया ॥ त्रिलोकीक्षिति
 पतनाही ॥ यौहमनभोगीप्रसियुगया ॥ सतगुरमिलीतीश्र
 ह्याभैते ॥ पदमिल्लपदेहसमाना ॥ चखहंसाठपदेसपहा
 ऊ ॥ जहासादअमरअस्थाना ॥ अच्यरसुकतजहाथपी
 करहे ॥ माय्यहोयरहीबाषी ॥ दासागरीबअभैपदप्रसे ॥
 मिसैरामअबनासी ॥ ७ ॥ १ ॥ मनतूसुषकेसागखसरे ॥ श्रीरन
 श्रीसाजसेपटेक ॥ सरवसूनेकीलकाहोती ॥ रावनसेरन
 धीर ॥ एकपलकमेंराजविराजी ॥ जमकेपरैमजीर ॥ १ ॥

उदैअसतविचचकरचलैथे॥असिजन टुकराई॥चरणकरी
 धीस्वरकल्पकरी॥जहांषोजनपायाराई॥ २ ॥जुरजोधनसे-
 राजाहोते॥संगइकोतरभाई॥गपारापूहनसंगचलैथी॥दे
 हीगीधनषाई॥३॥सातहजारसघटकेहोते॥कपलमुनीस्वर
 षाये॥येकैपुत्रउतानपातकै॥प्रमात्मपदपाये॥रामनाम
 प्रह्लादपढैथे॥हिरनाकसनहींभाये॥नरसिंधरूपधरेना-
 रायण॥षंभपारकरआये॥४॥नामदेनामनिरंजनराते॥
 जाकीछानछिवाई॥येकपलकमैदेवलफेया॥मिस्तकग-
 जंजिवाई॥५॥कासीपुरीकवीराहोते॥ताहलषोरेभाई ॥ज
 हांकेसोवनरौजाउतस्या॥नौलषबादलआई॥६॥कनक
 जनेऊकंधदिषाया॥भगतकरीरैदासा॥दासगरीबकौन
 गतपावै॥मघहरसुकतविलासा॥७॥२॥मनतंमानसरोवर-
 हाहरे॥इहांनभटकाषाहरे॥तेक॥सूरजमुषीफूलजहांफूलै
 संषपदमउजियारा॥गंगाजमनामघसरस्वतीतिरबैनीकी
 धारा॥१॥जहांकमोदनचंद्रगताहै॥कमलकअलमधतरा
 अनहदनादअजबधुनहोहीं॥जानैसतगुरपूरा॥ २॥औघ-
 टघाटविषमहैदरिया॥न्हवैसंतसुजाना॥मोछसुकतकी
 प्रबिलैरे॥साषीहैसिसभाना॥३॥जहांउहांहंसकतहलक
 रहै॥सोतीसुकताबाहीं॥ऐसादेसहमेसहसारे॥असृतभो
 जनभाहीं॥४॥संघोलहरसिहरकीउपजै॥कहरनहींजहां
 कोई॥दासगरीबअचलअबनासी॥सुषकासागरसोई॥

५॥३॥सतोअमीमहारसमीचा॥तातेसतगुरसबवेदीठा॥
 टेक॥फूलचवैनिसबासरश्वै॥गगजमनमधभाटी॥है
 जोईमधवामधकूपीवै॥उतसैश्रीघटघाटी॥१॥सिवब्रह्मा
 दिकभोरसनकाविक॥नारदमुनिसेमधुवासेससदसमु
 षपीवतछाके॥ग्यानध्यानभयेरधुवा॥२॥धूप्रह्लादपिया
 ठापीया॥अमरभयेतिसवारी॥आठपहरमधुवामधछके
 ॥उतमनदीषमारी॥३॥गोरषदतदिगवरपीया॥नाथज
 लधरनीका॥जोपीवैसोईअबनासी॥तारनहैपदजीका॥
 ४॥स्रुतानीकूप्याठापीया॥गोपीचदभरथीसरतनिस्त
 काचपूरुगाया॥चलीगगनकूकतरी॥५॥जोचाषैसोई
 सिस्वैवै॥तनमनसीसचढावै॥जोमनसरभयामतवारा
 ॥असाप्यालाप्यावै॥६॥जोबाजीदफरीदापीया॥नामदेओ
 रकवीरा॥पीयाश्रौरैदासपासहै॥अबचरुमतकेधीरा
 ७॥गौरजऔरस्रुषदेकूपीया॥सिवकूसिधठषाया॥दास
 गरीबअमरअबनासी॥बोहरनभीजरुआया॥८॥५॥बावा
 विकूपथरेजोगी॥तातेछाडसकलरसभोगी॥टेक॥प्रिय
 मसिधगनेसमनावो॥मूठकमलकीसुद्रा॥किलिगजाप
 जपोहरिहीरामीदैकर्मसमसुद्रा॥१॥कूरुभवायपरसेसवम्य
 हैतासहोतउदगार॥दोकूजीतजनमजुगजोगी॥अबगतपेर
 श्रपारा॥२॥नामकमठमैनादसमोषो॥नागननिद्रामारोदो
 फूनसा रसपनीजीतो॥उरपैनामविचारो॥३॥हरदेकम

रुसुरतकासंजम॥निरतकलानिरस्वासा॥सोहंसिंधसैलप
 दकीजै॥असैचढोअकासा॥१४॥कंठकमलसैहरहरबोरै॥
 षोडसकलाउगानी॥यौह तोमधमासासतशुरका॥पंधदूरु
 ब्रह्मग्यानी॥जिहुटीमधेसुरतद्रवै॥दोदलद्रपनजाही॥कोरि
 जतनकरदेष्वाभाई॥वाहरभीतरनाही॥६॥वाहतोसिंधदो
 जसैन्यारी॥कहोकहांठहराये॥सुनवैसुनमितैनहींभौरा॥
 कहांरहतधरपाईये॥७॥अनहदनादबजावोजोबी॥बिनाच
 रनचरुनगरी॥कायाकासीछाडचलोगे॥जायबसोमदसध
 री॥८॥धरतीधूतअकारनापाऊं॥मेरडंडपरमेला॥गगनमंडल
 मैआसनकरहं॥तौसतशुरकाचेला॥९॥तिरुप्रवानब्रह्मद्र
 वाजा॥तिसघाटीहेजाऊं॥चीटीकेपगहसतीबाधीं॥अधर-
 धारठहराऊं॥१०॥दषनदेषमैदीपकजोऊं॥उत्रधरोंधिपाना
 ॥पछमदेसमैदेवलहमरा॥पूरबपंथपियाना॥११॥पिंडब्र-
 हंडदोऊंसैन्यारा॥अगमग्यानगौहराऊं॥दासगरीबअगम
 गतप्रापहैसिंधेसिंधमिलाऊं॥१२॥१५॥संतोमानोमोरसंदे
 सा॥तातेबौहरनरहैअंदेसा॥टेक॥अधरगंगयेकअधरस
 रोवर॥अधरपौहपगुलजाश॥सरजमुषीसिंधसुरसोभ्या॥अ
 सादेसहमारा॥१॥षटकूनचक्रकूची-हप्यारे॥अकसअर
 सअनाद॥तुरहीरूपबंकडासाहिब॥लीलाअगमअगाधं
 ॥२॥हंसमोरकैमधचंद्रहै॥करुंगीकोरबिराजै॥जाकैऊपर
 अरसंमटहै॥तीनकरुजहांसाजै॥३॥परानंवनीकामधैन

नहै॥गोमुषगगकहावै॥कठपरूपसाहिवश्रवगी॥मनब-
 छयतफठपावै॥४॥सुनसहलहीधजाफरकै॥ध्यानपरैको
 रबीना॥अठठपषण्णुकरैपीयाना॥षोजनणवैमीना॥त्रिकुटी-
 कमलपरसेतगुमट्टहै॥जामधभवरविरजै॥दासगरीबकहै
 रेसतो॥सबदभनाहदबाजै॥६॥६॥सतोनिजपत्अधर-
 बिद्याना॥जासूरतपरकरनाना॥टेक॥सेतछत्रसिरमुकट
 मनोहर॥बन्यासुकेसीचीरा॥सषधक्रगदापदमविराजै॥दास
 नदभकैहीरा॥१॥जरीबाबजिलमिलजिलकंता॥पीतंबरप्र
 कषा॥हाजरनाजरदेषभरसमैअबगतचौरषवासा॥२॥
 कछमछकूरभथोठसे॥सेसुपारनहींपाई॥बिनादसतजहा
 चौरहोतैहैहमदेध्यारेभाई॥३॥सतरषानबहतरवभरे॥सि
 ब्रह्मासेरागी॥नारवनामकवीरागावै॥सुरतसबदमैरा
 गी॥४॥रायबिहगभगनहींहोई॥बध्यारहेतसमीर॥दासग
 रीबबजरपटधूल्लहै॥सतगुरमिलेकबीर॥५॥७॥रमत्त
 रामजपोरेप्रानी॥अबत्सुनरेरामकहानी॥टेक॥कछ
 मछकूरभनहोते॥पीठपस्ननहींध्यानीचदसूरदोदीपक
 नाहीं॥नाथेपौननपानी॥१॥ब्रह्माविसनमहेसनहोते॥नही
 रुछमीगौरजरानी॥सावतरीनाहिसनकादिक॥होतेअरु
 १बिनानी॥२॥सेससहसमुषनिसदिनगाविररंकारनिजब-
 नी॥रामनामकासिकाभेटै॥इवैगेअभमानी॥३॥सुरते
 तिनोसहसअवासी॥औरचौरसीसिधा॥घारषानकेजी

वउपाये ॥ आदपुरषकी अद्या ॥ ५ ॥ आदरामसोई अंतराम-
 है ॥ मधरामहै सोई ॥ पूरनद्रहसकलघटव्यापक ॥ आगापी-
 छनकोई ॥ ५ ॥ जनकवदेहीराजाहोते ॥ जमरायकीबंधतोरी
 ॥ रामनामप्रह्लादउपरगये ॥ फूकफाकदेईहोरी ॥ ६ ॥ राम
 चंद्ररघवंसीहोते ॥ जिनजान्यांजिनजान्यां ॥ दिवरूपसुरगा
 पुरपैचे ॥ अजध्याचढीविवाना ॥ रामकहंतेरामैहोयगये
 ॥ पूछदेषप्रह्लादं ॥ दासगरीबजरेनहींजारे ॥ लागीअजर
 समाधं ॥ ८ ॥ ८ ॥ केसोकिसनकरीमामैला ॥ राजरामरही
 मा ॥ टेक ॥ नरसिंघरूपधर्यानारायन ॥ भगतबाहूरुभी
 मा ॥ हिरनाकुसकेउद्रविदारे ॥ प्रह्लादतिलकजिनदीन्हा
 १ ॥ सायरऊपरसिलातरांनी ॥ सेतबंध्याप्रबीना ॥ राबनमा
 रभीछनथरपे ॥ लंकदईबकसीना ॥ २ ॥ कंसकेसचानोरब
 लसें ॥ सिसपालंसिरभीना ॥ गईपूतनाविषदूधिलाय ॥ जि
 नकेप्रानसुषीना ॥ कुबजांमालनकूबसुधारे ॥ ज्यंगुसटीन
 नगीना ॥ दिवरूपद्रुपनभयीकाया ॥ चूरबदनतनसीना ॥ ३
 रचीसुदामापुरीविसंबर ॥ सूखीयेकतुंदरुदीन्हा ॥ सौजगक
 रकरगयेरिसातरु ॥ बरुराजाआधीना ॥ गजअरगिराहजुटैबल
 वंताशपतपकरेमीना ॥ जिरुमिरुसूपअरतैंउतरे ॥ निरवानी
 नयजीना ॥ ६ ॥ गनकागीधव्याधसेत्यारे ॥ भिलनीजातकु
 हीना ॥ अजामेरुसदनाउधरे ॥ पापकीयेसभषीना ॥ ७ ॥
 द्रोपतासुतकेचीरबढाये ॥ बालनीकजसदीन्हा ॥ दासग

चाटनबाजेपडोंजगसहीना ॥ ५॥ १॥ केसो आपाहैवनजा
 ग ॥ कासीलपायामालअपारा ॥ टिक ॥ नेलघवोडीभरी
 विसभर ॥ दीयाकवीरभडारा ॥ धरनीऊपरनवूनाने ॥ चौप
 उकेवैजारा ॥ १॥ कौनदेसनेवादलअर्दा ॥ नाकहीवध्यानिवा
 रा ॥ अपरमपारपर राततेरी ॥ किंतउतरीजलधारा ॥ २॥ साहु
 कारनहीकोईजाके ॥ कासीनगरमफारा ॥ दसगरीवकल्पसे
 उतरे ॥ अपापअलघकनारा ॥ १०॥ विसामिलकिनेसेअर्दाक
 नीधिसमिलकिनेसेअर्दा ॥ तोतेबेलोरामघुदाई ॥ टिक ॥ ठहा
 तेनोहृष्टुहारनहीरे ॥ करदघडीकिन्हिभाई ॥ अहरननाहीह
 थीडानाहीं ॥ विनअरनकहाताई ॥ १॥ जाममटीकादूध पीवत
 होदहीभृतेवैहृभाई ॥ जाकूफेरहलालकरतहे ॥ निकरऊदक
 साई ॥ २॥ गोसतमाटीचामउधेसा ॥ रुहकहापीहचाई ॥ उस
 द्रगहीकीभवरनहीहे ॥ कौनहूकमसेढाही ॥ ३॥ हकहककर
 मुलावेलै ॥ महजदबगामनाई ॥ मोसारेजेपूनकृतहोघोजन
 पायाराई ॥ ४॥ अरराऊकीयेकेमाटी ॥ प्रातसरुहइलाही
 दसगरीबयेकअैहसाहबजीनयाहउमतउपाई ॥ ५॥ ११॥
 दिलहीअदरहजर ॥ काजीदिलहीअदरहजर ॥ करलेउ
 ससाहिवेमजरा ॥ टिक ॥ मकामदीनादिलहीअदर ॥ कवे
 कूरवाना ॥ काहेलेटनिवाजकरतहे ॥ प्रेअेतनअसथाना
 ॥ १॥ सतरकबिदेधनूरकेवेल्हकिवारीजाकी ॥ तापरयेकग
 मटहैगोवी ॥ पथडगरियाबाकी ॥ २॥ हकहककरमुलावेलै

॥ काजीपढेकरानां जिनकूं प्रौहादिदारकहं है ॥ काटै गलविरा
 ना ॥ ३ ॥ अरसकुरसमै अलहत धन है ॥ बालकविन नही पाली
 ॥ विपै कंवर पाषपुर धये ॥ साहिबके प्रबदाली ॥ ४ ॥ महमदकूं
 नही गोसतषाय, गऊनबिसमलकी तीये कबेरकट्या मनीं महं
 मद ॥ तापरये तीबीती ॥ ५ ॥ निबीमहं मंदनिमसकारे है ॥ रामर
 तूलकहाया ॥ येकलाघप्रसीकूं सौगंधजिन नही कदचला-
 वा ॥ दीविई महं मदवई महादेव ॥ विई विसनेवै ब्रह्मा ॥ दास-
 गरीवदुसराको है ॥ दिषोअपने धरमा ॥ ७ ॥ १२ ॥ चीन्है अंधर
 अंधारे मनतू पावैंगा अपना कीयारे ॥ टिक ॥ राजारामकी-
 कार उलंगी ॥ सीतालंकमऊरे ॥ सितबंधुप्राजबसैनां ऊतरी ॥
 चढगये पटम अहारे ॥ १ ॥ लंकानोर विलंकानेरी ॥ महाराव
 नसे सारे ॥ दसमसतकरावनकेकोटे ॥ भभीछन राजदीयारे
 ॥ ३ ॥ प्रहलादपैजप्रवान करी है ॥ धरनरसिंध अतारे ॥ दीनद
 यालदयाकर उतरे ॥ हीरनाकसउद्राबेदारे ॥ ३ ॥ हाहाहूहू
 बंदेहेते ॥ तोलनहै बलभारे ॥ गजअौरगिराहबने भौसागर
 ॥ दससहं सअधिकारे ॥ ४ ॥ खासघद्याबलहीन भयाजद ॥
 धैचलिये मऊधारे ॥ अरधनासरसनां सैटै रूया ॥ सुमरनहै
 रंकारे ॥ ५ ॥ नारदमुनित्रिकालीजोगी ॥ निजमनगरभ
 कीयारे ॥ पलमें पूजवत्तरजाये ॥ रोवनकेसउपारे ॥ ६ ॥
 किसनगरुडरवासाहोते ॥ छपनकोटिसिंधारे ॥ अमरी-
 ककेचलेअपूठे ॥ दुरवासासेहारे ॥ ७ ॥ दुरजोधनअोरदू-

सासनकू ॥ द्वापतिर्वास्तुतरे ॥ अथेकूकोपीनदईधी ॥ वध
 गयेश्चनतश्चपारे ॥ ८ ॥ भीषमपीताश्रीरदोनाचारज ॥ क्त
 नेसेबानोमारे ॥ महाभारथमैटटीहरीकेराधि ॥ घटाटुटफ
 ह्यारे ॥ ९ ॥ तितीसूकोटिजगमैग्याये ॥ सहंसुप्रवासीसारे ॥
 हादसकोटबेदकेबकता ॥ सुपचकासधवज्यारे ॥ १० ॥ चम
 एकनकजनेउकक्या ॥ विप्रपडितसभहारी ॥ सुलहेकेधर
 बालदय्याई ॥ किसेसेवनजारे ॥ मीरावार्डकू मारनलारे ॥
 जहस्काप्यालाप्यारे ॥ पीवतहीश्चसृतहोय लागपा ॥ होय
 गयाश्चदहीयारे ॥ ११ ॥ शकसकेसचानोरघपावन ॥ जीतन
 मलप्रधारे ॥ चसगरीवकरैकोश्रबर ॥ हंप्रिससीसहसारे ॥
 १२ ॥ ३ ॥ जोकोईनामानेनामानै ॥ जाकूअजजीलइरानै ॥
 टेक ॥ कैश्चचारविश्वारथसभी ॥ एजतजटपाघानै ॥ पाती
 तीरचढसर्वेश्रधरे ॥ जीवतनीकूभानै ॥ १३ ॥ पिडप्रदानकरैपि
 तरेके ॥ मीरथजगश्रीरदानै ॥ विनाबदगीमोछनहैरि ॥ कू
 लरहेसुरगपानै ॥ १४ ॥ स्रष्टेस्योकातमसुन्याहै ॥ भगतलईधि
 गतानै ॥ सतगुजनकबदेहीभेटे ॥ पदमिलपदेसमानै ॥ १५ ॥
 श्रकथकथाकुछकहीनजार् ॥ देघतनेनसिरानै ॥ अक्लक
 लीवरयामधिहगम ॥ लायलेचोटानिसानै ॥ १६ ॥ पडितबेदक
 हिवैरवानी ॥ फानीपठेकरानै ॥ मरगउकूदेयबतावे ॥ दोन्येटी
 नदवानै ॥ १७ ॥ येकहीमटीयेकहीचमरा ॥ येकहीविलनप्रानै
 पजिभ्यात्वादिमारतहेनरा ॥ समजननहीहिवनिपई ॥ मुरगीबिक

रीककडीषाई॥ कूंकैबंगमुराने॥ जैसाद्रदत्रापनैहोवै ॥ अ-
साद्रदविरनै॥ ७॥ मनमकेकीहजनहीकीही॥ दिलकाबा
नहींजानै॥ कैसीकाजीकजाकतहै॥ षातेहोहिलवानै॥ ५॥
जादिनसाहिवलेषामंगै॥ चौहकयाज्याबदिबानै॥ असाकु
फत्रसनहींआवैकाटैसीसधुरानै॥ ६॥ उसधुरसेतीमहरमना
हीं॥ अनहदनादधुरानै॥ दासगरीबहुनीगईदोजका॥ चावै
गालिगुरानै॥ १०॥ १५॥ औधूपायाअत्रतआरूढं॥ कोटिउणचा
काहैनच्या॥ तनहुदुंमैदुं॥ टेक॥ पोथीथोथीकाहेढंढोले॥ सु
नरेपंडितसूढं॥ लंबीजटाअटाक्यूंवांधै॥ काहेसुंडावैसूढं॥ १॥
जरुपाषानतिरुपानहीकोई॥ सवासिंभरुडुं॥ ओहनवहीरा
प्रथानाहीं॥ क्यूंषोजतहोजुं॥ २॥ जरुमिरगत्रिसनासिसट
भरुंनी॥ भरुह्रहाजगभूडंनामअभैपदनिहचैनियजै॥ बीज-
परेज्यूषूढं॥ ३॥ विनअकाअपारपुरषहै॥ बारुबिधनहींबू
ढं॥ दासगरीबअचलअबनासी॥ अबगतमंत्ररूढं॥ ४॥ १५॥ से
तोमनकीसालाफेरो॥ यौहमनबाहरजाताहेरो॥ एक॥ तीनलो
कऔरभवनचन्द्रसयेकपलकफिरआवै॥ विनहींपंषोउडै
पषेरू॥ याकाषोजनपवै॥ १॥ ततकीतसबीसुरतसुमरनी
डिठकैधगिपोई॥ हरदमनामनिरंजनसाहिव॥ यौहसुमर-
नकरलोई॥ २॥ किलियंउहरियंसिरियं॥ सोहंसुरतरुगावै-
पंचनामगायत्रीगैवी॥ आत्मततजगावा॥ रंकारउचार
अनाहद॥ रूसरूसतरुं॥ करकीसालाकौनकामजब-

५॥ भातमरामश्रववाले ॥ ५॥ सुरगपतारुसिद्धमैडोडे ॥ सर्व
 कसेलानी ॥ योहसनैभैरोभूतबिताल ॥ योहसनैष्वरुष
 विनानी ॥ ५॥ योहसनब्रह्माविसनमहेस ॥ इद्रवनकुमेर
 नहीपरसुरायहैभाई ॥ सकलवृत्तजमजेर ॥ ६॥ मनहीसक
 सनववाला ॥ गौरुजभौरगसेसा ॥ मनहीकलमकूरभाधो
 कपरभौरसेसा ॥ ७॥ मनहीगोरुषदतदिगवर ॥ नारदक
 षदेयासा ॥ मनहीबलुवावनहोयभाया ॥ मनकाअजक
 तमासा ॥ ८॥ मनहीधूपहल्यदभभीछन ॥ मनकासकल्य
 सारा ॥ मनहीहरहीरहिरनाकुसा ॥ मननिरसिषुभीतार ॥ मन
 सुगरीबवालमनभंसद ॥ रावनरामरंगीला ॥ मनहीनीभीतास्
 परतहै ॥ मनकीभववतलीला ॥ ९॥ मनहीठक्षमराहृदमान
 है ॥ मनहीचेरीसीता ॥ मनहीघारुयोवेदविद्यासभमन
 यौतरगीता ॥ १०॥ मनहीपरसरामप्रसोतमछनीकीयेनिह
 छनी ॥ मनहीकपलदेवदेहूवी ॥ मनहीच्यप्यात्र्यत्री ॥ ११॥ मन
 हीचदसूरतारयन ॥ मनहीष्णीपौना ॥ मनहीरुषचौरासी
 डोडे ॥ मनहीकासभयौना ॥ १२॥ मनसेतीसोकोटिदेवता ॥
 मनहीसहस्रच्युत्सी ॥ मनहीथावरजंगमछनी ॥ मनहीसि
 पचीरासी ॥ १३॥ मनहीकीरपतगभुवंगा ॥ मनजूनीअमदी
 से ॥ मनकैऊपरनिजमनसाहिव ॥ ताहिनिवाकसीसे ॥ १४॥
 निजमनसेतीयोहसनहूवा ॥ परश्यायाअनंतसरीर ॥ दास
 गीबच्यभैभवनासीतामिठरहेकबीर ॥ १५॥ १६॥ १६॥ पारकी

न्हेनहीपायेसंतोपारकिन्हेनहींपाये॥जुगछतीसरीतनहींजा
 नी॥ब्रह्माकमलभुलाये॥टेका॥च्यारचंद्रडब्रसंडरचानैकरं-
 भधौलधराये॥केछसंछसेसानारायनसहंससुषीपदगाये॥
 १॥च्यारवेदत्रसतुतिकरतहैं॥ग्यानत्रगमगौहराये॥अक-
 थकथाअछरनिहअंछर॥पुसतकलिष्यानजाये॥२॥सुरत-
 त्रितसेत्रगमत्रगोचर॥मनबुधरहेथकाये॥ग्यानध्यानसैं
 अथकपरेरा॥क्यागाजंरासराये॥३॥नारदसुनिशुनिमहसं-
 ता॥नरसैनारवनाये॥येकपलकप्रपूरनसाहिबपूतबहतस-
 जाये॥४॥ध्रुवप्रह्लादभगतकेषंभा॥हादसकोटिचिताये॥
 जिनकीपैजकरीप्रवाना॥षंभासैंप्रवाटाये॥५॥रावनस्यौं-
 कीभगतकरीहैं॥दसससतकधरधाये॥राजपाटकराये-
 रिसातरु॥जिनकैलासहिलाये॥६॥सिवकीभगतकरीभ
 समागिर॥जिनसिवसंकरताहे॥त्रैसेसोहनरूपसुरारी॥
 गंडहाथनाचनचाये॥७॥बलकूजगअसमेधपुराजी॥बावनहा
 रेत्राये॥तीनलोकत्रियैडकरिजिन॥त्रैसेचरनबढाये॥-
 ८॥पंचभ्रतारीकीपतराषी॥सीताकलंकलगाये॥अनंतर्ची
 रचिंत्यामनकीन्हें॥सोभ्याकहीनजाये॥९॥दुरजोधनकी
 सेवात्यागी॥सागविवरुधरधाये॥पंडोंजगजगदीसजगत
 गुर॥बालनीकथरपाये॥१०॥वाज्यासंषसुरगमैसुनयांअ
 नहदनादबजाये॥स्यौरीकेबेरअधिकमहिमासैं॥रूचरूच
 भोगलगाये॥११॥सदनाजातकसाईउधरे॥पारास्करध्या-

नडीगाये॥ तपियाकातपवूरकियाहै॥ लोहदियाकैगराबधाये
 ॥१३॥ नरसीठाकीहूबीजाठी॥ सावरुसाहकहाये॥ नामदेव
 कीछानछिवाई॥ देवछेत्तदिषाये॥ १३ पातसाहकूपचाठीहा
 ॥ वछागकजिवाये॥ दामनगीरपीरतुम्हआगै॥ महलोभ
 गनरगावै॥ १४॥ अरगतकीगतकोईनजानै॥ केसोनामध
 राये॥ नौठषवोढीकासीआई॥ दासकवीरवद्यये॥ १५॥
 अतिसारचलेसाधूके॥ फिरसिकठातउदाये॥ पीपाप्रवेश
 दिवभेठेघदोवादीयाजुजाये॥ १६॥ भवनगमनसुनमैकीदा
 योरेदागदगाये॥ दासगरीवच्यगमअनरागी॥ पदमिठपदेस
 माये॥ १७॥ १७॥ सतोचीन्हूपरीचितनाद॥ जापरविद्यानवा
 दाटेक॥ अरुरूपकामारगपाया॥ अरुटाठरुवाअगार्थ-॥
 सहासतशुरप्रकासप्रमशुरभेटभईनहीसाथं॥ चितमन
 दिठदईयाजुस्वीन॥ द्रस्यानादअनाद॥ मोछसुकतमद्र
 महबुवं॥ कीहाहसभचद॥ २०॥ ठोहायेडीमिसरीघडिये॥ सानि
 धरियोहठाद॥ मारयामरेनजस्त्यानरहै॥ अमरभयेप्रह्ला
 द॥ १॥ पभवांपजवमचामाग्या॥ कोप्यादूतजठाद॥
 साधसनाठनकोटपापहै॥ अवनगिनहित्यापराध॥ ४॥ दुरबासा
 कीकन्नपकानसें॥ प्रलोहोयगयेजाद॥ पित्रपिरोहतकेसे
 धरे॥ पायेमारुसरापे॥ ५॥ पीनकानादबस्यानवनानौच
 रपात्रपेभाद॥ दासगरीचपरमपदपूरन॥ अरगतनामभरा
 ५॥ १॥ १८॥ सतोषक्रुदहेहरवासा॥ तेसेबीजठकासा॥

टेक ॥ अमरीककैहारेआये ॥ कीयाग्यानप्रकासा ॥ चक्रसु-
 दरसनचोटचलाई ॥ भईरिषनकुंतरासा ॥ १ ॥ तीनलोकसैवि-
 चरतडोलै ॥ मित्यानमनकासंसा ॥ असैरिषदिलबेदनिला
 गी ॥ ज्यंजरुदाहफिवासा ॥ २ ॥ कालसरूपकलंद्रदेवा ॥ छप-
 नकोटिकीयेनासा ॥ जादोबंसअंसनहीराख्या ॥ ज्यंजरु-
 बीचपतासा ॥ ३ ॥ अमीरकराजारजधानी ॥ घोरेवरतउपासा
 जापरचक्रकोटनहींचाली ॥ पदमैरीयानिवासा ॥ ४ ॥ पूरन
 ब्रह्मकहचरीयौहचे ॥ सन्यादिगैबिजरासा ॥ मत्तिकेहीनदीन
 होयचालै ॥ तुसरिषमानपियासा ॥ ५ ॥ तेतीसकोटिजहां
 रिषबैठै ॥ सहंसअठासीहासा ॥ अमरीककैहारेजावो ॥ क-
 रबंधनकरिदासा ॥ ७ ॥ अनंतकोटिजुराध्यानद्रसकर ॥ छ-
 हरूतवाराहमासा ॥ दासगरीबकिसनयौभाच्या ॥ निजसुमर
 नकरस्वासा ॥ ७ ॥ १ ॥ औधूलेतनमनकालाहा ॥ चीहोंग्या
 नअगाहा ॥ टेक ॥ कासीगहनबहनभयेप्रानी ॥ प्रियागहातहै
 माहा ॥ बिनानामज्जनीनहींछूटै ॥ भरमेभूलभुलाहा ॥ १ ॥ सहै
 संसुषीगंगानहीन्हाते ॥ षोदेऊजडवहा ॥ नारदव्यासपूछ-
 स्रषदेकूं ॥ च्यास्योबेदउगाहा ॥ २ ॥ पंथपुरातमषोजहीया-
 है ॥ चालेअबगतराहा ॥ स्रषदेग्यानसुन्यांसंकरका ॥ मिटी-
 नमनकीदाहा ॥ ३ ॥ दोतपियासुरातपकुंलारो ॥ बंदेहूहहाहा
 ॥ रुग्यासरापपरेभौसागर ॥ कीहेगजऔरगराहा ॥ ४ ॥ स्यौ
 संकरकैतिलककियाहै ॥ नारदसोध्यासाहा ॥ ब्रह्मादि-

कूचैरीरधिपा॥ कीपागौरकाव्याहा॥ ५॥ येकसौ आठगये
 तनप्रठों ॥ बीहरकीयानिस्वाहा॥ स्यौकैसगगौरजाठपरी
 मिटगयाकारुसुहारा॥ ६॥ ज्युअपाकीपूठपकरकरअदर
 उठटपाजाहा ॥ धीरकबीरसिंधसुषसागर ॥ पदमिठगया
 मृत्यहा ॥ ७॥ इमरुस्थानध्याननहींबूझ्या ॥ समजनपरी
 अगाहा ॥ दासगरीवपारकैसैंगतैरेभेटपानहींमठाहा ॥ ८॥
 अथरागबलावठठिषते ॥ रबरजकदसहरसी ॥ क्रतारबि
 नानी ॥ अवरगतअलपचलाहत् ॥ कादरप्रवानी ॥ टेकपषाठ
 कमालक मिहरवान ॥ सरबगीस्वामीहिचलअचलमगाध
 धू ॥ निरनुनहिकामी ॥ ९॥ रामरहीमकरीमत ॥ कुदरतसेन्या
 रा ॥ पथपौषपन्यूरमरस्या ॥ फुल्पाशुलजारा ॥ १०॥ पूरनचह
 परमशुरू ॥ अकारुअचनासी ॥ सबदभतीतविहंगमा ॥ किस्
 कलदासी ॥ ११॥ अनरामीनिहततकू ॥ तनमनसभभरपू ॥ सी
 सकरौतिसवारनै ॥ धितचदनघरचू ॥ १२॥ अससाहिषमहबूक
 ॥ करहरदमसुजरचितसैबक नविसरौ ॥ विठअद्रिइजरा
 ५॥ पतिरापनतूप्रदपोस ॥ साहिबदिरुदाना ॥ सीरमे
 रेमिहरकर ॥ पेपूपिठघाना ॥ १३॥ नूरनिहारीनजरसै ॥ निनौ
 भरवेपौ ॥ मूरतसूरतसिकलकू ॥ घसम्यौमैपेषी ॥ १४॥ तेजपुंज
 कीसेजहै ॥ मुनमडठसीरा ॥ भदहीतघतघवासहै ॥ जहाभा
 पकबीरा ॥ १५॥ कुभकेऊपरकभहै ॥ थापरपरगगरी ॥ सतविवे
 कीपौइचसी ॥ असअवरगतनगरी ॥ १६॥ अवरगतनगरनिधा-

नहै॥वेगमपुरवासा॥विरहविवोगीविधरहे॥जहांसबदनि
 बासा॥१०॥तनसनमरतककैरहे॥दिलदूईउठामै॥सबदससं
 द्रसिंधमै॥हेअंगमिलवै॥११॥षोजीषोजनपावहीं॥गुरभेद-
 विचारं॥चारवेदचितवनभये॥भूलेभरमअचारं॥१२॥पुरान
 अठारोगमनहीं॥क्यागावैग्यानीं॥मौनीमहलनपामहीं॥वि
 नसतगुरबानी॥१३॥अष्टयोगजानेनहीं॥षटकमलकसीसं॥
 पाचोंसुद्राबारहैं॥पारषजगदीसं॥१४॥बावनअठरनाचटै॥अ
 हविहाबंगी॥दासगरीबपिछानिया॥सोहरदमसंगी॥१५॥१
 मतबाल्योंकेमहलकी॥सोफीक्यापावै॥अरसपुरदनीपीरहै
 सतगुरबतलावै॥टेक॥सुनदरीवैहाटहै॥जहांअमरतचवता॥
 ॥ग्यानीघाटनपावही॥षालीसभकवता॥१॥लंकषिकैनहींमो
 लकूं॥जोतूलैनतोल्याकूंचीसबदरुगायकर॥सतगुरपट
 षोल्ला॥२॥फूलकरैभाटीसरै॥जहांफिरैपियाले॥नूरसह
 लवेगमपुरा॥घूमैमतवाले॥३॥त्रिकुटीसिंधपीछानहे॥गिवैनी-
 धारा॥बेडेबाटविहंगासी॥उतरेभौपारा॥४॥अठसठिती
 रथतालहैं॥उसतरबरमाहीं॥अम्रकंदफलनूरके॥कोईस
 धूषाहीं॥५॥नौसैनदीअचूकहै॥उसमंजुतलाई॥मेरडंड-
 कूंछेदकर॥सतगुरबतलाई॥६॥मानसरोवरकुंजहैं॥ज
 होंहंसाषेहैं॥भौसागरकीवाटतैं॥सतगुरसतबेहैं॥७॥हं
 सामोतीचुगतहैं॥जुगजुगअधारा॥घातनटूटैप्रमथन॥जो
 अछैभडासा॥८॥अमरकछहंसाभये॥मिलसबदत्तमाये-॥१

श्रीघटठपेसाधवा ॥ वैवद्वरनभाये ॥ २१ ॥ स्ररयठगविसंनमै-
 सोसतगरसचा ॥ मुकताहलपदवेरुटी ॥ फरदेवैजचा ॥ १ ॥
 सतगरमिठियाप्योहरी ॥ जिनजन्मस्तथास्यानपद्यकी
 घरजसै ॥ इतरसभसारा ॥ ११ ॥ ब्रह्मविथाकावादला ॥ घटभं
 दरबूत्या ॥ दासगरीबदयाभई ॥ भरुसतगरदुठया ॥ १२ ॥ २
 २ ॥ धित्यामनिकूचैतेरे ॥ मुकताहलपाया ॥ सतगरमिठयानौ
 हरी ॥ मित्तमेववताया ॥ टेक ॥ हीरामनिपारसप्रसरेठधलाठ
 नरेसा ॥ मोतीन्वाहरजोरिया ॥ भीहदुठभवेसा ॥ १ ॥ का-
 मधैनकठबूछहै ॥ इबारइमारे ॥ अठसिपनीनिधआगने
 नितकारजसारे ॥ २ ॥ रागळतीसौरिथसभै ॥ नहारसर्वानी
 ॥ सालतबूरेतरहै ॥ अवगतनिरवानी ॥ ३ ॥ सुनमिबाजैबु
 गडुगी ॥ ब्रवैपदगावै ॥ चरुहंसाठसदेसकून्पूवोहरनआवै
 ॥ नूरमहठसुरुनारहै ॥ निजसबदसमाये ॥ इसावोद्वरन
 आवही ॥ सतलोकसिधाये ॥ ५ ॥ सतगरमजिदलारुहै ॥ जि
 नसौदाकिन्प्या ॥ दासगरीबदयाभई ॥ सतसाहिवचिन्सा
 ॥ ६ ॥ ३ ॥ नूरनगरवेरामपुरा ॥ प्रपटनथानंसतगरसैनरुपा
 ईया ॥ जोपवनिरवान ॥ टेक ॥ कोकलावानीहोतहै ॥ पारष
 हितती ॥ नाकासुनराहोयगा ॥ तनकाढेमती ॥ १ ॥ धनरागि-
 निहततहै ॥ पदपारफहीजै ॥ मेमपिपासापीयकर ॥ कहींभेद
 नदीजै ॥ २ ॥ अनसगीनिहततमै ॥ हेकरतीसमोई ॥ महठ-
 महस्मीजाहिगे ॥ सनआपाषोई ॥ ३ ॥ पिगुरुवैनअवानभ-

है ॥ जहां सरत समाही ॥ निरत निरंतराभिरही ॥ तहां दूसर
 नाही ॥ ४ ॥ आसन अरसी पेधिले ॥ सनिमंडलमेला ॥ सिं-
 गीना दूवाजही ॥ जहां गुरू नचिला ॥ ५ ॥ सिरछत्र अरूपम-
 सेतहै ॥ जहां साहिबर हताचौर सहंगमदुरतहै ॥ यौं सतगुरक
 हता ॥ ६ ॥ किलमिलनूर अरूपारहै ॥ जहां जंत्री जोगी ॥ सकल
 बियापीर मर ल्या ॥ पार अरसभोगी ॥ ७ ॥ द्विष्टुमुष्टु अवेनही ॥ ८
 मोनी महबूब ॥ त्रिहविहंगमवेतहै ॥ असलापदसूवा ॥ ९ ॥ उज
 लभवर अनंतहै ॥ जहां कुजीबैना ॥ सबद अतीत समाधिया ॥
 लखउनमननैना ॥ १० ॥ घाटपाट पवेनही ॥ बिनसतगुरसेना ॥
 भेषपरेहै भरसमै ॥ सभफोकटफैना ॥ १० ॥ सरतनिरतसनप
 वनका ॥ यिक अंगबनाया ॥ सोहं सासनमैंगये ॥ सतलोकबसा
 या ॥ ११ ॥ बिनपरभवर उडाईया ॥ बिनपगोपियाना ॥ जनदा
 सगरोब अंगपुरी ॥ जहां गपाननध्याना ॥ १२ ॥ ४ ॥ मि अमली-
 निजनामका ॥ मदसूबचवाया ॥ पीयापियाला प्रेमका ॥ सिर
 सान्तेपाया ॥ टैक ॥ गंगंदरफजोध्यावडे ॥ कैसैठहराया ॥
 सीलधेतरनजंगमै ॥ सतगुरसरलाया ॥ १ ॥ पांचसषीनितसं-
 गहै ॥ कैसैकैत्यागी ॥ असलोक अनहदरते ॥ सीईअनरा-
 गी ॥ २ ॥ प्रपंचीपाकरलीया ॥ ब्रिहैकाकंपा ॥ जहां संघपदम
 अजियारहै ॥ कलकतहैचंपा ॥ ३ ॥ कुंभकलालीभरदिया ॥ महं
 गामदनीका ॥ अौर अमलनापाघहै ॥ समलागतफीका ॥ ४ ॥ यिक
 रतीपवेनही ॥ बिनसीसचढाये ॥ अौर साहिबर राजीनही ॥

नरमुंडमुडये ॥५॥ नीधाकेनरबहुतहैं ॥ बिक्रुडस्थिरी ॥
 सकरतनामसुभालियो ॥ लूटतजमजीरा ॥ ६ ॥ सकरतना
 मसमीपहि ॥ स्पेमीरसनाया ॥ सुवदेसिं सघदेहवा ॥ पारसप
 ह्याया ॥ ७ ॥ रगमहलंमैरिसनी ॥ रसतेसिमिला ॥ प्रसपादास
 गरीबेहे ॥ सतगरकरचेला ॥ ८ ॥ ५ ॥ अजकालाहालीत्रिपि ॥
 कलहकिसकूहोई ॥ याहननमाटीमैमिले ॥ जानेसुभकोई
 ॥ टेका ॥ लघीकरोढी ॥ चलगये ॥ बौहनोडिभजान्ना ॥ ज्ञान
 नचदनलेपते ॥ सेधरेमसाना ॥ हसतीघोडेपालकी ॥ दलबल
 बहुसाजा ॥ सबालापसगीगये ॥ पकसेराजा ॥ १ ॥ कुभकसे
 धीरये ॥ लकाह्वधारी ॥ नामविनाबसवूडेहे ॥ समजावनादि
 ॥ ३ ॥ भभीछनपदभेदिया ॥ निरगुननिस्वाना ॥ रावनदुईवि
 सारे ॥ तज्जारभगुमाना ॥ ४ ॥ बहचककेकलचक्रपरे ॥ जिन
 नामविसाखा ॥ कसकेसचानौरसे ॥ धरबालफवास्या ॥ ५ ॥ हि
 रनाकुससगजेनहीप्रहलादफटावे ॥ ७ ॥ विनास्याचानकरन
 मवकोनछुटावे ॥ ६ ॥ जुरासिधसेमारिया ॥ धौरसहसरवाहू
 गीराहैसगजछुटाईया ॥ निजनामहैसाऊ ॥ ७ ॥ दुसासनप
 रलोगये ॥ सुफोत्रभाई ॥ डुरयोधनकीदेहकू ॥ तनगीधन
 प्राई ॥ ८ ॥ निरगुननिरीभेनामहे ॥ भजलीनोमेई ॥ अगारदीन
 पततलोफमै ॥ तक्वासाहोई ॥ ९ ॥ सहसत्रठासीदीपमै ॥
 पतपतकीधानी ॥ दासगरीबभगतिमिले ॥ जयधिरहोयपरान
 नी ॥ १० ॥ ६ ॥ ग्यानकीअपिपाराभरी ॥ लिपननिजनूरी ॥ ११

मृगावाहरभरमही ॥ नाभीकसदूरी ॥ टिका ॥ पीतंबरमसन
 कबन्पां ॥ त्रिकुटीअतिसोहै ॥ सोधदछानानारहै ॥ पदप्रस्था
 लोहै ॥ रासीलसंतोषबिदिकरे ॥ ओररपानबिगपाना ॥ दयातु
 लीचिबैठकर ॥ व्हैब्रह्मसमाना ॥ २॥ छमाछत्रजकिंदुरतेहै
 ॥ तामसनहीतेज ॥ सिनरपरसेजानिये ॥ अलगतकीसेजा ॥ ३॥
 कमलहिरंगरघीलरहे ॥ अनेभेअनरागी ॥ दासगरीबसतलो
 कके ॥ सोईबैरागी ॥ ४॥ सजनसराहीहाथहै ॥ अंमृतकाप्या
 ला ॥ हमब्रिहनब्रिहैरंगी ॥ कोईपूछैहाला ॥ टिका ॥ चोषाफूल
 बचाद्रूप ॥ ब्रिहिनिकेताई ॥ मतवालामहसूबहै ॥ मेराथलष-
 गुसाई ॥ १॥ मिसपियालापियकर ॥ मेंमईदिबानी ॥ कहांकहूंउ
 सदेसकी ॥ कछअकधनिसानी ॥ शबरबैरागसनायकराग
 लडारीफांसी ॥ राठगहोबुल्लेनही ॥ साजनअबनासी ॥ ३॥ गुज
 कीबाता ॥ किसकहूं ॥ कोईमहरमजानै ॥ अगलीपिछलीमतग
 ई ॥ बेधीइकतानै ॥ ४॥ संनमंडलसतलोकसेविरहाचलप्राया ॥
 मुजविरहनकेलैनकूं ॥ मेरेसजनपढाया ॥ ५॥ रूसरूममेंराग
 है ॥ विरहारंगरासीलोकवेदजूढेलगे ॥ पिछलीबुधनासी ॥ ६॥ अ
 नहदनादूयाजही ॥ अमरापुरमाही ॥ संनमंडलसतलोककाहु
 लहिनउठधाई ॥ ७॥ अरमगुमटगुलजारहै ॥ गिलोगलतानासे
 तथजान्हांफरहेरै ॥ पंचरंगनिसाना ॥ ८॥ ननसनछाकेप्रेम-
 सै ॥ मनमंगलमहली ॥ डुलहिनदासगरीबहै ॥ जहांसेजस-
 लहली ॥ ९॥ १०॥ संनमरोवरदंसमना ॥ मोतीखुगप्राया ॥ अग

स्दीपसल्लोकोमें ॥ लिख्यजरजराया ॥ टेक ॥ हंसहिरं बरहेतहे ॥
 हेरुननिसानी ॥ सप्रसागरमुकताभये ॥ मिलाधारबांनी ॥ २
 रतनमारुप्रघनूसैहे ॥ ३ ॥ प्रघेहेअनरमी ॥ सनसलहलीसिलो
 ॥ करेहेकडभागी ॥ ३ ॥ घंडपिंडब्रह्मडसे ॥ श्लोहन्यारानादू ॥
 सनससजयाबेगरे ॥ गयेबादबिबादू ॥ ४ ॥ सनगुरसारजगा
 ईया ॥ धररूचीतालारगमहलमेरोसनी ॥ घटभयउजला
 ॥ ५ ॥ दीपकजोपानूरका ॥ लेशसथरधानी ॥ वीहरनमोजलअ
 वही ॥ निरगुनकेनातो ॥ ६ ॥ नामसहरबेगमपुरा ॥ कलालमीता
 ली ॥ सभघटमनसेंज्जदहे ॥ नहीकोईघली ॥ ७ ॥ अजबदिबा
 नदेसैहे ॥ जहाहिसामिलछीये ॥ जनकहतादासगरीयेहे ॥ मु
 कतापदलिये ॥ ८ ॥ १॥ १॥ ग्यानतुरंगसपीडिया ॥ ताजीइयाई ॥
 पाघरधालीप्रेमकी ॥ चितवाककलार्ह ॥ टेक ॥ प्रमधामसेंउत
 रे ॥ हुकमीसैलानी ॥ सबदसिधमेलाकरे ॥ ससौकेवानीपर
 अंसंपन्नगप्लोगये ॥ जदकेगुनगाऊ ॥ ग्यानगुरजेहेदधतमें
 केहसचिताऊ ॥ २ ॥ सीलहमारसेलहे ॥ श्लोरछिमाकठारी ॥ त
 ततीरतकमारहू ॥ किहाजाहूअनारी ॥ ३ ॥ बुधहमारीकदूघेहे ॥
 दिख्यददम्हू ॥ प्रेमपियालासारका ॥ चितचयमघजरा ॥ ४
 ततहमारीजेगैहे ॥ जेअसलअसील ॥ सुरेसनमुपलेतेहे ॥ क
 यरमुपपील ॥ ५ ॥ घापलघुमेश्वरसमें ॥ जिसलगीकठरी ॥
 श्लोपदनिहघनामहे ॥ जिन्हपीदमुकरी ॥ ६ ॥ पापरियासलले
 ककेअनजीतपदोये ॥ कहतादासगरीयेहे ॥ गुरगमेसें प्राये ॥ ७ ॥

॥२०॥ बटही अंशुगारइ ॥ घोषे मरगईया ॥ सारमवदची-
 न्त्यानही ॥ कछु भेदनलाहया ॥ टिक ॥ न्यालजडो कूं संषक
 र ॥ गिरहंडं कलगावे ॥ सरपनवंचई सुंडसी ॥ कही जाननपा
 वे ॥ ॥ ॥ यार्जा अन्नहदवीनरे ॥ फूंभी फुंकारं ॥ भगन्नविद्यावा-
 जिगरी ॥ जांनिं गुरम्हारा ॥ २ ॥ सतगुरमिलयागारइ ॥ जिन्ह
 मंत्रदीन्हा ॥ नागदौंन विगुनजडो ॥ विसयरवसकीन्हा ॥ ३ ॥ घ्या
 जी गिरकीडुगडुगी ॥ विसयरभरमाया ॥ घालापिठपारेलेचल्पा
 ॥ धरवारनिचाया ॥ ४ ॥ असासतगुरकीजियेवाजी गिरपूरा ॥
 दासगरीवअमरकरे ॥ दिलदरसजहुरा ॥ ५ ॥ ॥ ॥ दूददंदद्रेव
 सहेबेद्रदकसाई ॥ संतसमागमकीजिये ॥ तजलोकवडाईपेट
 क ॥ डिंभी डिंभनछोडही ॥ मरहटकेभूजा ॥ धरधरहारैफिरतहे
 कलजुगकेकूना ॥ १ ॥ डिंभकरैडुंगरचढे ॥ तपहोमअगींढी ॥ पं
 चअगनीपाषंडेहे ॥ याहसुकतीधसीढी ॥ २ ॥ यातीनोरेक्याहवा
 ॥ वहपानफुरे ॥ नुरसीबकशायगया ॥ ढाकरक्यायैरे ॥ ३
 पीतलहीकाथालेहे ॥ पीतलहीकालौटा ॥ जढमूरतिकुं पूजते
 अवेगाटोटा ॥ ४ ॥ पीतलचमचापूजियो ॥ जोधानपरोसे ॥ जढमू
 रनिकिसकामकी ॥ मतरहोभरोसे ॥ ५ ॥ कांसीगयापिरागरे ॥ हर
 पैडीन्हाये ॥ द्वारामतीदरसनकीये ॥ वहदागदगाये ॥ ६ ॥ इंद्र
 दौंनअसनानरे ॥ करपोहकरपरसे ॥ ढादसतिलकवनायक
 र ॥ वहचंदनचरचे ॥ ७ ॥ अढसठनीरथसभकीये ॥ हंदावनफे
 री ॥ नामविनाधूल्लेनही ॥ दिवद्विसष्टअंधेरी ॥ ८ ॥ सतगुरभ

दलघाईया॥निजनूरनिष्ठानी॥कहतादासगरीबहि॥छूटेसो
 प्रानी॥१॥१॥२॥३॥४॥५॥६॥७॥८॥९॥१०॥११॥१२॥१३॥१४॥१५॥१६॥१७॥१८॥१९॥२०॥
 जामेलगानिकानिरे॥श्रीरसदनकसाई॥टिका॥पालनीकर
 ह्यलोककू॥गयेनादवजाई॥सषपचायन्याजिया॥पंडेज
 गरचाई॥१॥विरभीलनीकेचंदे॥स्पीरीकुलहीनी॥श्रीरदरोपना
 केगहे॥सत्तगरबहुदीनी॥२॥तुदलमुदामकेलियेपडुस्त्रोप
 नप्राये॥प्रमरतभोजनछाडकर॥सागाबिद्रधरपाये॥३॥र-
 काषकानिरगये॥श्रीरसेऊछुचा॥समनकेसतगरगये॥इन
 सेकीनउंचा॥४॥सुजासैनपीपातिरे॥श्रीरननकनासा॥ध-
 नामगतेसेऊधरेप्योहुवेसतधामा॥५॥ध्रुवप्रहलादउधरग
 यि॥श्रीरजनकवदिही॥धरमरायकीवधतोरीया॥सषदेसग-
 नेही॥६॥सुलतन्नीबादसाहथे॥प्रतज्यावलकबूधारा॥श्री-
 सेसत्तगरबेलिया॥७॥भलश्रीगनगारा॥८॥मोपीचदश्रीरभ
 रथरी॥भलजेगबिजेगी॥एमथलीरोसनकरिासीतलरस-
 मोसी॥टागोरप्रदतकवीरैहे॥रिदाषकमाला॥दादुद्रसप्रस
 भये॥पीयाप्रसपियाला॥९॥केतेप्रमलीप्रमलोमे॥उसदेस
 दियनि॥ऊचेकुलकूकोसना॥होहैंधूरसमाने॥१०॥कींनउच
 कीननीचेंहि॥चदनामनिवारे॥गरीषदसप्रज्जतिरे॥सूडेब
 लपारे॥११॥१२॥नजरनिहालदयालुनै॥प्रसेप्रकजासीप्रीला-
 कलासहरना॥सुषवाराहबनी॥टेकाउलटमेरुंइषदगयेदे
 ध्यासादेष्वा॥सषकोटिरचिगिलमिले॥गिननीनहीनेषा॥

वरनवरनकेतेजहैं ॥ पचरंगपरेवा ॥ मूरतकोटिअसंधेहैं ॥ जाम
 धयेकदेवा ॥ २ ॥ जाकैब्रह्माजारूदेतहैसंक्रकरेपंषा ॥ सेसचरु
 नचपीलगे ॥ अग्रभीगढबंका ॥ ३ ॥ धरख्येनकदुरवीनकूं ॥ धुन
 ध्यानलगावे ॥ उलटकमलअरसाचेंदें ॥ तबनजस्येअथवे ॥
 ४ ॥ ब्रूछममूरतसोहना ॥ अग्रमैडूकरासा ॥ रहतारमतारात
 है ॥ घटपिंडनस्वासा ॥ ५ ॥ जोदेध्यासोकिसकहूं ॥ अचरजइ
 कष्याला ॥ कहतादासगरीबहैनिजरूपविसला ॥ ६ ॥ १४
 सोईसाधअगाधहै ॥ प्राधानसरहै ॥ परनिंद्यानहींसंचरे ॥
 उगलीनहींचाहे ॥ टेक ॥ कासक्रोधत्रिसनानहीं ॥ आसान-
 हीरोषे ॥ साचैसंपरदासया ॥ जबकूडनसाधे ॥ ७ ॥ येकैनजर
 निरंजना ॥ समहींघटदेधै ॥ ऊंचनीचअन्नहीं ॥ सभयेकैपे
 धै ॥ १ ॥ सोईसाधसरोवनी ॥ जपतपउपगारी ॥ भूलेकूंउप
 देसदे ॥ दुर्लभसंसारी ॥ ३ ॥ अकलअकीनपठायदे ॥ भूलेकूंचैते
 ॥ सोसाधूसंसारै ॥ हमविरलेभेटैं ॥ सतकषोदैंसतकहैं ॥ सा-
 चैसूंजाबैभसोसाधूसंसारसैहमविरलेपावैं ॥ ५ ॥ निरअनि
 रषपगधरतहै ॥ जिवहंस्यानाहीं ॥ चौरासीत्यासतिरनअयेन
 जगमाहीं ॥ ६ ॥ इससौदेकूंऊनरे ॥ सोदागरसोईमरें जिहा
 जउनारदें ॥ सोसागरलोई ॥ ७ ॥ भेषधरैभागोफिरें ॥ बौहसा
 प्रीसीधै ॥ जोनेनहीबिबेककूंघरकैज्पूरीकै ॥ ८ ॥ रवाहसु
 कामादरसहै ॥ जोअरसरहता ॥ उनमनमैतारीलारी ॥ ज
 हाअजपजपता ॥ ९ ॥ सुनमहलअसधानहै ॥ जहाअसधर

डंग ॥ दामगरीवसभानहे ॥ सतसाहिवमेरा ॥ १ ॥ २५ ॥
 भोसागरकेतीरनकू ॥ येकनामसंदेसा ॥ स्योब्रह्मादिकरटत-
 हे ॥ श्रीरनारदसेसा ॥ टेक ॥ सतगुरसासुसमकरे ॥ सुभमिते
 प्रदसा ॥ मनसुसाचलबूजरे ॥ श्रीहृष्यगमसंदेसा ॥ १ ॥ भोसा
 गरकूतिरगये ॥ सीतोहिबतावे ॥ ध्रुप्रह्लादठधरायि ॥ सो
 विकरनप्रवे ॥ सनकसनदनेसेवही ॥ लेकुंजिगुजारा ॥ अ-
 डेपोषनहोतहे ॥ हरनामउधारा ॥ ३ ॥ जैसेअललप्रका-
 समे ॥ कीन्हहिरेरा ॥ सरतसिधवचामिल्या ॥ जोयहरनफे-
 रा ॥ ४ ॥ वासिधिवेखावसहे ॥ श्रीरव्यासगुसाई ॥ मारग-
 अन्नलप्रनादिहे ॥ कोईपावतनहीं ॥ ५ ॥ मारकंडरुमी-
 रिषाशौरकागभसुडा ॥ साधीयेककबीरकी ॥ दुनेऊधडा
 र्दी ॥ नामानिसकहलालेरे ॥ कीन्होहिभाई ॥ गरीबदासयेक
 नामकी ॥ नीकजगभासी ॥ ७ ॥ अततकहनकूरामहे ॥ बूजा
 नहीदेवा ॥ अद्याविसनमहेससेनाकीकरहेसेवा ॥ टेक ॥ ज-
 षमपतीरथषोषरे ॥ जाकीक्याव्यासा ॥ कोटजगपेनदानसे
 ॥ जमकटेनफासा ॥ १ ॥ इहोईनउचलेनेहे ॥ यौहसिटेनऊ
 मरा ॥ कूरविनापथकीवाटहे ॥ पाविकोदगरा ॥ २ ॥ यिनहीं
 अद्यदिहे ॥ सोदानकहावे ॥ फलबोचिनहीतासक ॥ अम
 रसुजावे ॥ ३ ॥ सकलदीपनीषडेके ॥ छत्रीजिनजीते ॥ सो
 तोपदधेनामिले ॥ विद्यागुनबीते ॥ ४ ॥ कोटिउनचाप्रि-
 पमी ॥ जिन्हदीन्हीदाना ॥ परसरामधोतासुं ॥ कीन्ही-

करवाना ॥ ५ ॥ केचनमेरसुमेरे ॥ आयेसभमाहीं ॥ कासधेनक
 लवृद्धरे ॥ सोदानकराहीं ॥ ६ ॥ सुरनरसुनिजनसेवहीं ॥ सनका
 दकध्यावै ॥ सेससहंससुषरटतहै ॥ जाकापारुपावै ॥ ७ ॥ ब्र
 ह्माविसनमहेसरे ॥ देवादरवारीसंघकरुपजुराहोयगये ॥ जाकै
 पूरहैनतारी ॥ ८ ॥ प्रदोसंषअसंपरे ॥ परसांहविहांनी ॥ वारी
 वदासनिजनामकी ॥ मिहमाहमजानी ॥ ९ ॥ १० ॥ सुषकेसार
 रसमहैं ॥ दुषमोचनहोई ॥ पथरपानीप्रितसासैतिस्थानकोई
 टेक ॥ नारदसुनध्रुकंसिले ॥ जिननामसुनाया ॥ कोटिकरुपजु
 गहोयगये ॥ फिरगरभनआया ॥ ११ ॥ सपतपुरीपरधृतपै ॥ सोनाही
 छाना ॥ सेसरिसातरुगगनधूमयेरामदिवाना ॥ १२ ॥ प्रहलादभ
 गतपरवानहै ॥ धुनगरभरुगाई ॥ रामपुरषकीबदगी ॥ रोस
 नभईभाई ॥ १३ ॥ गिरप्रबतसैंडारिया ॥ सोजस्थानजास्था ॥ ती
 नलोकमाकाभया ॥ नरसिंघअौरतार ॥ १४ ॥ गीधव्याधरगनक
 तिरि ॥ औरभीलनीस्योरी ॥ म्यौजोरीमंत्रदीया ॥ जदउधरी
 गौरी ॥ १५ ॥ सिलाउहल्याहोरई ॥ गीतमकीनारी ॥ वैचरनकम
 लक्यूनध्यावहीं ॥ जिनपारउतारी ॥ चरनकमलकीरजपरी
 ज्यूपारसलोहा ॥ गईउहल्यालोककूं ॥ छूटेसभहोहा ॥ १६ ॥ पथर
 पानीसैंदंधे ॥ नरमूढगवारा ॥ रामपुरषसूकैनहीं ॥ अधरांससा
 रा ॥ १७ ॥ जिनपथरपानीरचे ॥ जाकोनरध्यावो ॥ तीरथबरतथे
 थरे ॥ गोबिदगुनगावो ॥ १८ ॥ आदिसनातनरासहै ॥ भजही
 जोभाई ॥ गरीबदासदुजानहीं ॥ कोईरामदुहाई ॥ १९ ॥ २० ॥ सु

षकेसागररामहै ॥ जहां परिये ध्याना ॥ त्रिवेनी कै पाटरे ॥ कीजे
 असनाना ॥ टेक ॥ नाम कमलसै उचरे वमले पै लावो ॥ प्रवी को
 टिअनतहै ॥ सुपसागरहावो ॥ १॥ अनतको टिधुनहोतहै ॥ सुष
 सागरमार्ही ॥ पैडीपथनमहलकै ॥ तहोहंसाताही ॥ अर्कमू
 उचारहै ॥ मापिये मनमाहा ॥ सुसमवेदसै धुनरुगी ॥ पौहचे
 विप्रसाठा ॥ अरेपकआदिअनादिहै ॥ दुरबीनधीयाना ॥ पल
 केचौराकीजिये ॥ त्रिकुटिससथाना ॥ सदसकमरुदलगरा
 सौ ॥ जहां भवरजुमार ॥ पटागरजबौह्वामनी ॥ अनहदरुन
 कारा ॥ ५ ॥ गरमैसिधुअगाधरे ॥ बिनसरबनसुनियो ॥ नरकी
 ष्यावुनियादहै ॥ पीषतनहीसुनिया ॥ ६ ॥ मनपौनाकेरामन-
 सै ॥ आगेठषभाई ॥ सुरतनिरतकीपषले ॥ हंसाउडनाई ॥ ७ ॥
 अथरबिहरामबचहै ॥ भीरीलेभीरा ॥ गरीबवासकअप्याकरै
 नाकानमजौग ॥ ८ ॥ १६ ॥ कृषकेसागररामहै ॥ बुषदूरनिवा
 रें ॥ चौरासीकूमेटकै ॥ भीसागरत्यारै ॥ टेक ॥ राजप्रौरगि-
 राहमुटेतहावर्षससषदीत ॥ ररकारउचरतरे ॥ बुषमोच
 नसीतें ॥ १ ॥ भीरवनीप्रह्लादकू ॥ हिनाकुसध्याये ॥ षंभा
 मैप्रगटेगहार ॥ तहाभानकुटाये ॥ २ ॥ रापतसाठहमारकाद
 सासनजोर ॥ द्रोपतिफूलस्वरूपहै ॥ जहांधीरकरोर ॥ आपे
 उभरतारीद्रोपती ॥ केपहोकता ॥ एकपलकमैहोपगये ॥ जहा
 चीअनेता ॥ ३ ॥ सौनराकासकरुपकीया ॥ बलराजादानी ॥
 तीनहोकसभप्रिथमी ॥ पगनीचैमानी ॥ ४ ॥ वावनचैकरब

लिच्छले ॥ जहां बढे अगाधं ॥ गरीबदासनिजरूपकी ॥ कुठना
 मरजादं ॥ ६ ॥ २० ॥ अबरातराजारासुहै ॥ चकवैअबनासी ॥ ब्र-
 ह्माविसनउजीरहैं ॥ स्यौकरतषवासी ॥ टेक ॥ इंद्रकोटिअ-
 नंतहैं ॥ जाकैप्रितहारा ॥ बरनकुमेरंधरमराय ॥ ठाढेद्रवारा ॥
 १ ॥ तेतीसकोटिदेवतारिषिसहंसअठासी ॥ वैसनोकोटिअने
 तहै ॥ गुनगावैरासी ॥ २ ॥ नौजोगेसरनादभर ॥ सरपूरैसंषा ॥
 सनकादकसंगीतहैं ॥ अबचलगढबंका ॥ ३ ॥ सिसगनेससर
 स्वती ॥ औरलछमीराजै ॥ सावत्रीगौरारटै ॥ गणसंघविरा-
 जै ॥ ४ ॥ अनंतकोटिमुनिसाधहैं ॥ गंगगंधर्पगानी ॥ अपरेपिं-
 डरप्रानकूं ॥ जहांसंषौदानी ॥ ५ ॥ सावंतसरअनंतहैं ॥ कछ
 गिनतीनाहीं ॥ जतीसतीअौरसीलवंत ॥ लीलागुनगाहीं
 ॥ ६ ॥ चंदसरवीनतीकरै ॥ तारागनगाढे ॥ पांचतनहाज
 रषडे ॥ हुकसीदरढाढे ॥ ७ ॥ तीरथकोटिअनंतहैं ॥ अौरन
 दीविहंगा ॥ ढारभारतोकरटै ॥ जल्पवनतरंगा ॥ ८ ॥ अछ
 कुलीपरबतरटै ॥ धरअंबरधपाना ॥ मिहनाकअगनितोकंज
 पै ॥ साहिवरहमाना ॥ ९ ॥ अरसकरसपरतेजहै ॥ ननेतवकति
 राजी ॥ पिकपलकमैकरनेहै ॥ सोराजाविराजी ॥ १० ॥ अलसविना
 नीरसकूं ॥ रांगषूबचबाया ॥ यकपानीकीबुंदसै ॥ संसारवनाया
 ॥ ११ ॥ अनंतकोटिअनंतहै ॥ कछूवारनपागा ॥ लछवोरीसीषा
 नका ॥ तंसिरजनहारा ॥ १२ ॥ अछमरूपसरूपहै ॥ वौहरंगवि
 नानी ॥ गरीबदासकेसुकटेमै ॥ हाजरप्रवानी ॥ १३ ॥ २१ म-

गतद्वैदिनभावेरे ॥ सकेनेकाजा ॥ विद्वेकेजीमनउठगये ॥ त
 जवुरजोधनराजा ॥ टिक ॥ विजनछतीसोछाडकरा ॥ पायसा
 गप्रलोना ॥ थालनहीउसविद्वेके ॥ धनीजीमतदीना ॥ १ ॥ विज
 नछतीसोप्रीसीया ॥ वहाद्रोपतीनमी ॥ बिनश्राद्रसनकारे ॥
 कहीसधनवानी ॥ २ ॥ पचागिरासीबालनीक ॥ पंचैधरबेले
 ॥ श्रागसधपचायन ॥ कपाटनघेस्ले ॥ ३ ॥ बोलेकृष्णाम
 हाबली ॥ त्रिधवनकेसाजा ॥ बालनीकमसादसे ॥ कएक
 एकपूनवाना ॥ प्रेमपचायनभूसहे ॥ अनजगकाषाना ॥ उ
 चनीचदरोपतिकत्या ॥ कएकनयोनवान्या ॥ ५ ॥ दरे
 पतीसेतीकृष्णदेव ॥ जद्वेसेभाष्या ॥ बालनीककेचरन
 की ॥ तेरेनहीभिलाषा ॥ ६ ॥ बालनीककेचरनकी ॥ लईद
 रोपतिधारा ॥ संघपचायनवजिया ॥ कएकएकजनकारा ॥
 ७ ॥ सनतपचायनसधरे ॥ जमकीवधटुटी पठराजाधारग
 ह्ये ॥ धरध्यानअनूठी ॥ ८ ॥ सपतरिघोकीसिवना ॥ करीकील
 षता ॥ सवदसरूपीपुत्रे ॥ निजदियेविधाता ॥ ९ ॥ धरमयु
 धिधरभीससेन ॥ अरजनश्रीरसहेदेनिकलनिरवनादमेमि
 टग्येसभवहदे ॥ १० ॥ कृष्णदेवकीबहनहे ॥ अरजनकीद
 सी ॥ लघसधानीवानरे ॥ बकसेअवनासी ॥ ११ ॥ संगसुहद
 एतासकेग ॥ द्रोपतिहीचेरी ॥ त्रिलोकीकेनाथकूदईकलान
 वडेरी ॥ १२ ॥ दूसासनफीटेपरे ॥ धरद्रोपतिध्याना ॥ अर्नन
 कोटिपीतवर ॥ तापरकरवाना ॥ १३ ॥ रावनराजानगनहेपस्य

मुधमुहने ॥ सरस्वतीसरोयौ हृत्त्राजनेसोजने ॥ २४ ॥ दु
 रजोधनकीदेहकूं ॥ तनगीधनघाया ॥ धिकपलकमेंवह
 गई ॥ सपनेकीमाया ॥ १५ ॥ रागरतेसोजानिये ॥ होंहिरागस
 रूपा ॥ भौसागरप्रवै नही ॥ इयूनिग्रहकूपा ॥ १६ ॥ इसधामेदी
 दारहे ॥ नौधानिधिसारी ॥ स्योसंक्रकेरागमें ॥ बहेबिसनमु
 रासी ॥ १७ ॥ साहिबरागसरूपहे ॥ समसंतसमूल ॥ गरीबदास
 गलतानेहेसूत्रजिमुषफूल ॥ १८ ॥ २१ ॥ अरधनामकापटत्रा ॥
 सनियौरैभाई ॥ गजयाहपसवातिरे ॥ नरसमरौताही ॥ टिक ॥
 नारददासीपुत्रथासेरखननहीपापालबलगीदीदारकीतिहू-
 लोकबढाया ॥ १ ॥ प्रह्लादअगाधभजनकीया ॥ धरजुंनिका
 जामा ॥ नारदसेसतगुरमिले ॥ पौहचेसतधासा ॥ २ ॥ सौज
 गकासंकलयकियाअसमेधपसारा ॥ बलिकेहोरैअईया
 ॥ बावनशौतारा ॥ ३ ॥ धूंकीधजाजहांफरहरै ॥ अमरापु-
 रमाहीं ॥ सेरनाजकीकलयथी ॥ दीयाराजगुसाई ॥ ४ ॥ गी-
 धव्याधसेतिरगये ॥ चढीगनकबिबाना ॥ हमकूक्याउहाभी
 रैहेतुम्हरेअसथाना ॥ ५ ॥ तपियाकूंतोनामिले ॥ लोदियाके-
 अये ॥ सनियेअप्रोघडनाथजी ॥ तुजिक्यासमजाये ॥ ६ ॥ ग्या
 राअबी कीबंदसी ॥ पलमांहबहाई ॥ पीबरतसेराजागये ॥
 लीयेकालधिकीई ॥ ७ ॥ हरीचंदसरबसदीयातन्मननहींरष
 ता ॥ असीतुम्हरेबूकेहे ॥ कीयामडहटसंगता ॥ ८ ॥ कोटिक-
 तपियातपकरै ॥ बनघंडकेमाहीं ॥ अबगतराजारामजी ॥ जूठेफ

लषाही ॥६॥ रत्नाकोटिनिमणवे ॥ केजे पत्तितठधारे ॥ कथाचूल्
 शिकादिलपाघहे ॥ घनीअप्रमपारे ॥१॥ सीताकेसीसकलक
 रे ॥ लायेरघवीर ॥ पचभरभारीद्रोपतीकेबटगयेचीर ॥११॥
 सपक्केसंगीहोगये ॥ पडितकिसकाजा ॥ सहदेसेहादस
 कोटिथे ॥ तहांसघनबाजपा ॥१२॥ भीषमद्रौनाकरनेसे ॥ त
 कवार्नोभारे ॥ करनासर्नीटटीहरी ॥ घटातोडठबारे ॥३॥
 घटाटूलाइद्रका ॥ मनसहसप्रठासी ॥ घुटदलअउउवारि
 या ॥ अग्रभातअवनासी ॥१४॥ धिलीकेसतनाजरे ॥ आवेकै
 माही ॥ सीतलपवनऊकोरिया ॥ धनसमरथसाई ॥१॥ नामान
 कादेवलाफिसा ॥ जोजातिकाछीपा ॥ रिदासरगेमरीठमे ॥
 हरिसंगसनीपा ॥१६॥ अन्नतकोटिब्रम्हडमे ॥ अलहेकगामन
 केसोवन जारभया ॥ दीन्हीमगजवन ॥१७॥ नामरवाकीस
 र्दमी ॥ द्रवाजुम्हारे ॥ मरवप्रदेकैजातेहे ॥ रावनजुकारे ॥
 १८॥ घनेजादगुलामहे ॥ घरकम्बदजादा ॥ गरीबदासकीबद
 गी ॥ रहेआदिअनादि ॥१६॥ २३॥ करसाहिवकीबदगी ॥ गफ
 लतनहींकीजे ॥ अजजीलकूदेधरे ॥ अवकौनपतीजे ॥ टेक
 अजजीलकूबहगया ॥ कैसेईरान्या ॥ जेजनसुषसमाधरे ॥
 नापरअसधाना ॥१॥ करसाहिवकीबदगीधरथनीधिया
 ना ॥ बनीबचनअदूले ॥ कैसेईरान्या ॥ २॥ ब्रह्माअद
 मविमनकू ॥ धेहमहलनपावे ॥ अजजीलकीसेलकू ॥
 दुजाकोधावे ॥३॥ गफलतउपरमारहे ॥ सुनसवदसंदेशा

अज्ञाजीलकेसफरकूं॥पोंहचैनहींसेसा॥४॥बंदाकीन्हाभूर
 का॥हरिहुकमउपाया॥बिनाधनीकीबंदगी॥दोजिकपैठा
 या॥५॥तनमनजाकनूरका॥सभनूरीफिरका॥कीन्हाहुक
 मप्रतूलरे॥साईकेघरका॥६॥केप्रबदीभावैनहीं॥साहि-
 बकैताई॥अज्ञाजीलकीबंदगी॥पलमांहवहाई॥७॥हउ
 चामकापूतला॥जासैंक्याकहिये॥बंदावहगयानूरका॥
 अबचेतनरहिये॥८॥इरान्यांवीहडैन्हीं॥साहिवकेअर
 का॥नहींभरोसाकीजिये॥इसगंदेनरका॥९॥अज्ञराइल
 अनादिहै॥साहिवकैआँ ॥अनंतलोकब्रह्मंडकी॥बा
 नीअनरागै॥१०॥जबराईलजुबानपर॥हाजरद्रवाना॥
 अलहतघतकीबंदगी॥निरगननिरवाना॥११॥महकाईल
 असीलहर॥धरसप्रमनध्याना॥गगनमडलकेमहलकूं॥
 सोकरनपियांना॥१२॥असरीफीलअलीलभुम॥परधरहै-
 ध्याना॥नूरनूरमैमिलरह्या॥कादरकुरवाना॥१३॥चारस
 यकलअप्रादिहै॥साहिवद्रबारी॥येहीसनकसनंदना॥येही
 चारयारी॥१४॥गरीबदासगतगरमकी॥कछूलप्रेनमाता॥द
 हूंदीनाभिड.भिडमरै॥ओहयेकबिधाता॥१५॥२४॥करसा
 हिबकीबंदगी॥वेरागरलैरे॥समरथसांईसीसपर॥तोकूंक्या
 भैरे॥टेक॥सीलसंतोषबिबेकहैं॥औरगपानविगपाना॥
 दयाधरमचिंतचौंतरे॥वचौप्रवाना॥१॥धरमधजान
 जहाफरहरै॥हौहजगजौनारा॥कथाकीरतनहोतहै॥

साहिबदरबारा ॥ २ ॥ समतामातामित्रहै ॥ रघअकलयकीन, स
 नपडेवेपुल्लहतहै ॥ दिलुसैदुरवीन ॥ ३ ॥ जाकैपिताविवे
 कसे ॥ औरभावसेभाई ॥ पापटन्नहीऔरहै ॥ कछूवैहनसया
 ई ॥ ४ ॥ बिठकैदुगरचढगये ॥ जहागुफाअनाद ॥ रागी-
 सबवसमाधरे ॥ धनसतगुरसाध ॥ ५ ॥ सहसमुषीजहाग
 गहै ॥ तारुवत्रिवैनी ॥ जहाध्यानअसनानकर ॥ परवीसुष-
 चैनी ॥ ६ ॥ कोटिकरमकुसमरुकरै ॥ उसप्रवीन्हाये ॥ ओह-
 साहिवरातीनहीं ॥ कछुनाचेगाये ॥ ७ ॥ भगरमूलमहकंत-
 है ॥ जहांगधसुगंधा ॥ एकपरुककेध्यानसै ॥ कटिहैंसभ-
 फधा ॥ ८ ॥ दोमुठकीभाटिघवै ॥ जहांसुषमनपोता ॥ इरा-
 पिगुहायेककर ॥ सुषसागरगोता ॥ ९ ॥ अबरुवहीवरि
 यामहै ॥ निरगुननिस्वानी ॥ अनतकोटिवाजेवजे ॥ बाजैस
 हदानी ॥ १० ॥ तनमनहिचरहोगया ॥ निजपदसैरागे ॥
 येकपरुककेध्यानसै ॥ बुदुरसभभाये ॥ ११ ॥ प्रपटनकेष
 टमै ॥ येकपिगुरुपथा ॥ बुटैफुहारेचरके ॥ जहाधारभन
 ता ॥ १२ ॥ किरुमिरुकिरुमिरुहोतहै ॥ उसपुरसैभाई ॥ घ
 टवाटपावैनही ॥ हैदाराई ॥ १३ ॥ तहावहासषसुरग
 मधऔषटघाटा ॥ सतगुरमिलैकबीरसे ॥ तबपूतैहैकपा
 १४ ॥ सेतकमर जहाजगसंगे ॥ पीतबरछाया ॥ सूरजसा
 सुभानहै ॥ अबनासीरपा ॥ १५ ॥ भगरखोरसैचढगयो ॥ धु
 लरुपियाना ॥ दासगरीब कबीरका ॥ पायाअसथानाम

२५ ॥ लोकलाजनहींकीजियेनिभैहोयरहिये ॥ यौहमनसाधों-
 दीजिये ॥ तौगोबिंदपईये ॥ टेक ॥ भौसागरजनीजनम ॥ हर
 दासमिटवै ॥ भौहरबौहरनहींआवहीं ॥ मुकतापदपावैं ॥ १ ॥ औ
 सेहरजननसंतहे ॥ संगतनितकीजैफलेजगकीलाजमें ॥ ना-
 हींचितदीजै ॥ २ ॥ यौहजगबदराधूंधका ॥ मिहरपौनांडरिये ॥ जै
 मनचोहेरामकूं ॥ दासातनकरिये ॥ ३ ॥ हसतीडरमानेनहीं ॥
 जेस्वानधुकाहीं ॥ सतसंगीसंगतनातजै ॥ चितरामबसाहीं ॥
 ४ ॥ स्वानरूपसंसारहै ॥ कुळकरसीनाहीं ॥ सीसमहलकूदेन
 षकरभौकतमरजाई ॥ मतवालेसहस्रबहैं ॥ साधुजगमाही
 गरीबदाससमजावहीं ॥ जग्यासीतांई ॥ ६ ॥ २६ ॥ रामकहे
 मेरेसाधकूं ॥ दुषमतदीजोकोय ॥ साधुदुषावैमैदुषी ॥ मेरा-
 आपाबीदुषहोय ॥ टेक ॥ हिस्नाकसउदरविदारिया ॥ मेंहींमा
 स्याकंस ॥ जोमेरेसाधकूंआनदुषावैं ॥ जाकाषोवोंवंस ॥ १ ॥
 पौंहचुगाछीनयेकमें ॥ जनअपनेकेहेत ॥ तेतीसकोटिकी
 बंधबुटाई ॥ रावननात्याषेत ॥ २ ॥ कलावधावोंसंतकी ॥ प्रग
 टकरहैमोह ॥ गरीबदासजुलहाकहै ॥ मेरासाधनदहियोको
 य ॥ ३ ॥ २७ ॥ करोनवंशारेनरो ॥ जसमांगैबाकी ॥ करजोडेधर
 मरायषड ॥ सतगुरहैसाषी ॥ टेक ॥ माटीकाकरुबूतहै ॥ स
 तगुरकासाज्या ॥ उसनगरीडैराकरो ॥ जहांसबदअवाजां ॥ १ ॥
 नूरमिलैगानूरमें ॥ माटीमेंमाटी ॥ कोईकसाधूचढगये ॥ उस
 औघटघाटी ॥ २ ॥ रूमरूममेंरामहै ॥ अजपाजपहीजै ॥

तसुह्रामदोरगाहप्रप्यालामपपीजे ॥ ३ ॥ जमकीफरदीचाचढे
 ॥ सोईजन्मसूरा ॥ प्रस्यावासगरीबहै ॥ नोगेसरपूरा ॥ ४ ॥ २९ ॥
 अगमग्यानकीधनसुनी ॥ दुलहनिभईवौरी ॥ योहभग्लीकि
 रकानप्रहै ॥ फोईरुषैनडिरी ॥ टेक ॥ जडेफलपरवानहै ॥ पर
 तीतसुस्यौरी ॥ पौहअनरागअनादिहै ॥ जोअमरभईगौरी ॥
 १ ॥ विनप्रवरकेबागहै ॥ मद्दहापोमौरी ॥ त्रिकुटिसिधपिठन
 छे ॥ मधकरहैभौरी ॥ २ ॥ अ एकमलदहभीतरा ॥ सुमरनसु
 मरोरी ॥ योहश्रीसरधूकूनहींकुछहोयसहौरी ॥ ३ ॥ पिंड
 प्रानतिसवारहू ॥ तनमनअरपौरी ॥ गरीषदासपदअरसमै ॥
 सरतसिधमिहोरी ॥ ४ ॥ २९ ॥ साधी ॥ २६ ॥ अथरागअपि
 मनमगनभयाजबषयागावै ॥ टेक ॥ पेणनइद्रीद्वनकरेगा ॥
 कस्तवभमोहीसोपावै ॥ ५ ॥ प्रिलेकीकीइछछाडे ॥ जगमैविच
 रीमिदावै ॥ २ ॥ अपरसिधासनअबघरुआसन ॥ अहाउहासु
 रतीतहरावै ॥ ३ ॥ उठटीचलटीचितनिरतर ॥ बाहरसेभीत
 स्यावै ॥ ४ ॥ त्रिकुटीमहलमेंसेनविछीहै ॥ हावसअद्रुधिपकवै
 ५ ॥ अजरअमरनिगसूरतसूरत ॥ वसोवदमध्यावै ॥ ६ ॥ स-
 करुमनोरथपूरणसाहिब ॥ धौहरनहींभौतलआवै ॥ ७ ॥ गीब
 क्षसततपुरषबदेहीं ॥ साचासवघरुद्रसावै ॥ ८ ॥ १ ॥ मनमगनभ
 यावैसेजान्या ॥ अथप्रमारीसुनअपारी ॥ अथवधतरहेगहृतान
 ॥ १ ॥ ऊंसोहसारवस्तुहै ॥ अजपनापसहीनान्या ॥ याह
 मनवेहीवौहरनहींहै ॥ अथकमदअसथाना ॥ ३ ॥ थावरजा

गममैजगदीसं॥क्यापूजैजलपाषाणा॥४॥सुरतसनेहींसिं-
 धमिलेंगे॥दिलकूंषोजैदिलदाना॥५॥यामनमूरतिचंपा
 सरति॥समजबूजलेब्रह्मग्याना॥६॥विनमुसकायेकअंक
 अरसमै॥क्यापठियेपोथीपाना॥७॥संषकंशुराबाजैतंरा॥
 सेतधजारुषअसमाना॥८॥उजलहिरंब्रसबदगुरंबर॥जम
 जौरानहींतलबाना॥९॥गंगाजमनामधसरसती॥मानस
 रोवरमैन्हाना॥१०॥सोळमुकतजहांपित्रहोतहै॥बहांकरो
 पिंडप्रधाना॥११॥अर्थधर्मसभकाममोचना॥आदपुरषप-
 दनिरबाना॥१२॥गरीबदासद्रपनमुषद्रवै॥संषकलारबिस
 सिभाना॥१३॥२॥मनमगनभयेकासुनरासा॥टेक॥
 येहइंद्रीप्रकृतिप्रेरै॥डारचलैत्रिगुनपासा॥१॥सफमसफ
 दैमिलैनूरमै॥कामकरोधकाकरनासा॥२॥यौतनषाष
 मिलैगाभाई॥क्यापहरेसुरुसुरुषासा॥३॥पिंडब्रह्मंडकुछ
 धिरनहीहै॥गगनमंडलमैकरवासा॥४॥चिंत्याचेरीदूरप्रेरी
 काटचलैजमकाफासा॥५॥मानबडाईजमपुरजाई॥होप
 रहोदासनदासा॥६॥गरीबदासपदअरसअनाहद॥ऊंषो
 हंजपस्वासा॥७॥मनमगनभयासोब्रह्मचारी॥टेक॥यौह
 मनअकलअजीतजीतिया॥द्वनकरीपाचोनारी॥१॥दुर
 मतकातोदेवनढाहा॥पकरहईमनसादारी॥२॥चितकैअ
 दरचौपडषैलै॥जहांफिरतीहैसोलाहसारी॥३॥आकीनदर
 पकीधरआवै॥गर्भवासमैनाजारी॥४॥जूनीसंकटमोचहेत

है ॥ अनरगये भोजरुपारी ॥ ५ ॥ दहूदीन घटद्रसनत्यागी ॥ ऐ
 धीही पत्नधारी ॥ ६ ॥ फिरुमिठनैना अनहद्वैना ॥ रागरही
 उनसनतारी ॥ ७ ॥ योजननिद्याविद्याकरहै ॥ कही असतुतक
 ही देगासै ॥ ८ ॥ गरीबदासदीदारद्रसकरप्रफुषुवाधेरुनकी
 चारी ॥ ९ ॥ १० ॥ दमदानही भरोसावो ॥ अबक्करकरनेदास
 रु ॥ टेक ॥ मुरेपुरषसगसतीनरतहैं ॥ परीभ्रमकीभूरु ॥ १ ॥
 मीठमचुषादुषरुदीहै ॥ करहाघातबंवरु ॥ २ ॥ मैठीमंद्रवायच
 गीचे ॥ रहसीठारुनसरु ॥ ३ ॥ निदापुरषअचरुअवनासी ॥
 विनपिंडअसथूरु ॥ ४ ॥ नैनोआगेरुचुकुरुआवै ॥ रतन
 असोलीफूरु ॥ ५ ॥ गरीबदासयोहअरुलुध्यानहै ॥ सुरत
 हिबोलेरु ॥ ६ ॥ ५ ॥ त्पारैगेतहतीकसतगुरत्यारिगे ॥ टे
 क ॥ घटमीसैगयाघटहीमैनमुना ॥ घटहीमैनगदीस ॥ १
 रसागहीबानातुआरुहीध्याना ॥ मुरेवारनकीप्रतीता ॥ २ ॥
 मनकरपीरीबापलेरेबावरे ॥ अडेदेनैपिठत्योकीरीत ॥ ३ ॥
 सपरीबसतरुस्काचेला ॥ तारैगेजमकीरसति ॥ जरुथरुसा
 शीरकहै ॥ डुगुडबरदियारु ॥ दसोदिसाकूद्रसनना-
 कहिनौरुकारु ॥ ४ ॥ ६ ॥ — ॥ इतिधीरतनसागरधी
 सहर गरीबदासजीकृतसमाप्त ॥ ६७ ॥ ६७ ॥
 ५- १५ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ११- २१- ५१-
 शुभमस्तु सर्वजगतास-

॥ अथ श्रीविचारप्रकाशग्रन्थप्रारम्भः ॥

संथकी आदमें संगल करे हैं काहेतें संगलतें संथकी समासिके प्रतिबंधक विघनका नाम होवै है ॥ विघन नाम पापको है पापमें सुभकार्यकी समाप्ति होवेनहीं ता पापका संगलते नाश होवै है यति संथकी आदमें संगल अवश्य किया चाहिये- जो पापरहित होवै सो विगंधके आदिमें संगल अवश्य करे काहेतें जो गंधके आरंभमें संगल नहीं किया होवै तो गंधकर्त्ता विषै पुरखन कूनास्तिक भ्रांति होयेके गंधसै प्रवृत्ति होवै नहीं याते विनिय्याप पुरखक संगलकीया चाहिये ॥ सो संगल तीन प्रकारका है- एक वस्तु निर्देशरूप है दुसरा नमस्काररूप है तिसरा आशिर्वादरूप है सरगण अथवा निरगण जो परमात्मा सो वस्तु कहिये ताके कीर्तनकानाम वस्तु निर्देश अथवा अपना वाशिच्यनका जो वाछित वस्तु ताके प्रार्थनाकानाम आशिर्वादरूप संगल है- गणेशक सरगणमें ईश्वरता प्रसिद्ध है ताते अनीश्वरका चिंतन नहीं खेरा यमें गणेशका जो जन्म है सो जीवकीन्याई कर्मकाफल नहीं किंतु रामकृष्णादिकन कीन्याई भक्तनके अस्तु हवात्ते परमात्मा ही आविर्भूत होवै है इहां ये तात्पर्य है ॥ परमार्थ-दृष्टिसंजीवनी परमात्मासे भिन्न नहीं जन्म सरगादिकबंधका आत्मासे जो अध्यानसे जीवका जीवपना है सो जन्मादिक गणेशादिकनके आत्मासे प्रतीत होवेनहीं ताते सो जीव नहीं उशीतें गणेशादिकक ईश्वरता है ताते संथके आरंभमें तिनका चिंतनयो

स्पष्टे- ईश्वरभक्ति और गुणभक्तिविद्याका मुख्यसाधन है इतना
 कि नलावरोवाले है ॥ अथनगुणवस्तुनिर्देशरूपस्यत् ॥ दोहा
 कृत्स्नजनमात्म्यहारेदरिबीतनेत ॥ जातशक्तिवाक्यार्थरुच
 तजलधर्मसेत ॥ १ ॥ अथनिर्गुणवस्तुनिर्देशरूपमराट ॥ कदित ॥ प
 कहे अरवट जो ईसुबहे स्वरूपसोई तासहीकेसाह दुषते ॥
 सानिये ॥ हेतहे स्वरूपजो ई दुद रूपनानो जो ई तासहीकेसाहित
 रवते सहिने नानिये ॥ जीवई सभेद जो उपाधीकृतमाने सोई
 सवत्वरूपमै नभेदकवित्पमिये ॥ भेतेहै जो रूपजोई सतप्रस्त
 रूपसोई तासके प्रतापकरभेद भ्रमभ्रजिये ॥ २ ॥ अथशिष्य
 छितप्रार्थनारूप आसीर्वाद ॥ कवित्त ॥ सतचिदानन्दजो ई व
 सरूपतोई दसनके वुरवहेस्वयादिठभारके ॥ शिष्योमै भभानजोई
 छिनमेहरतसोई ॥ अहे उपदेस्देततीनो गुणारके सुखके
 नजेई भेकहे भभानसोई आसकृतिवारे महावक्यकृदिवास्के ॥
 हैसरूपजोई गुरुहै हमरिसोई ॥ कस्तप्रणमवाहीरुचेसैपुकारके
 ३ ॥ येहा ॥ सच्चिदानन्दकेहै जामेद्वयनलेस जीवउधास्नकास्ने
 श्योआपहयेहभेस ॥ ५ ॥ परमेश्वरइष्टाकरी जीवउधास्नकाज
 श्रीगुरुमानवरूपपरभयेप्रगटसहस्रान ॥ ५ ॥ टीका ॥ जगतकीउ
 त्यन्तिस्थितिभोसहरकाकर्तृसर्वभसर्वशक्तिमानभेकअत्यस्ति
 मायाविशिष्टद्रवरूपपरमेश्वरजोहैसोयदायदाहिधर्मत्यस्तानिभ
 वतिभारत ॥ अभ्युत्थानमधर्मस्यतदात्मानस्तुजास्यह ॥ परि
 त्राणायसाधुर्नाविनाशापचदुष्कृता ॥ धर्मसस्यापनार्थायसभ

वासियोगेयुगे॥ अर्थ॥ हे अर्जुन जिस जिस काल विषै धर्म की हा-
 नि होवै ओ अधर्म की उत्पत्ति होवै है तिस तिस काल विषै मै आप
 कें उत्पन्न करता हूं ॥ इस गीता स्मृति के वचन अनुसार इच्छा करि
 कें जैसे साधु वाके पुण्य समुदाय सैं औ असाधु वाके पाप समु-
 दाय सैं साया के साक्षात्परिणाम सर्व शक्ति संग्रह राम कृष्ण दि-
 रूप अवतार की न्याई अवतार धारता भया ॥ तै सैं ही उक्त परमेश्वर
 इच्छा करि कै साधु जनन कें सुख के कारण होने तें तिन के वैल पु-
 ण्य समुदाय अधिकारी जीवन के निमित्त अधिकारि जनो के उ-
 धार करने की सामग्री जो भक्ति वैराग्य भानादिक श्रु भगुरा-
 जिन को सदगुर विषै देश के अधिकारी जन आप के चित्त संधा-
 रन करै औ श्रुति स्मृतियुक्ति प्रभु भव इस करि सपन्न श्रीसद्गु-
 रूस्वामी श्रीगरीबदास जी का स्वरूप धारिके हरियाणो देश में प्रग-
 ट होता भया ॥ ५ ॥ दोहा ॥ अधिकारि प्ररु विषय फल असुबहु विधा
 संबंध ॥ ये ह्यारि वेदांत के पुनया के अनुबन्ध ॥ ६ ॥ टीका ॥ अधि-
 कारी विषय प्रयोजन औ संबंध ये च्यारी वेद का अंत भाग उपनि-
 षद रूप का वेद का अन्त कहीयो निर्णय सूत्र भाष्य रूप जो वेदांत
 शास्त्रता के अनुबंध हैं ॥ औ इस गंथ कें उक्त वेदांत शास्त्र का प्र-
 करण रूप होने तें सो इ च्यारी अनुबंध रस गंथ के विषै है या तें इन
 अनुबंधो के जानने विना विवेकी पुरुष की गंथ विषै प्रवृत्ति होवै न ही-
 या तें च्यारी अनुबंध गंथ की आदि विषै अवश्य कहे चाहिये - उक्त च्यारी अ-
 नुबंधन का विस्तार सैं निरूपण सूत्र भाष्य आदिक संस्कृत गंथन विषै

किया है। जो वीतिन अनुबधनका से क्षेपण है यह कथन है ॥ अस्ति
 क्षेपदोषरहित औ अज्ञानरूप आवरण दोषरहित औ विवेकवैत
 म्य औ समदम उपरति तिक्षा ॥ अस्माधानरूप यद्दसपति औ
 सुसुक्ष्मता इन चारि साधन करी संसुक बो हो वैशोरस सधम
 धिकारि है ॥ स्वर्गादि फलकी प्राप्ति करणे हारे काम्य कर्मकला
 ग करे तैसे नस्कादि विषयकी प्राप्ति करणे हारे हिंस्यादि निषेध कर्म
 कात्याग करे पूरु कर्षण रहित निष्काम कर्म करे निष्काम कर्म
 के पूरुने स्वरके नामोका जप वास्तुति आदि परम धर्मरूप है निष्काम
 कर्म जप करि के सयुक्त पुरुष विचार के योग्य है ॥ आत्मानित्ये हे औ
 आत्मासै भिन्न अनात्मारूप जो जगत्त सो अनित्ये हे एसा जो
 ज्ञान सो विवेक कहिये है ॥ इस लोकके औ परलोकके
 भोग त्याग सो वैराग्य कहिये है — ॥ विषयन तै मनका
 निमह शम है औ विषयन तै इन्द्रियनका निमह दम है
 औ त्याग किये विषयमें फेर देरि के वीतीने ईच्छा का अभाव सो
 उपरति है या ही क उपराम वीकहे है ॥ शीत उष्ण क्षुधा तृषा
 आदि इंद्रका जो सहन सो तितिक्षा है ॥ औ वेदान्तशास्त्र अरु ज्ञान
 उपवेष्टागुरुत्वे वाक्य विषे जो परम विश्वास सो धर्मा है ॥ औ
 स्वरूप लक्ष्य विषे जो चित्तकी एकामता सो समाधान है यद्दस्य सै
 यतिकहि औ क्षुधा तर प्ररुष जैसे अनक इच्छा है तैसे सर्व अनर्थ
 की मित्रि औ परमानंदकी प्राप्तिरूप जो मोक्षताकी जो तीव्र इच्छा
 सो सुसुक्ष्मता है इसरीति सै निष्काम कर्म सै जा कामल दोषन

योहै तहां श्रुतितमेतं वेदानुवचननेया श्रुतिनैविधानकरेजोअं
 तःकरणकी श्रुद्धिवास्तैयभदानादिक धर्महैता धर्मकेमध्यवि-
 षैसंख्याकरिकै अथवाअंगोकरिकै अत्यंतस्वल्पजो धर्मभगवत्
 केआराधनवास्तै अनुष्ठानकरिहै सोस्वल्पधर्मभीया अधिकारीपुरु
 षरूजन्ममरणरूपसंसारके महानभयतैरक्षाकरेहै- औअजपा
 आदिक उपसनासैजाका विक्षेपदोषनष्टभयोहै औ तत्वज्ञानसै
 नाशहोनेयोग्यजोअज्ञानदोषसोजाका अवशेषरहाहै औ उक्त्या
 रीसाधनकरिकै संयुक्त जो पुरुषहै सो अधिकारिहै यह सिद्धभया
 तिसतैअनंतर श्रवणमनननिधिध्यासनतत्त्वपदकेअर्थकासोध
 नयेअज्ञानकेसाधनहैं- विवेकादिकांका श्रवणसैफलहै श्रवण
 दिकाकाज्ञानसैफलहै विचारसैतौज्ञानकेसाधनतत्त्वससिआदिस्
 ह्वाक्यहैं श्रवणादिकनहींकाहेतैयुक्तियोसैवेदांतवाक्यनका-
 तात्पर्यनिश्चयश्रवणहै जीवब्रह्मकैअभेदकीसाधकभेदकीवाध
 कयुक्तयोसैअद्वितीयब्रह्मकाचिंतनमननहै अनात्माकास्वृत्तिकेव्य
 वधानरहीरब्रह्माकारस्वृत्तिकीस्थितिनिदिध्यासनहैवश्रवणादिबु
 धिकेजोदोषअसंभावनाविपरीतभावनातकेनासकहैं असंभावनासं
 शयकोकहेहैं विपरीतभावनाविपर्यकोकहेहै- वेदांतवाक्यअद्विती
 यब्रह्मकेप्रतिपादिकहैं- वाऔरअर्थकेप्रतिपादकहैं यहप्रमाणसैसं
 यहै ताकोश्रवणदूरकरेहै जीवब्रह्मकाभेदसत्यहै वाअभेदसत्य
 है यहप्रमेयसैसंसयहै ताकोमननदूरकरेहै जीवब्रह्मकाभेदस
 त्यहै औदेहादिसत्यहै इसकानामविपरीतभावनाहै सोईविपरी

यहैतिसकृन्निदिध्यास्तनद्वरकरेहै इसरीतिसेंअसभावना
 विपरितभावनारूपजोज्ञानकेप्रतिवधकहै ताकेनासहारा-
 श्रवणादिभानकेकारणहै औभानकेसाक्षात्साधनवे-
 द्योतवाक्यहै तिनमेंप्रत्यक्षभानकेसाधनश्रोत्रसवधीसह्यभा-
 व्यहै-औरपरोक्षज्ञानकेकारणअवातस्वाक्यहैब्रह्महै यहप-
 रोक्षज्ञानहैमैब्रह्महैयहप्रत्यक्षज्ञानहैऔजीवब्रह्मकीएकत-
 याग्रयकाविषयहैऔकार्यसहितसुलभविचारूपजोसर्व-
 अनर्थताकीअस्यंतनिवृत्तिऔपरमानंदरूपब्रह्मकीप्राप्तियह
 शक्यज्ञानहैसुखप्रयोजनहैऔअवातरप्रयोजनज्ञानहैजिस-
 विषेपुरपकीइच्छाहोवैसोसुखप्रयोजनकहियेहैपुसासोक्ष-
 हैऔसुखप्रयोजनकासाधनहोवैसोअवातरप्रयोजनकहिये
 हैपुसाज्ञानहैऔग्नेयकाअरुब्रह्मकाप्रतिपाद्यप्रतिपाद्यकभ-
 वसंबंधहैइनसेआदिदेकेऔरबीअनेकप्रकारकासंबंधग्रं-
 थमेंलिखाहैसोतद्दोपदेवै-येसक्षेपतेँस्परीअनुबंधनव
 कथनकिपातिनकूजाधिकेजिज्ञानुजनग्रथकाअभ्यासक
 औतिसहाराभानरूपायकेपरमप्रयोजनमोक्षरूपावेदो
 अनुबंधयुतदेधिकेपठेचगुत्तेमयातेइतसनरसहजहीरु
 मोक्षकोपथ५इहंगुरुशब्दकायहअर्थहै-गुमपरेकावाचव
 हैरुप्रकाशकावाचकहैयातेतमरूपअभानरूनिवर्तकरित
 प्रकशरूपब्रह्मरूजोप्राप्तकरैसोएरुहैफेरसोएरुकेसादेदि
 यन्निवृत्तिसेंपचप्रकारकाभेदप्रतीतहोवैहैतार्कयन्त्रियोसैदि

सोपंचभेदयहहैं- जीवईश्वरकाभेद १। जीवनका परमप्रभेद २।
 जीवजडकाभेद ३। ईशजडकाभेद ४। जडजडकाभेद ५। परंपरातै
 भेदका कारण अज्ञानता अज्ञानकी निवृत्तिविनाभेदकी निवृत्ति
 अज्ञानहिकारणकी निवृत्तितेकार्जकी अर्थ निवृत्तिवनेहै जैसे नि-
 द्राक्षते स्वप्नमें जीवईश्वरका १ जीवका प्रसप्र २ जीवजडका
 ३ ईशजडका ४ जडजडका ५ भेदप्रतीतहोवैहै जैसे निद्राकी नि-
 वृत्तिसै स्वप्नगतसर्वभेदनकी निवृत्तिहोवैहै तैसे अज्ञानकी निवृ-
 त्तिसै सर्वभेदकी निवृत्तिवनेहै। ईश्वरके सद्मसगुरुसै भक्तिकरै-
 श्रुति-यस्येदेवंपराभक्तिर्यथादेवतथागुरौ तस्यैतेकथितास्यथा
 प्रकाशतेसहात्मनः अर्थ यहजिस अधिकारिपुरुषकी परमात्मा
 देवविषेपरमभक्तिहै औरजैसी परमात्मादेवविषेपरमभक्तिहैतै
 सैहिगुरुविषेपरमभक्तिहै तिस अधिकारिपुरुषकेबुधिविषेहीय
 हशास्त्रप्रतिपादितअर्थप्रकाशमानहोवैहै- श्रुति-ब्रह्मविद्वुसैव-
 भवतिअर्थ यहब्रह्मज्ञाननेहारापुरुषब्रह्मरूपहोवैहै श्रुतिवि-
 षेब्रह्मतोपुरुषं ब्रह्मरूपताकहीहै- श्रुति- ब्रह्मवित्परमाप्रोति
 अर्थ यहब्रह्मवित्पुरुषब्रह्मभावहंप्राप्तहोवैहै ६ ब्रह्मवेत्ताब्रह्म-
 रूपहैताकी वारणीवेदकेसंगहै भाषारूपवासंस्कृत रूपहोवैवा
 भेदकी निवृत्तिकरैहै जैसे विषवा अस्तसंस्कृतवा भाषारूपकी
 सी वारणीसंगहरणकरे फलदायकहोवैहै तैसे जिज्ञासुसर्वीरिति
 सैगुरुकी सेवाकरै जबगुरुसिहैं तबदेउकी न्याई प्रनासकरै पदिव-
 तीर्थतयचरनाकी रजसी सप्रधारितनसन धनमें लक्षणदिने क

आकीसेवाकासहात्मसर्वसाधनोसैंउसमहिंसोइदिषावेहैं शु
 ते-आत्मभस्वचयेवृत्तिकासः अर्थ यहइसलोककेतथापर
 होकेकेधनपुत्रदिकपदार्थकीकामभावालाजोसकामपुत्रपहै
 सोसरीस्करिकेतथाधमकारिकैब्रह्मदेताभापीपुरुषकीसेवाक
 रतासेवाकरिकैसर्वसुनवाञ्छितपदार्थतिसपुरषकंप्राप्तिहोवैहो
 निष्कामपुत्रअभक्तकरकीसुहिद्वाराभानकंप्राप्तयेवैहैपरीकस
 क्वादिक्तेष्वनकीसिरपरउरोधरयोरसीनिहृद्येभिसैपौहचैतवत
 हृत्तर१ सतवक्तासहात्माकेचरणकीधूरीसैंमलनामकपापहै
 सोबुरहोवैहै सभाषणसैविधेपकीनिवृत्तिहोतीहैकृपाहृष्टितेप्र
 भानकीनिवृत्तिकरैहैबहुतकालकेसाधनतुरतहीप्राप्तकरैहै
 सत्तलछनगरीचसाहिषजिनकेउरबसैकूठकपतनहिभगतिन
 कदर्शनमानैहैकहोप्रभीफिरयंग१ श्रीभगवानबहुतनकेभ
 ववधनदहैप्रगटनामभेरोरुहैनित्यजनकोममसरनेल्पावैसदा
 जातैंआपछिपावै-हंकारममतानईभानैमोहछोडहुमानहीज
 निगुणातीतभाननकेपाछैयहतनधारफिरोसैआछैसातिकर
 याधारियेहेदेहकरोरुहताषसननषेइभगतिफरगरीबसाहिष
 सतीचतोसेतीप्यारजिनकूसकावैनहींधर्मरायदरवार१ जी
 सैनिष्कामपुरुषसत्ताकीस्मरणकंप्राप्तभयेजोजनसोमोक्षके
 अधिकारीहै॥सका॥सर्वपुरुषनकूविषेकीइचबहिमोक्षके
 नहीउत्तरपुरुषघारप्रकारकेहैमुक्तविषयीपामरविज्ञासुमुक्त
 तकृत्यहैकर्वच्यरहितहैस्वइच्छातैविचारतैंकछुकारजसिध

धनहीं पासस्वइच्छयाअनुसारजोपरधनपरस्त्रीचोरीजारीसद्य-
 सासनियेधकर्ममेंप्रवृत्तिहोवैसोपामरहैंतिनकोग्नेधमेंअधि-
 कारनहींविषयीआत्मकेअनुसारधनपुत्रसकामकर्ममेंप्रवृत्तहैं
 तिनमेंकिसीकीप्रवृत्तिहोवैहैवहुतकीनहीऔअसेपुरुषजि
 ज्ञासुहैंजिनेनेविचारकियाहसउत्तमसुषकंप्राप्तहोवैसोउत्त-
 तमसुषकोनहैसुषवर्णनसर्वपृथीमेंनिसकंठकराजतिसने
 अधिकवासमानकोइहैनहींसर्वतिसकीअज्ञामेंवर्तेशरीरकर
 कैविद्याकरकैतिसकेसमानअधिककोइनहींआपसर्वसैंअधि-
 कहैंजिसकंकिसीकाभयनहींयहमनुष्यसुषकाअंतहैपरंतुम
 नवगंधर्वकंचूपतैंसौगुनसुषहैदेवगंधर्वकंचतीनसेसौगुनहै१००
 तिनतेपित्रनकं१००अजानदेवमेंजितने१००कर्मदेवमें१००सु-
 ष्यदेवमें१००सर्वकेअधिपतिइंद्रमें१००देवगुरुबृहस्पतिमें
 १००प्रजापतिमें१००ब्रह्मामैंसोइन्काअर्थइसवर्त्तमानक-
 ल्पविषैसनुष्यइवापुरण्यफलकेविशेष्यभेदतेगंधर्वपनेकंजोप्रा-
 सभयाहैंसोमनुष्यगंधर्वकहियेहैंपूर्वकल्पविषैकियेपुरण्यतैं
 इसवर्त्तमानकल्पकीआदिविषैहिजवगंधर्वभावहोवैसोदेवगं-
 धर्वकहियेहैंअपनेलोकविषैचिरकालपर्यंतवासकरनेहारेकं
 पित्रकहैंहैंकल्पकीआदिविषैहीजोदेवभावकंप्राप्तभयेहैंसोअ-
 ज्ञानदेवताकहियेहैइसवर्त्तमानकल्पविषैअश्वमेधआदिकक-
 र्मकंकरकेसहतअश्वमेधयुक्तस्थानकंपायकेजोअज्ञानदेवमें
 सेव्यहैसोकर्मदेवकहियेहैंयमअपिवांसूर्यचंद्ररुद्र११प्रा

दिव्यभरअष्टवसुइद्रवृहस्पतिब्रह्मायेइसुख्यदेवकहियेहैं ॥
 रकरिकेदेघियेतोयेजोसुषहैवेसर्वदुषीहैकाहेतेइवादिअसु
 थाकारुकेभयतैकपायमानहोवैहैसर्वतेअधिकअस्पाकीभासु
 सोवर्षकीहैऔराकीक्याकहैतीसतेबहुतन्यूनहैबहुतभोग
 सिकाजोसुषहैसोताकेन्यसतैस्योगनअधिकदुषकीप्राप्तिहै
 तातेभोगदुषरूपहैप्राप्तिकारुमैवीनासकेभयतैदुषरूपहैजैसे
 जितनेउचेसोउगोउतनाहिवुखहोवैहैतैसेभोगामैजानिस्म
 जोविचारिकरैतोसकलदुषकाकारणसरीरहैसरीरकाधर्मअ
 धर्मतिसकाविहितनियधतिसकारागदेषतिसकाभलाबुर
 मकाहैततिसकाकारनअज्ञानहैसोअज्ञानकर्मउपासनातेपा
 होवैनही॥सोभानतेपासहोवैहैसोभानकीप्राप्तिगुरुकरहै।व
 त्रशिष्यनकूसस्यरसैपाररुघावैहैऐसेविचारकरघाहैजिनेमेसो
 मषकेअधिकारहै इतिथीविचारप्रकाशेमगलसहितअबुक्थ
 चतुष्टयअधिकारिविशेषकथननामप्रथमप्रकाशसमाप्त ॥
 अथद्वितीयप्रकाशप्रारभः ॥ दोहा ॥ गुरुगणपतिनामिसम-
 सारदकूउरपर इष्टदेवकोध्यानधस्वरनोस्वरूपविचार ॥ १
 एकसदाहीअपदजोअस्तिभातिप्रियरूप आदिअतजोकेनही
 सोइइमारोस्वरूप २ अनेकशिष्यसुसुधिसतिसाधनचकसपु
 कचस्नसस्नगुरुकेगहेधारहियेनिजमुक्त ३ टीका, बहुतज
 तमपुरुषभानकीभिभासावारेसतगुरकीसरनरूपप्राप्तिभ्ये॥सि
 ष्यरीतिसेभाभामेंइतिनकू निस्वतागुणसहितदभरहितअसै

धिकेश्रीसतगुरुदयालुताकरके प्रकृतभये किसनमित्तुसाराभ
 वनाहैतदशिष्यअपनाअभिप्रायकहैकै ॥ शि० ॥ दोहा ॥ ब्रह्मप्रा-
 प्तिचहैहमअरुनिवृत्तिअज्ञानसोऽकृपाकरभाषिये ॥ भानसहेस
 स्मान दृष्टीका हे भगवन्हमदुषरूपअज्ञानकीनिवृत्तिऔसुषरू
 पब्रह्मकीप्रापतीकंचहैहै आपसर्वकेअंतर्यासीहोभानमेंशिवके-
 समानहोहमअज्ञानकरकेदुषीहै। श्रीगुरु दोहा ब्रह्मरूपतहै
 सदासतचिदानंदरूपतमस्वरूपतोमेंनहीं यहसिध्दांतअनूप
 टीका। हे शिष्य परमानंदकीप्राप्तिमेंजनममरणादिकदुषरूपसं-
 सारताकीनिवृत्तिमेंतेरेकें इच्छाभ्रंतिसें उत्पत्तिभईहैतं भाप पर
 मानंदरूपहै ताकीप्राप्तिकीइच्छावनेनहीं जोवस्तु नप्राप्ति
 होवै ताकी इच्छावनेहै अपनास्वरूपसदाप्राप्तिहै ताकी
 प्राप्तिकीइच्छाविनाभ्रंतिवनेनहीं जन्मतेआदिलेके संसार
 रजोक्वाचितहोवैतोताकीनिवृत्तिमेंइच्छावने जनमादिकें संसार
 तेरेमेंहै नहीं अनहूवेदुषकीनिवृत्तिमेंइच्छाविनाभ्रंतिवनेनही
 हे शिष्य जन्मनासते रहितसच्चिदानंदब्रह्मत्तहै जन्मादिकक्वा-
 भयमतकरहे भगवन्मेरा आत्मा आनंदरूपहोवै तो विषयके सं-
 वंधते आनंदका आत्मा में भाननही होवै जाते आत्मा आनंदरूप
 नहीं याते विषयके संवंधसें आत्मा में आनंद होवै है हे शिष्य
 आत्माते बुधिजाकी विमुषहै ताकूं विषयकी इच्छाहै भोगका सा-
 धनहोवै सो विषयहै तासे पुत्रधन आदिक वीजागले रोगताकी इच्छा
 ते बुधिचचलहोवै है चंचल बुधिसें आत्मस्वरूप आनंदका प्राप्ति

विषयों से नही जाकर प्रकृत्या ही वे सोचा प्रति होय जावे तब पुरुष की बुद्धि
 विद्वत्त्व स्थापित होय के वृत्ति भातर्तुष होवे है अतर्तुष बुद्धि में आत्मस्वरूप
 आनन्द का प्रति विवहो वे है अतम स्वरूप आनन्द के प्रति विवहू अतुम
 करके पुरुष के भ्रम होवे है भिरे कु विषयते आनन्द प्राप्त हुआ है विषयों
 नद है नही जो विषयों में आनन्द होवे तो एक विषय से तृप्त पुत्र्यदुस
 से विषय की इच्छा तब प्रथम विषय से आनन्द हुआ है हिये हातान ही
 अत की सीति से स्वरूप आनन्द का भान वने नही दूसरे विषय की इच्छा
 करके बुद्धि चंचल है तसे प्रति विव वने नही जो विषय में आनन्द होवे
 तो जा पुरुष का को अत्यंत प्यास च इतकारु पिछे मिले ताके विद्वे
 ही प्रथम जो आनन्द होवे के स्सदान ही होवा सो सदा हुआ चा हिये -
 आनन्द करण जो प्यारा पुरुष सो पास ही सिद्धांत की सीति से प्रथम
 ही आनन्द वने है सदान ही वने याते प्रकवेरी प्यास के देषिके वृत्ति स्थि
 त रहे वि है अतर्तुष द्विसरे पदार्थ में रुग ज्ञावे इस्ते चंचल है याते पदार्थ
 से आनन्द नही जो विषय से आनन्द होवे तो समाधि में जो आनन्द का भान
 होवे है सो न हुआ चा हिये समाधि में कोई विषय है नही औ समाधि
 के तृष का यो पीछे आनन्द होवे है औ स्तून ही औ च्युप्ति के तृष का अ
 त्भव सर्व रूप है जो विषय में आनन्द होवे तो त्वष्टुप्ति में आनन्द का भान
 न हुआ चा हिये तृषुप्ति में कोई विषय का योग नही औ आनन्द है यते
 अतम स्वरूप आनन्द का तारे भान होवे है जैसे जितनी सीता इ सर्व प
 दार्थ में है सो एद सक रकी है स्वते किसी में नही तै तो जितने आनन्द
 है सो सर्व भात्याके आनन्द वारे होवे है ॥ शि० ॥ जैसे अशाकी चिरी

तिकहीतैसैंशानीकीहैवानही॥श्री॥यासैइतनाभेदहैअशानीवि-
 षयमेंसृषजानेहै ज्ञानीआत्मसृषजानेहैशानीकूंविषयमेंसमा-
 धिहैइसवाक्यसैंबहुतविषयमेंडिगजातेहैशानकाआश्रलेकेचितके
 प्रमादसैंभ्रष्टरूवेहैयातेअभिप्रायनहींसमजतेसदाप्राप्तिसृषरूप
 ब्रह्मकूंछोडेकेकदावितप्राप्तिहोनेवाले,विषयकाअभ्यासनहींकर
 नायहतात्पर्यहै जैसैं घरकादूधमलेछुकेपात्रमेंपुरषपानकरेतिसकूं
 ज्ञानीरहेदुसरेतिसकीनिंदाकरेहैतैसैंस्वरूपसृषविषयमेंजोअ-
 नुभवकरैताकूरुनीनिंदाविनाऔरफरुनहींहेभ०आत्माआनंदस्वरू-
 पहैविषयनमेंसृषनहींयहवार्त्तासत्यहैपरंतुजन्मनिवृत्तिकीइच्छा
 सृषमेंहर्षदुषमेंद्वेषपानपानकीइच्छामेरेनइंचाहियेजोवस्तुनहींहो
 वैसोससेश्रृंगंध्यापुत्रआकासकेपुथकीन्याइंप्रतीतहोवैनहींहैशि०
 जातेआत्माअनंतहैजन्ममरणस्थूलसरीरकेधर्महैक्षुधापिपासा
 प्राणोकाधर्महैयेषट्उरमीतनही औतेरीनहींदेसकालवस्तुहृत
 परिछेदतेरहितकूंअनंतकहेहैंब्रह्मरूपआत्माकूंश्रुतिमेंव्यापक
 कहेहैयातेसोदेसकृतपरिछेदतेरहितहैसोअनित्यवस्तुकाकाल
 तैंअंतहोवैहैआत्मानित्यहैयातैकालकृतपरिछेदतेरहितहैऔ
 आत्मासर्वरूपहैयातैवस्तुकृतपरिछेदतैरहितहैपरिछेदनामअंत
 काहैआत्माअषंडरूपहैजोआत्मासैंप्रतीतहोवैसोअध्यासतै-
 प्रतीतहोवैहैभ०अध्यासकाउपादानकारण१निमित्तकारनस्वरूप
 ३फल४अविधिपांचक्याहैसोकहोश्रीगु०उपादानकारनअ
 विद्या१निमित्तकारणपूर्वजन्मकेसंस्कार२अनात्मसरीरादिकमें

त्वद्विधात्मासैभवात्त्वद्विधात्माकेधर्मअवात्मसैभवात्त्वकेध
 मिभात्मासैयहअध्यासकासरूपहैअन्तरागसषडुषआदिसंसार
 येफठप्रवसेरेतेहमारान्तर्यहैजीयतेहमाराजीवनाहैइत्नीधन
 केनासतेहमारान्तर्यहैधातुविषेसैअभेदद्विधियेअविधिअभो
 जंकासनअध्याससैचचलूहप्राणकाअध्यासवधरुग्यानइंद्रिसै
 अध्यासमृषीदुषीहंसनसैअध्यासयाहिगसरीरकाअध्यासस्याम
 जूगीरुह्येस्थलसरीरकाअध्यासधनप्रवस्त्रीहाराभोत्सवधिया
 सैअध्यासब्रह्मायाहाप्रियवेश्यभद्रयेसर्वकार्यअध्यासहैसक
 अध्यासकेस्वरूपसैआत्माअनात्मापरस्परमिलेआत्माकामा
 सअनात्माहोणेदेवाअनात्माआत्माहोणेतेहैतसोअनर्हीहोवैबी
 उन्नजिसकीस्वेतसतासतरूपहैपराधिनजाकीस्तार्हैसोकल्पि
 तरूपहैअन्तरपातेरेरूपप्रतीतहोवैहैसोदिषावैहैजनमादिक
 प्रसार्थसैहैनर्हीताआत्माकाब्रह्मरूपकेअभानसैमिथ्याप्रतीतहो
 वैहैजैसेमेंधर्वनगसीपीमैरूपाडुठमैचोररज्जुमैसर्पप्रसार्थसैहै
 हीमिथ्याहैतैसेजन्मादिकदुषमिथ्याप्रतीतहोवैहैसकाजैसे
 रज्जुमैसर्पमिथ्याहैतैसेआत्मासैप्रपचदुषमिथ्याहैदृष्टातकेअन
 विनादृष्टातकअभानहोवैनर्हीकैसेसर्परज्जुमैभासेहैदृष्टातसेप्रप
 कायहअभिप्रायहैअसतव्यातिआत्मव्यातिअप्यथाव्यातिअव्याति
 भर्मकीदोरचारसतसुनेहैतिनसैवत्तसहोइसोसावृत्तपचारि
 यहसतहैजेवरीदेससैसर्पअत्यतअसतहैअनदेससैअत्यतअ
 सतहैअत्यतअसतसर्पकीजेवरीदेससैप्रतीतहोवैहैयाकृश्र

सतव्यातिकहेहै अत्यंत असतसर्पभानओकथनविभानवादीका
 यहतात्पर्यहै जेवरीसैवाअन्यदेसमैबुधितेवाहरीसर्पनहीसा-
 रेपदार्थबुद्धिसैभिन्ननहीसर्वपदार्थनकेआकारकेबुद्धिधोरहै
 सोबुधिछिनकभानरूपहैछिनछिनमेंनामउत्पतिक्रियाप्रहोवै
 हैजोविज्ञानसोईसर्परूपप्रतीतहोवैहैयाकूंआत्मव्यातिकहे
 हैआत्महियेछिनकविज्ञानरूपबुद्धिताकासर्परूपसैव्यातिकहि
 येभानओकथनहैन्यायकायहअभिप्रायहैदोषसहितनेत्रसैजे
 वरीकानिजरूपतेज्ञाननहीसर्पसैभानहोवैहैसोइसतेजेव-
 रीकाअन्यथाक्याओरप्रकारसैसर्परूपसैव्यातिक्याभानओकथ-
 नहैअव्यातिवादिकायहअभिप्रायहैअसतकीप्रतीतीहोवै-
 तोबंध्यापुत्रससभृंगकीप्रतीतिइईचाहियेइसतेव्यातिअ-
 संगतछिनकविज्ञानआकारसर्पादिकहोवैतोछिनमात्रसैअ-
 धिककारप्रतीतनहीइईचाहियेतातैआत्मव्यातिअसंगतसेप्र-
 केअनुसारज्ञानहोवैहैजेयरज्जुसर्पकाज्ञानकहेतेहैविरधहै
 यातैअन्यथाव्यातिअसंगतअसीरीतिमानस्यीयोग्यहैजहा
 रज्जूसैसर्पधमहैरज्जूसैनेत्रकाअपनीवृत्तिहरासंबंधहोकेरज्जु
 काइंदरूपसैसामान्यज्ञानहोवैहैसर्पकीस्मृतिहोवैयहसर्पहैइ-
 हांदोज्ञानहैयहअंसतोरज्जुकासामान्यज्ञानप्रतक्षहैसर्पहै
 अंसैसर्पकास्मृतिरूपज्ञानहैयहसर्पहैयेदोज्ञानहैअयदोष
 प्रमातासैतिमरदोषप्रसारणसैताकेबलसैपुष्पकैसाविवेक
 नहीहोताजोमेरेकूंदोज्ञानहैयहअंसरज्जुकासामान्यज्ञानय

र्थ है प्रथमदेपेसर्वकास्मृतिज्ञानयथार्थ है तो वीमेरेकूदेज्ञान
 पेहें पञ्चाज्ञाननहीतिसदोज्ञानकेअभावकू संशयप्रभाकर
 तमें भ्रमकहै है उग्रघहच्यारुमतजुक्तीहीनहै जैसेअस्थाति
 निरूपरगमेंतीनमतअसगतहै तैसेअव्यातिमतभीअसगत
 है यहसपिहै याज्ञानमेंप्रथमयहअसतोरज्जुकासामान्यज्ञान
 नप्रत्यक्षहैऔसर्पइतनाअसपूर्वदृष्टसर्पकास्मृतिज्ञानहै यह
 अव्यातिवादीकामतहैताहाप्रबृष्टसर्पकास्मृतिज्ञानसमेस
 सुधरज्जुदेपमेंसर्पकाज्ञाननहींमानेतीसचुधरज्जुतैपरपक
 भयहोयकेठरुटाभांगेहैसोभयभागनानहीचाहियेपार्तेसनु
 परज्जुदेसमेंहीसर्पकीप्रतीतिहोवैहै पूर्वदृष्टिसर्पकीस्मृति
 नहीरज्जुकाविशेषरूपतेयथार्थज्ञानहैइतैअनेतरअसावा
 धहोवैहैमेरेकरज्जुमेंसर्पकीप्रतीतिमिथ्याहोतीभईयथा
 तैरज्जुमेंसर्पकीप्रतीतिहोवैहै पूर्वदृष्टिसर्पकीस्मृतिपरीबह
 सर्पहै यहज्ञानपकहीप्रतीतिहोवैहैवोनहीएककालमेंअत
 करणतिस्मृतिरूपऔप्रत्यक्षरूपदोज्ञानहोवैवीनहीवातैअ
 तिमतअसगतहैसिधातमेंअनिर्वचनीयरत्वातिहैताकीय
 हरीतिहैअतकरणकीवृत्तिनेत्रद्वारानिकसकेविषयकेसा
 मान्यभाकारकूपामहोवैहैतातैविषयकाआवरणभगहोयके
 ताकीप्रतीतिहोवैहैतहाप्रकाससहयकहोवैहैप्रकासविना
 पदार्थकीप्रतीतिहोवैनहींजहारज्जुमेंसर्पभ्रमहोवैहैतहाअत
 करणकीवृत्तिनेत्रद्वारानिकसिभिरज्जुसेजाकासंबंधीहोवैहैति

मरादिकदोषप्रतिबंधकहै यातै रज्जूके समानाकारबृत्तिकासर
 पहेवैनही यातै रज्जूका आवरणनासैनही यातै आवरणभंगकानिमि
 त्तबृत्तिकासंबंधतै जवरज्जूका आवरणभंगहोवैनही तवरज्जूचे
 तनमें स्थितअविद्यामेंक्षोभहोयके सोअविद्यासर्पाकारपरिणा
 मरूपप्राप्तहोवैहै सोअविद्याकाकार्य सर्प सत होवै तो रज्जूके
 ज्ञानतै ताकाबाधहोवैनही- बांधहोवैहै यातै सतनही असत
 होवै तो बंध्यापुत्रकीन्याईप्रतीतिनही होवै प्रतीति पातै असतन
 हीसत असतसैं विलुछन अनिविचनीयहै सक्ति आदिकनमें
 पादिकभीयाहिरीतिसैं अनिर्वनीय उत्पन्नता अनिवचनीय
 की जोरव्यातिकहिये प्रतीति ओकथनसो अनिर्वचनीयथा
 तिहै आभाससहित अंतःकरणकी बृत्ति इंद्रियद्वारा निकसके
 घटादिविषयकंप्रकासहै तैसैं अभाससहित बृत्तिरूपतिनका
 ज्ञान तथा अभाससहित अंतःकरणरूपज्ञाता इनतीनोंकंसाक्षीप्र
 कासहै यह घटहै अभाससहित बृत्तिसे घटभावप्रकासहोवैहै मघट
 कंजानहै इसरीतिसैं मैसब्दका अर्थज्ञाता जेयघटताका ज्ञानया
 त्रिपुटीका साक्षीसैं प्रकासहोवैहै या प्रकारतैं सर्वत्रिपुटीयोंके
 ज्ञानमें साक्षीका ज्ञानअवश्यहोवैहै अंतःकरणउपहितचेत
 नसर्पके ज्ञानका अधिष्ठानहै रज्जूउपहितचेतनसर्पका अ
 धिष्ठानहै इसपक्षमें भिन्नकहै अब एककहैहै रज्जूउपहित
 नज्ञानका अधिष्ठानवैनही वाह्यहोरोतै अंतःकरणउपहि
 तचेतनसर्पका अधिष्ठानवैनही अत्रहोणेतै इसतैं सर्पऔ
 ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकनही तथापिह-

श्चकेसमीपप्राप्तजोअतःकरण इत् माकारवृत्तितामैस्थितचेत
 नकेअधितअविद्यासर्पकारज्ञानाकारपरिणामरूपप्राप्तहोवै
 वृत्तिउपहितचेतनमैस्थितअविद्याकात्तमोगुणअससर्पक
 उपादानहै ताहीमैस्थितसत्वगुणअससर्पकैज्ञानकाउपादानका
 रणहै सर्पताकैज्ञानकावृत्तिउपहितचेतनअधिष्ठानहैवृत्तिर-
 ञ्चद्वेसमैवाहरगईयातैवृत्तिउपहितचेतनवीवाहरहैइसतैसर्प
 काअधयवनेहैजितनाअतःकरणकास्वरूपहोवैउतनाहीसा-
 धीकभस्वरूपहोवैहैसरीस्केअतरस्थितजोअतःकरणसोईवृत्ति
 रूपपरिणामरूपप्राप्तहोवैहैयातैवृत्तिउपहितचेतनसाहीहैइस
 तैज्ञानकाअधयवनेहै रञ्जुकाजबसाक्षात्कारहोवैतवरञ्जुके
 तनवृत्तिचेतनदोनूएकहोवैहै यातैरञ्जुकैज्ञानतैसर्पभोताकै
 ज्ञानकीनिवृत्तिभीवनेहै जहाएकस्जुमैदसपुषनरूपकिसीरूप
 पिकिसीरूडउकिसीरूमाताकिसीरूपध्वीकीदरारकिसीरू
 जलपाराइसरीतिसैभिन्नभिन्नप्रतीतिहोवैहैवासर्वरूपसर्पहीप्र-
 तीतिहोवैतहांजापुषकरंरञ्जुकासाक्षात्कारहोवैहैतकीवृ-
 त्तिचेतनमैकल्पितअध्यासकीनिवृत्तिहोवैहै जाकरंरञ्जुज्ञान
 नहीहोवैताकैअध्यासकीनिवृत्तिहोवैनीयातैवृत्तिचेतनहीक-
 ल्पितकाअधिष्ठानहैरञ्जुआदिकविषयउपहितचेतननहीजोर
 रञ्जुउपहितचेतनरूपसर्पटंडादिकनकाअधिष्ठानमनिवोदसपु-
 षनरूपप्रतीतजोहोवैदसपुषदार्थसोएकरककसपेप्रतीतइए
 चाहियेहमारीरीतिसैतौजाकीवृत्तिचेतनमैजोपदार्थकल्पित-

है सो वाही कं प्रतीत होवै अन्यकू नहीं इसते वाह्य सर्पीदिति नकै-
 ज्ञानका वृत्ति उपहित साछी अधिष्ठान है स्वप्नके पदार्थनका तिनके
 ज्ञानका भी अंतःकरण उपहित साछी ही अधिष्ठान है पा प्रकार स-
 त असंत सैं विलुछन जो अनिर्वचनीय अविद्याका परिणाम अवि-
 वचनीय सर्पीदिक तिनकी जो व्यातिक हिये प्रतीति औ कथन-
 सो अनिर्वचनीय व्यातिक हिये है तै सैं जाग्रतके पदार्थ तिनका
 ज्ञान दोनों साथ ही उत्पन्न होवै है साथ ही नष्ट होवै है यह वेदका सि-
 धांत है जाग्रतके पदार्थ दुसरी जाग्रत में रहै है सो बने नही संकास
 प्रते जागे पुरुषकू भेसा ज्ञान होवै है जो पूर्वपदार्थ थे सो ई यह पदार्थ
 है ताते ज्ञानते प्रथम है ज्ञानके नासते अंतर बी रहे है उत्तर जै सैं स्व-
 प्रके पदार्थ तिस छिनमें उत्पन्न होवै है असे प्रतीत होवै है मेरे ज-
 नम सैं बी प्रथम उपजे हैं पर्वत गंगादिक तत कारु उपजे पदार्थ में चि-
 रकाल स्थिरताका भ्रम होवै है जिस अविद्यासैं मिथ्या पर्वतादिक उ-
 पजाये है तिसी अविद्यासैं चिरकाल स्थिरता पुन स्थिरताकी प्रतीति अ-
 निर्वचनीये उपजे हैं तै से जाग्रतके पदार्थनमें विबहू दिन स्थिरतां हे
 नहीं केवल अविद्यासैं मिथ्या स्थिरतावी तिन पदार्थनके साथ उ-
 पजे कैं प्रतीत होवै है संका स्वप्नके पदार्थ साक्षात् अविद्याके परिणाम
 सैं जाग्रतके सर्वपदार्थनका अपने कारणते नष्ट होवै है केवल
 अविद्यासैं नहिं जो साक्षात् अविद्याके प्रणाम होवै तो अकाशादिक
 क्रमते पंचभूतनकी उत्पत्ति तिनते पंची कर्णितिनते ब्रह्मांडकी
 उत्पत्ति वेदमें कही है सो असंगत होवी गीयाते ईश्वर सृष्टि जाग्र-
 तके पदार्थ-

अपने उपादानके परिणामहै स्वप्नके सारे पदार्थ अविद्याके
 परिणामहै तिन पदार्थकी तीनके ज्ञानकी एक अविद्यासे एक
 कालमें उत्पत्ति सबवैहे जाग्रतके पदार्थभिन्न कारणते उप-
 नहोवैहे कार्यते प्रथमकारणहोवैहे पुनकारणमें वृत्तकाल
 यहोवैहे जैसे घटकी उत्पत्तिसे प्रथमघटके नास्ते पिछे मृत्ति
 रहेहै पूर्वउक्तसेवैहे पदार्थ अल्पकालस्थिस्थनकोई अधिकक-
 लस्थिस्कार्जकारणहै तैसे स्वप्नही उत्तरजामतके पदार्थकी
 न्याइस्वप्नके पदार्थनमें भी कार्यकारणभावप्रतीतहोवैहे जैसे
 सैकिसी गऊहीन दूधस्त्रीहीन दूध ऐसा स्वप्नहोवैहे सैकिसी गऊवै-
 क्वमहवाहै वामेरीस्त्रीके पुत्रहवाहै गऊस्त्रीमें कारणताओ-
 चिरकालस्थाइताप्रतीतहोवैहे वत्सओपुत्रमें कार्यता अल्प
 कालस्थिरताप्रतीतहोवैहे सारेसमकालहोवैहेकोईकिसी
 काकारणकार्यनहीकाहेते गऊवत्सस्त्री आदिकनका अवि-
 द्याही उपादानहै तैसे जामतमेंवीकोई अधिककालस्थाइक-
 रणरूपतेकोई अल्पकालस्थाइकार्यरूपतेप्रतीतस्वप्नकी
 न्याइहोवैहे कोईकिसीकापरस्परकार्यकारणनहींसाशा-
 त् अविद्याकेकार्यहैं औरवेदनेजे क्रमते सृष्टिकहीहै सो
 सृष्टिप्रतिपादनमें वेदका तात्पर्यनहीं अहेतबोधनमें अभि-
 प्रायहै सारे पदार्थ परमात्मासे उपजेहै सोताके विवर्तहै पर-
 मात्तामें अनिर्वचनीय जगतपुनतिनका ज्ञानरूपमओ-
 प्रध्यासकहैहै सोधम अविद्याका परिणामहै चेतनका विव-
 र्तहै उपादानकारणके समान स्वभाववाला अ-

अन्यथास्वरूपपरिणामकहियेहै पुनअधिष्ठानतेविरीतस्वभाव
 वालाअन्यथास्वरूपपरिणामकहियेहैउपादानकारणअविद्या
 सोअनिर्वचनीयहैतैसेंपरमात्तामेंप्रपंचऔताकाज्ञानभीअनि
 र्वचनीयहै इसतैंचैतनमेंप्रपंचऔताकाज्ञानअविद्याकेसमा
 नस्वभाववालाअन्यथास्वरूपकहियेअविद्यामेंऔप्रकारकहोवै
 सोअविद्याकापरिणामहै तैसेंअधिष्ठानचेतनसेंविपरीतस्वभाव
 वालाअन्यथास्वरूपकहियेचेतनतेऔरप्रकारकायहविवर्त
 हैजोजाकाबिबर्तहोवैसोताकाहीस्वरूपहोवैहै यातैसारानामस्
 पब्रह्मतेपृथक्नहीब्रह्महीहै इसअर्थबोधनकरनेकूं सृष्टिकहीहै
 सृष्टिकाऔरप्रयोजननहींताक्रमकाजोकथनहैसोस्थूलदृष्टिवा
 लकूंविपरीतक्रमतेलयचिंतनकेनिमित्तहैताकाबीअद्वैतबोध
 हीतात्पर्यहैतातैक्रमकथनमेंअभिप्रायनहींसृष्टिमैक्रमहैनहि
 सारेपदार्थअविद्यासेंउपजैहैंतिनकापरस्परकार्यकारणभादृपू
 र्वउन्नभावअविद्याकृतस्वप्नकीन्याइमिथ्याप्रतीतहोवैहैवेद
 सेतिनकीआपसमेंकार्यकारणतापूर्वउन्नताकहियेहैसोह्यजि
 तनकेनिमित्तकहीहै यातैसारपदार्थअविद्याकाकार्यहैसुक्ति
 रजतकीन्याइअविद्याकीबृत्तिउपहितसाक्षीतेतिनकाप्रका
 सहोवैहैइसीतेसारपदार्थसाक्षीभाष्यहैं ज्ञानकारिऔज्ञेयाकारअ
 विद्याकापरिणामएकहीकालमेंउपजैहै साथहीनष्टहोवैहैइसी
 तेजवपदार्थकीप्रतीतिहोवैहैतवहीप्रतीतकाविषयपदार्थहोवैहै
 अन्यकालमेंनहीहोवैइसकूं दृष्टिसृष्टिकहैहैयापक्षमेंपदार्थ
 कीअज्ञातस-

ज्ञानही स्वतःसा है वेदांतमें यह सिद्ध प्रपक्ष है अनात्म पदार्थ सा
 रे स्वप्न की न्याई प्रतीति भासिक है प्रतीतकारुसै भिन्नकारुसै भिन्न
 तमसतानही पापछर्मै सारे पदार्थ साक्षी भाष्य है प्रमाता प्रमाणक
 विषयको ईवीनही इसीते अतः करण इन्द्रियतैसै घटादिक सारी
 विपुटीका ज्ञान स्वप्न की न्याई एककारुसै उपजे है तिन विषय विष-
 यी भाववनेन ही नो घटादिक विषयनेत्रादिक इन्द्रिय अतः करणये
 ज्ञानते प्रथम होवे तोनेत्रादिक द्वारा अतः करणकी वृत्ति रूपस्य
 न प्रमाण न्यन्य होवे सो अतः करण इन्द्रिय विषयती नो ज्ञानके स-
 मकारुही स्वप्न की न्याई विपुटी उपजे है इसीति विपुटी ज्ञान
 को ईवीनही तौ विज्ञानमै स्वप्न की न्याई विपुटी ज्ञानता प्रतीत हो-
 वे है इसीते जाग्रतके पदार्थ साक्षी भाष्य है ताते स्वप्नके समान
 मिथ्या है सका जाग्रतमें कितने पदार्थन कूमि ध्वारूपकके दे-
 वे है कि सी कूसतरूपकके ज्ञान है ये आदिकारुके पदार्थ है तौ
 नोमैको ईनास होवे है तिनके समानको ई उत्पन्न होवे है प्रपंच
 धाराका कदे उच्छेद होवेन ही जिस कूरान होवे है तिस कूर प्रतीत
 होवेन ही बुसरा कूर प्रतीत होवे है ज्ञानके साधन बिद गुरु है तिनते
 प्रपंचत्वकी प्राप्ति होवे है असी प्रतीति जाग्रतमें होवे है तहा कि
 सी पदार्थमै मिथ्यापनाकी सीमेनासकी सीमे उत्पति गुरु है त-
 ते प्रमपुसार्थकी प्राप्ति उत्रये सारी अविद्याकृत स्वप्न की न्याई
 मिथ्या है असे अज्ञत इतिहास वाशिष्ठमै कहै है छिणमात्रके
 स्वप्नमे चिरकारु प्रतीत होवे है जाग्रतकी न्याई स्वप्न पदार्थ प्र-
 तीत होवे है तिनोते चिरकारु भोग होवे है ताते जाग्रत पदार्थकी स्त-

प्रतेरिन्द्रादिविरुधरातामहीतात्यययहै आत्मातेभिन्नसर्वमिथ्या
 हैअविद्याकेपरिणामचेतनमेंनानाविवर्तहोवैहै तातेप्रात्मा
 कीरिचकसात्रविहानीनहींआत्मासदाअसंगअकरसहैपीछे
 कोईमुक्तिइवानहींआगेहोवैनहींसिद्धांतयहहैचेतननित्यमुक्त
 हैअविद्याताकेपरिणामकाचेतनमेंकिसीकालमेंसंबंधनहींइस-
 तेसंबंधवेदगुरुश्रवणादिकसमाधिमुदाइनकीप्रतीतिस्वप्नकी
 नाईअविद्याजन्यमिथ्याहै संकाजगतमिथ्याहै ताकाआधार-
 अधिष्ठानकौनहैउत्तरमेंब्रह्मरूपनहींइसअज्ञानतेमिथ्याजगत
 प्रतीतहोवैहै मिथ्यापदार्थसैंमिलकेप्रतीतहोवैसोसतास्मानअ-
 रहै सोअधारहैअसंगकूटस्थनित्यमुक्तव्यापकतादिजानेतेमि-
 थ्याप्रतीतिकाविषयनहींहोवैसोअधिष्ठानहैसोत्तहैहैभ०येकब्र-
 ह्म सैहैतकैसैप्रतीतहोवैहैजैसेरजैसेयेकचंद्रमामेंमंददृष्टिकर
 केदोप्रतीतहोहैहैतैसेअज्ञानकरकैहैतप्रतीतहोवैहैहै भ०अकाररू-
 हितब्रह्मसैसकारकसैदीषैहै उत्तरजैसेअकासमेंगंधर्वनगदीषैहै
 ओंनहिंकवित्ततुठकाहैचोरजोईमार्तनकदेकोईभलीवातसैतास
 कूंविचारकरजानियेरज्जकमसर्पजोईकाटतनकदेकोईरज्जुकू-
 विषसहितकविनाहिमानिये शक्तिमेंरजितजोईशक्तिहैस्वरू-
 पसोईतासमेंजोघाटवायकैसैकरजानियेतैसेब्रह्ममेंजगतजोई
 ब्रह्महैस्वरूपसोइतातेभिन्नतीनकालनहींमानिये॥६॥संकाद्रष्टाको
 नहैउत्तरजिस्मेंकल्पितसोद्रष्टाहैसाक्षीसैसर्वकल्पितहैसोसाक्षी
 द्रष्टाहै दोहा सतचित्तआनंदयेकजोरहोसकलघटप्रसासा-

क्षीमिब्रह्महृन्हीनिरेनदूर ७ इतिधीविचारप्रकाशोव्यातिनिरूपन
 सहितजगतकमअत्यताभावकथननामद्वितीयप्रकाशसमाप्त २
 अथद्वितीयप्रकाशाप्रारभ्यते दोहा स्वरजसमपवपकजधरू सज
 एरुकोध्यानज्यूभासुहरततमसदाग्ररुहरतभसान॥१॥कवित्त
 प्रथमगकारजोईरणरूपनानोसोईतासहीकेमाहतमहेसहीन
 मानिये बुतियेस्कारजोईसर्वमैरम्योहेसोईतासहीकेमाह ससे
 रिसहीमठानिये त्रितीयेवकारजोईब्रह्महेस्वरूपसोईतासही
 केमाह भेदकिचितनजानियेदासनकेईसजोईदासहे गरीबसो
 ईकरंतसकोप्रणामसोरीनितमानिये २चौपडी॥ सिष्यस्मृह-
 भयेचहृधोरीकरिहेपरिणामसुठअषकोरीनन्मादिससारहेजो
 ईआपनिवारोभयवनसोई॥३॥प्रथमशिष्यडपरामहोयेदेषके
 चारूओरतेआयकेप्रथकरतभयेगरीबजन्मसरणतोऊठहे-
 त्वभविचरोम्यानविस्नुमहाभारतकीयाहत्यायेकनपरान ४
 टीका प्रथमगकारअक्षस्कायहअर्थहेज्ञानस्वरूपहेशिष्यकेज्ञान
 नकेअर्थप्रकटभयेईरकास्कायहअर्थहेसर्वमैरम्योजोहेचैतन
 जीसेंमएक्यामैडोरव्यापकहेतैसेनामरूपमैव्यापकहेयहर
 कारकाअर्थहेवकारस्कायहअर्थहेब्रह्मस्वरूपहेसर्वमैव्यापक
 सगातिविजातिसुक्तभेदरहितकान्मव्यापकहेब्रह्मनामव्याप
 ककोहेदेसतैशाकाअतनहीहोवैसोव्यापककहियेहेतासेआ-
 न्यानोभिभदोवैतोदेसतैअतवारुहैविगाजाकादेशतैअतहोवै
 ताकाकारुसैबीभतहोवैहैयहनियमहेतातैअनित्यहोवैयावा-

का काल सैं भंत हो वै सो अनित्य कहिये है या तैं ब्रह्म सैं आत्मा भि-
 न्न ही आत्मा सैं भिन्न जो ब्रह्म हो वै तौ अनात्मा हो वै गा जो अ-
 नात्मा घटा दिक है सो जड है या तैं आत्मा सैं भिन्न ब्रह्म वी जड
 ही हो वै गा या तैं आत्मा सैं भिन्न ब्रह्म वी न ही ब्रह्म स्वरूप आत्मा-
 है अक ही चैतन सर्व प्रपंच माया का अधिष्ठान है या तैं ब्रह्म क-
 हिये है अविद्या व्यष्टि देहादिक न का अधिष्ठान है या तैं आत्मा क-
 हिये तत्पद कारुक्ष ब्रह्म कहिये है ईश्वर साक्षी तत्पद कारुक्ष
 है जीव साक्षी त्वं पद कारुक्ष है व्यष्टि संघात उपहित चेतन जीव
 साक्षी है समष्टि संघात उपहित चेतन ईश्वर साक्षी कहिये है यद्य
 पी जीव ईश्वर की एकता बने न हिं तथा पी जीव साक्षी ईश्वर साक्षी
 का उपाधिकै भेद सैं भेद है स्वरूप सैं एक ही है जै सैं मठ सैं स्थित
 जो घटा का समठा का सति न्ह का उपाधिकै भेद बिना स्वरूप सैं
 भेद न ही जन्म मरण तो रूब है जन्म इस पद का यह अर्थ है अत्मा ब्र-
 ह्म का उपाधि भेद बिना भेद न ही एक ही वस्तु है सो ब्रह्म रूप अत्मा ज-
 न्म रहित है जो आत्मा जन्म अंगीकार करै तौ अनित्य हो वै गा सो
 वार्ता परलोकवादी जो आस्तिक है तिन कूं इष्ट न हीं काहे तैं जो आ-
 त्मा इत्यति ना सवान हो वै तौ प्रथम जन्म विषै पूर्व कर्म किये बि-
 ना ही स्रष्टृष का भोग कृत हा नि अकृत प्राप्ति दोष अंगीकार कर-
 ना हो वै गा ॥ आत्मा का जन्म तो अंगीकार करै तौ हेतु सैं विना तो
 किसी वस्तु का जन्म हो वै न हिं या तैं किसी हेतु सैं ही जन्म कहना हो वै
 सो बने न ही जो आत्मा का हेतु है सो आत्मा सैं भिन्न ही कहना हो वै

गासो आत्मासै भिन्नसंपूरण आत्मासै कल्पितहै यातें भातप्रकृत
 नुषनेनहीं जैसे रज्जुसै कल्पित सर्प रज्जुकाहेतुनहीं तैसे आ-
 त्मासै कल्पित वस्तु आत्माकाहेतुहोवै सोबनेनहीं जैसे एकर
 रज्जुसैनानाघरषनकूदउसर्पपृथ्वीरेषाजलधाराकी भातिहोवै
 हेतुभातिमें दो असहै एकतो सामान्यइदंअसहै एकसर्पादि
 कविशेषअसहै सोसामान्यइदंअससर्पादिविशेषअसनसै
 रिव्यापकहै यहसर्पहै यहवृद्धहै यहपृथ्वीकीरिवाहै यहजल
 कीरेषाहै यारीतिसै सर्पादिकविशेषअसनमें इदंअससारे
 पकहै सोव्यापकसामान्यइदंअसरज्जुस्वरूपहै तासामान्य
 वेअसकेज्ञानहीकी भातिकाहेतुरज्जुकासामान्यज्ञानकहै तै
 सामान्यइदंअससत्यहैकाहेतैरज्जुकाज्ञानइदंअसैअज्ञान
 इदंअसकीप्रतीतिहोवैहै जैसे भातिकाठसै यहसर्पहै यारीति
 सै सर्पादिकनसै मिठकेइदंअसकीप्रतीतिहोवैहै तैसे भातिका
 निवृत्तिसै अनतरवी यहरज्जुहै यारीतिसै रज्जुकेसाथमिठके
 इदंअसकीप्रतीतिहोवैहै जोइदंअसवीमिथ्याहोवैतोसर्पादि
 नकीनाई भातिकीनिवृत्तिसै अनतरसाकीबीप्रतीतिनहीं
 अहिषेयतेसर्पादिककी भातिसै व्यापकजोइदंअससोसत्यहै
 रस्यस्त्वभिचारिजोसर्पादिकसोकल्पितहैतैसेसर्वपदार्थमें
 पांचअसहै नामरूपओअस्मितथाभातिओप्रियघटयहदोअस
 स्नामगोरुरूपघटहै यहअस्तिघटप्रतीतिहोवैहै यहभातिघट
 प्रियहै यहअनेदसर्पादिककीसर्पनीआदिनकूं प्रियहैयति

पदार्थनमैपांचअंसहैंतिहविषैअस्तिभातिप्रियरूपतिनीअंसस
 येपदार्थनमैव्यापकहैंनामरूपव्यभिचारीहैंजोवस्तुकहूंहोवैकहूं
 नहोंहोवैसोव्यभिचारीकहियेहैघटनामघोररूपपटविषैनहीहैप-
 टनामताकरूपघटविषैनहीहैयारीतेसैंसर्वपदार्थनविषैनामरू-
 पअंसविभीचारीहैंअस्तिभातिप्रियरूपसर्वविषैअनुगतहैंजैसैं
 सर्पदंडादिकनसैंअसंगतइदंअंससत्यअधिष्ठानरूपहैतैसैंसर्व
 पदार्थनमैंअधिष्ठानअनुगतअस्तिभातिप्रियरूपसत्यहैअधिष्ठा-
 नरूपहैसर्पदंडादिकनकीनोईव्यभिचारीनामरूपकल्पितहैंसो
 अस्तिभातिप्रियसतचितआनंदरूपहैंयातैंआत्मास्वरूपहैयारी-
 रितिसैंसतचितआनंदरूपआत्माविषैसंस्पर्णनामरूपप्रपंचकल्पि-
 तहैसोकल्पितपदार्थकोईआत्माकेजन्मकाहेतुबनैनीयातैंआ-
 त्माअजन्माहैजावस्तुकाजन्महोवैताहिकेसताबुद्धिपरणामअ-
 पक्ष्यविद्यासरूपयहपांचविकारहोवैंहैंआत्माकोहोवैनीया-
 तैंउत्तरपांचविकारबीहोवैनीइसरीतिसैंजन्मादिषटविकारसैंर-
 हितआत्माहैसतानामप्रकटताकाहैअपक्ष्यानामघटनेकाहै-
 सोआत्माअसंगहैसंगनामसंबंधकाहैसंबंधसजातीयविजाती-
 यस्वगतपदार्थसैंहोवैंहैंजैसैंघटकाघटसैंसंबंधहैसोसजातीयसैं-
 संबंधहैघटकापटसैंजोसंबंधसोविजातीयसैंसंबंधहैस्वगतनाम-
 अवयवकाहैयातैंपटकातंत्रसैंजोसंबंधसोस्वगतसैंसंबंधहैआ-
 त्मादोअथवाअनंतहोवैंतौसजातीयसैंआत्माकासंबंधहोवैंसो-
 आत्माएकहैयातैंसजातीयआत्मासैंआत्माकासंबंधनीआत्मा-

सौं विजातीय अनात्मा है सो मृगतृसनाके जरूकी नाई आत्ममै क
 स्थित है ताक स्थितसै आत्माका सब धवने नही जैसे मृगतृसनाके
 जरूसें पृथ्वीका सब धवने नही जो सब धवने तौ ऊपर भूमिता
 जरूसें गीली हुई चाहिये जैसे मृगतृसनाके जरूसे ऊपर भूमिका
 संबंधनही तैसे आत्मामें क स्थित जो विजातीय अनात्मा तैसे
 आत्माका सब धनही जो आत्माके अवयव होवै तो आत्माका स्व
 गतसै सब धवने सो आत्मानित्य है याते निरवयव है ताक स्थ
 यतसै सब धवने नही यारी तिसै सजातीय विजातीय स्वयत
 सब ध आत्मा विषय नही याते असग है कर्मके निषेधते सर्व कानि
 षेध है जन्मते अनंतर सर्व अर्थ प्रतीत होवै है जन्म नही तो कर्म
 नही जनम सरन तो फल कहिये मिथ्या है ब्रह्म कहिये स्मरुके ता
 त्यर्प विचारो मगत मेरे मैं नहि ब्रह्म मैं नही मैं सत चिदानंद ब्रह्म
 रूप हूँ जैसे निश्चैकानाम ज्ञान है सोई सोक्षका साधन है सो सचिद
 नंद परस्पर भिन्न नही भेकरी है जो आत्माके गुण होवै तौ परस्पर
 भिन्न ही होवै सो आत्मस्वरूप है याते भिन्न नही एक ही आत्मा
 निवृत्ति रहित है याते सत कहिये है औ जडसै विलक्षण प्रकाश रूप
 है याते चित कहिये है औ हृषसै विलक्षण सुरत्य प्रतीति कविप
 य है याते भानंद कहिये है जैसे उद्या प्रकाश समुअग्नि है तैसे सचि
 त् आनंद रूप आत्मा है सच्चित् आनंद रूप ही शास्त्रसै ब्रह्म क
 हा है याते ब्रह्मस्वरूप आत्मा है विश्व भगवान जो कृष्ण रूप है सो
 अर्जुन रूप आत्मा जन्म रूप ते रहित बोधन करे है निवृत्ति दत्त

णिनै नंदहतिपावकः नचैनं क्लेदं यत्पापो न शोचयति मारुतः हे
 र्जुन इ स आत्मा क्लं स्वडगादिकशस्त्रभी नही छेदन करे है आत्मा क्लं
 अग्निभी दाहनही करे है आत्मा क्लं जलभी नही गाल सके है आत्मा
 क्लं वायुभी नही शोषण करे है हे अजुन जैसे रवडगादिक तीक्ष्ण प
 त्त्वस्थल शरीर क्लं छेदन करे है जैसे इस आत्मा क्लं ते तीक्ष्ण शस्त्र
 भी छेदन कर सक्ते नही जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि शरीर क्लं भस्म
 करे है तैसे सो प्रज्वलित अग्नि आत्मा क्लं भस्म कर सके नही-
 जैसे अत्यंत वेगवाला जल शरीर क्लं गीला करके ताके अवयवों-
 की शिथल तारूपके छेदन करे है तैसे सो अत्यंत वेगवाला जल
 भी आत्मा क्लं के छेदन कर सके नही जैसे अत्यंत प्रबल वायु शरीर
 दि को क्रान्तिरस तारूप शोषण करे है तैसे सो अत्यंत प्रबल वायु भी
 आत्मा को शोषण कर सके नही अछेद्यो यमदाहो यमक्तेद्यो शो-
 ष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थायणश्च लोयं सनातनः हे अर्जुन आ
 त्मा अछेद्य है आत्मा अदाह्य है अक्लेद्य है अशोष्य है आत्मानित्य
 है सर्वगत है स्थायण है अचल है सनातन है हे अर्जुन जिस कार
 ण तै आत्मा छेदन करे क्लं अशक्य है तिस कारण तै आत्मा क्लं
 स्वडगादिक शस्त्र छेदन कर सक्ते नहिं जिस कारण तै आत्मा दा
 ह करे क्लं अशक्य है तिस कारण तै आत्मा क्लं अग्नि दाह कर स-
 क्तानही तिस कारण तै आत्मा क्लं जलके छेदन करे क्लं अशक्य है तिस
 कारण तै आत्मा क्लं जलके छेदन कर सक्तानही जिस कारण तै
 आत्मा शोषण करे क्लं अशक्य है तिस कारण तै आत्मा क्लं
 वायु शोष-

एकरीसकानही विसुमहाभारत कियारहत्यायेकनप्राणइसवा
 स्यकायहवात्यर्यहै आत्माकीअसगतादिषावेहैनजायतेमि
 यतेवाक्त्वाचिचायभ्रत्वाभवितात्वानभय अजोनित्यःशाश्वतो
 यपुराणोनहन्यतेहन्यमानेशरीरेहेअर्जुनयह आत्मादेवनही-
 जन्महैनहीमेरेहै आत्माकत्वाचित्भीपूर्वनहीहोईकस्किपुनःअ
 पतिमाननहीहोवेहै किसकारणतेआत्माअर्जेहैनित्येहैशाश्वत
 हैपुराणहैमिसाआत्माशरीरकेहननइएभीनहीहननहोवेहैज
 भ्रमअस्मिदृष्टिविपरिणामअपक्षयविनाअयहषट्भावविकार
 शास्त्रविषेकथनकरेहैतिनषट्विकारोविषेआद्यकेजन्मरूपवि
 कारकाअतकेन्यशरूपविकारकाभीभयवान्स्वहनकरेहैनग्रय
 निद्रिवतेवेतिहैअर्जुनयेहआत्मादेवजन्मकंप्राप्तहोवेनहीआत्म
 वेभीभीकालविषेपूर्वनहीहोईकेपश्चात्उत्पतिवाहाहोतान
 जोपदार्थपूर्वनहीहोईकेपश्चात्होवेहैसोपदार्थहीउत्पत्तिरूप-
 विक्रियाकंप्राप्तहोवेहैजैसेघटादिकपदार्थपूर्वनहीहोईकेपश्चा
 त्होवेहैयातेतेघटादिकपदार्थउत्पत्तिरूपविकारवाहेभीहै
 अत्मातोपूर्वकालविषेभीविद्यमानहैआत्माउत्पत्तिरूपविकार
 कंप्राप्तहोवेनहीयाकारणतेआत्माअर्जेहैआत्माभरणरूपवि-
 ष्मरूपभीप्राप्तहोवेनहीआत्मापूर्वकालविषेविद्यमानहोईके
 क्वचित्भीअंतरकालविषेअविद्यमानहोवेनहीजोपदार्थपू
 र्वकालविषेविद्यमानहोईकेअंतरकालविषेनहीविद्यमानहो
 वेहैसोपदार्थहीभरणरूपविकारकंप्राप्तहोवेहैजैसेघटादि
 कपदार्थपूर्वकालविषेविद्य- ११- 5^०

मानहोइकैउतरकारुविषेअविद्यमानहोवैहैंयातैंघटादिकपदा
 र्थनाशरूपविकारकूंभीप्राप्तहोवैहैआत्मातौताउतरकारुविषेभी
 विद्यमानहैयातैंआत्मासरणरूपविकारकूंप्राप्तहोवैनहीयाकारण
 तैआत्मानित्यहैक्याविनाशहोनेकेयोग्यनहीहैइहानजायतेम्रियते
 वायवचनकरिकैआत्माकेजन्मसरणकेअभावकीप्रतिज्ञाकरै
 कदाचिन्नायंभ्रत्वाभवितावानभ्यःयावचनकरिकैताप्रतिज्ञाका
 उपपादनकराअजोनित्यःयावचनकरकैताप्रतिज्ञाकाउपसं-
 हारकराजन्मादिकषट् विकारोंविषेजन्मरूपजोआदिकाविकार
 रहैसरणरूपजोअंतकाविकारहैतिनदोनोविकारोंकेनिषेध
 करिकैयद्यपितिनदोनोविकारोंकेमध्यवर्तितिनदोनोविकारों
 केव्याप्यजोचरिविकारहैंतिनोकानिषेधहोइसकैहैइहानहीकथ
 नकरैजोगमनआगमनादिकविकारहैंतिनसर्वविकारोंकेनिषे
 धकेजनांवरेश्वासतैश्रीभगवान्अपक्षबृद्धिदोनोविकारोंकाशा
 श्वतपुराणयादोनोशब्दोंकरिकैनिषेधकरैहैशाश्वततहंआत्माकूं
 तस्थतारूपनित्यतावालाहैयातैंआत्माकास्वरूपतैअपक्षयहो
 वैनहींआत्मानिर्गुणहैयातैंआत्माकागुणतैभीअपक्षयहोवैन-
 हींयाकारणतैंआत्माशाश्वतहैजोवस्तुअपक्षयअपचयतैरहित
 हुवासर्वकालविषेविद्यमानहोवैतावस्तुकाज्ञानशाश्वतहैअसा
 आत्माहीहैशंकोहेभगवनआत्माअपक्षयकूंनैमत्प्राप्तहोवैतौं
 भीबृद्धिकूंकिसवास्तेनहीप्राप्तहोवैरेसीअर्जुनकीसंकाकेइरभ
 वानकहैहैंपुराणहैअर्जुनआत्माइसतैपूर्ववीनवीनविधाकेइइस

कालविषे आत्मानवीन भस्वाकू प्राप्त भयन ही याते आत्मा पुरु
 हि तात्पर्य यह है सर्वकाल विषे आत्मा एक रूप है शालोक विषे
 सोपदार्थ किसी उपचय रूप नवीन भवस्याकू प्राप्त होवे है सोपदा
 र्थ ही वृद्धि कू प्राप्त होवे है जैसे मरीरादिक पदार्थ हैं आत्मा तै सर्व
 काल विषे एक रूप है हियाते आत्मा अपचय कू उपचय कू प्राप्त होवे
 त ही साकन सणते आत्मा वृद्धि कू प्राप्त होवे न ही म्वरादिक रोगो काल
 जो मरीरके भवयवो की क्षौराता है ताकन तस अपचय है मनादिको
 के भक्षणाकस्के मोगरीरके भवयवो की वृद्धि है ताकन तस उपचय है
 अस्ति विपरीणा तस यह दोनो विकार जन्य ना भवा दोनो विकारो के अ
 तस भूत है याते तिन दोनो विकारो का पृथक् निषेध कसुन ही ताज
 म्मरण्यके निषेध करिके अस्ति विपरीना म्पा दोनो कनिषेध भी जानते
 सण है अर्जुन जिसकारण तें आत्मा जन्मादिक सर्व विकारो तै रति है
 पित्तकारण तें या मरीरके हृन्न रू रभी ता शरीरके कल्पित स्वभा
 रू रभी आत्मा किसी भी रणायकस्के हृन्न कू प्राप्त होवे न ही म
 सेषरूप उपाधी के नाश की रभी आत्मा शकना म् होवे न ही तै से व
 हादिक उपाधियोंके म्पा रू रभी आत्मा क्ना म् होवे न ही श्रुति
 अविनाशी ववारेय सात्मा अर्थ यह है मैत्रेया आत्मा विनाश तै रति
 म् है पूर्वय एने वेति इतारण्य लोक विषे नाय हति म् हन्यते या क
 म् करिके आत्मान ही ती किसीके हृन्न करता है न ही किसीके
 निके हृन्न होत है म्पा म् करकी प्रति साकरी थी तहा आत्मा किसी
 म् करिके भी हृन्न न ही होत है या प्रति साकरी थी पूर्व लोक विषे वि

तार्तै उपपादनकरा अब आत्मा किसी कूं भी हनन नहीं करता है या प्रतिज्ञा का उपपादन करता है आ श्री भगवान् पूर्व प्रसंग का उपसंहा-
 रक रहे है वेदा विना शिने नित्य पर न मज्ज मव्ययं कथने सुपुरुषः पार्थ
 कं घातयति हंतिके हे पार्थ जो पुरुष आत्मा कूं अविनाशी रूप अजर
 प अव्यय रूप जाने है सो पुरुष किस कूं हनन करे है किस प्रकार क
 रिके हनन करावे है किंतु सो पुरुष न किसी कूं हनन करावे है किस प्र
 कार करिके हनन करावे है किंतु सो पुरुष किसी कूं हनन करावे है विना स
 होशे कानही है स्वभाव जिसका ता कूं अविनाशी कहै है असा विनाश
 रूप अंत विकार तै रहित जो आत्मा है ताके अनाशी पणे विषे हेतु कहै है
 अव्यय नहीं विद्यमान है अवयवों का अपचय रूप गुणों का अपचय रू
 प व्यय जिस विषे ताका नाम अव्यय है या लोक विषे पटादिक पदार्थों
 का तंतु आदिक अथयवों के अपचय करिके तथा रूपादि गुणों के
 अपचय करिके विनाश देषने विषे आवै है अत्मा तो निरवयव होने तै
 अवयवों के अपचय तै रहित है या तै आत्मा देव का कदाचित भी विना
 श संभवन ही यह अनुमान सिद्ध भया आत्मा अविनाशी होशे कूं यो-
 ग्य है अव्यय होशे तै जो पदार्थ अविनाशी नहीं होवै है सो पदार्थ अव्य
 य भी नहीं होवै है जैसे परादिक पदार्थ हैं शंका है भगवान् अत्मा वि
 नाशी होशे कूं योग्य है जन्य होशे तै घटादिकों की न्यडिया प्रकार
 जन्यत्व हेतु करिके आत्मा विषे विनाशी पणे का अनुमान भी होइ
 सकै है असी अर्जुन की शंका के निवृत्त करणे वास्ते श्री भगवान्
 आत्मा विषे ता जन्यत्व हेतु की असिद्ध कथन करे है अज जो कदा
 चित भी जनम कूं नहीं प्राप्त होवै ताका नाम अज है औ-

सावन्नरूपयादिविकारवैरहितभात्प्रतामजपसोविषेहेतुकहैनि
 त्यसोसर्वकारुविषेविद्यमानस्यैकैकानामनित्यहैयासोकेविषेजोप
 दार्थपूर्वनहींविद्यमानहोवैतापदार्थकाहीजन्मदेवसेविषेअवैहैनेसे
 घटपदादिकपदार्थअपणीवत्यतिर्तेपूर्वनहींविद्यमानहैएहीअन
 जन्मकूप्राप्तहोवैहैआत्मातोसर्वकारुविषेविद्यमानहैसातेआत्माक
 कदप्रविवभीजन्मसमभनहींपाकरणेकरिकैयहअनुमानसिध्दभया
 आत्माअन्तैरहितहीनेकूयोगवैहैपित्यहोरोवैजोपदार्थजन्मतेरहि
 तनहींहोवैहैसोपदार्थनित्यभीहोवैहैनेसेघटादिकपदार्थअथवा
 अविनाशीयापककरिकैवापतैरहितसत्यवस्तुकाग्रहणकरनित्य
 मासन्दकारिकैसर्वत्रव्यापकवस्तुकाग्रहणकरणाताकेविषेहेतुके
 हैअथअव्ययजन्मतेरहितवस्तुकाग्रमभव्यहैयालोकविषेजोपद
 र्थव्यतिमानहोवैहैआत्मानहोवैहैसोपदार्थसत्यरूपसर्वत्रव्यापक
 हैविनहींसैवत्यतिशयअनघटादिकपदार्थसत्यरूपनहींहैसर्वत्र
 व्यापकभीनहींहैआत्मातोव्यतिनासतेरहितयातेआत्मासत्यरूप
 हैसर्वत्रव्यापकहैयाकरणाकरिकैयहअनुमानसिध्दभयाआत्मा
 अविनाशीनित्यहोरोकूयोगवैहैअथअव्ययहोरोतेजोपदार्थअ-
 विनाशीनित्यनहींहोवैहैसोपदार्थअथअव्ययमानहीहोवैहैनेसेघट
 दिकपदार्थहै १ सप्रकारअविनाशीरूपनित्यरूपअनरूपअव्यय
 रूपजोआत्माहैताआत्मादेवकूजोपदार्थरूपरूपकेउपदेशहैने
 जन्मादिकसर्वविकारोतेरहितहैअधिआदिकसर्वपदार्थकप्र
 कृतकहैसर्वहैतप्रपचैरहितहैतथापस्मानव्येधरूपहैयाप्रका

रसाक्षात्कारकहै तोविद्वानपुरुषकिसीकूं भीहननकरतानहीं
 किसीप्रकारकरिकेभीहननकरतानहीं सोविद्वानपुरुषकिस
 कूंहननकरावैहै किसीप्रकारकरिकेहननकरावैहै किंतुतोविद्व
 नपुरुषकिसीकूंभीहननकरावतानहीं जन्मादिकसर्वविकारोतैं
 रहितकर्त्ता पणैतैरहित जोपुरुषविद्वानहैंताविद्वानपुरुषकूंताहन
 नरूपक्रियाविषेसाक्षत्कर्त्तापणाप्रयोजककर्त्तापणासंभवैनहींशु
 तिआत्मानंचेद्विजानीयादपसस्मीतिपुरुषः किमिच्छन्कस्य-
 कामायाशरीरमनुसंज्वरेत् अर्थ यहविद्वानपुरुषजबीपरिपू-
 र्णअद्वितीयब्रह्ममेंहू याप्रकारआत्माकूं जानैहै तबयहविद्वानपु-
 रुषकिसवस्तुकीइच्छाकरताइआकिसकेप्रयोजनवास्तैयाश-
 रीरकूं संतापकरैगा किंतुनहींकरैगा सुध्दआत्माकेजानणेहोरेवि-
 द्वानपुरुषविषेकर्त्तृत्वभोक्त्तृत्वआदिसंसारकेअभावकूं बोधनक-
 करैहै तात्पर्ययेहैं सुध्दआत्माकेजानकरिकेयाविद्वानपुरुषके
 अज्ञानकीनिबृत्तिहोवैहै ताअज्ञानकेनिबृत्तइरण्यअहंममअध्यास
 कीनिबृत्तिहोवैहै ताअध्यासकेनिबृत्तइरण्यरागद्वेषादिकोंकीनिबृत्ति
 होवैहै तारागद्वेषादिकोंकेनिबृत्तिइरण्यकर्त्तृत्वभोक्त्तृत्वआदिकों
 कीनिबृत्तिहोवैहै इसप्रकारआत्माकाज्ञानहींसर्वअनर्थोंकेनिबृ-
 त्तिकाकारणहै इसश्लोकविषेश्रीभगवानकायहअभिप्रायहै वास्त-
 वतैं विचारिकरिकेदेखियेतौ यहआत्मासर्वविकारोतैंरहितहैयातैं
 कोइभीकिसीवार्थकूं करतानहींतथाकरावतानहीं यहसूदपुरुषप्र-
 ज्ञानकेवशतैंस्वप्नकीव्याईआपणेआत्माविषेकर्त्तृत्वादिकधर्मजाने

है पहवात्तो अभीतौ नविजानीयत्तः श्रुतिध्यायतिक्लेषायतीव अर्थ-
 पहवात्तवतैसर्वविकारोतैरहितपहभात्मादेवशुद्धिरूपव्यभिचि-
 त्वाध्यानकरेहैतबीध्यानकरताकीन्याइप्रतीतिहोवैहै शुद्धिरूपव्यभि-
 चित्तबीचछायमानहोवैहै तबीचछापमानहूएकीन्याइप्रतीतिहोवै
 है इसीकारणतैसर्वशास्त्रभविदानअधिकारिकैषास्तेहीकथन
 करेहै विदानपुरुषकेवास्तेकोईभीशास्त्रहैनहींसोविदानपुरुष
 तौआत्मज्ञानकस्किअज्ञानरूपमूळसहितअध्यासकेनिबूतइ
 एभात्माविषेकर्तृत्वादिकमानतानहींजैसेस्थानकेवास्तवस्व-
 पकूनाएहारापुरुषतास्याएतविषेचौरपणमाएतानहीतैसेअ-
 त्माकेअकर्तृत्वादिकवास्तवस्वरूपकूजाएनेहारासोविदानपुरु-
 षताभात्माविषेकर्तापणमानतानहींयातैयहसिद्धभयासर्वविकार-
 रोंतैरहितहोएतैअहीतीयरूपहोएतैसोविदानपुरुषहनादिक
 कनकरताहैनकरावताहै श्रुतिभानदब्रह्मणोविद्वान्निभेतिक्-
 त्तनेतिअर्थपहब्रह्मकेस्वरूपअज्ञानदकूजाएहाराविदानपु-
 रुषकिसीतैभीभयकूप्राप्तहोंवैनाईभयकानियेधसर्वविकारों
 केनियेधकाअपरुक्षकहै इसप्रकास्वास्तवतैआत्मविषेकर्तृत्वादि
 कोंकेअभावहूएभीसोअर्जुनआपनेविषेताइननरूपक्रियाकर्त-
 तापएप्रआरोपणकरिकैश्रीभगवानविषेताइननरूपक्रियाकाप्र-
 योजककर्तापणआरोपणकरिकैआपणोविषेभगवान्निविषेतादि
 साजन्यदोषकीशकाकरताभयाश्रीभगवानभीताअर्जुनकेअभिप्रा-
 यकूजानिकरिकैताअर्जुनविषेइननरूपक्रियकेकर्तापणोक्ष-

निषेधकरता भया आपणे विषेताहननरूपक्रियाके प्रयोजककर्ताप
 लोकानिषेधकरता भया तहां जो पुरुष आपतौं तिसक्रियाकूं करेन
 हीं तिसक्रिया विषेदूसरे कूं प्रेरणा करे है ता पुरुषकूं प्रयोजककर्ताक है
 है तात्पर्य यह यह आत्मा देव वा सावतैं सर्व विकारों तैं रहित है या तैं आ
 पणे विषेताहननरूपक्रियाका कर्तापणा आरोपणकिक्रै तथा ह
 सो विषेताहननरूपक्रियाका प्रयोजककर्तापणा आरोपणक
 रिकै तुमने पापके मासिकीशंका कदाचित् भी नही करणी श्री भगवा
 न्नें आत्मा विषे अविक्रियाता दिखाई है सोई श्री सतगुरु दिषावै है
 गरीबततद्रसीका क्यासरे मित्या चरमै चरषालक विनषालीन हीं
 शब्दसिंधुप्र० ५ आत्मदेव ब्रह्मस्वरूप है चैतनत्वात् चरक्या प्र
 काशरूप है चरमै चरकहिये प्रकाशमै प्रकाश आकासमै आकास
 जलमै जलजैसे अभेद है तैसे चैतन आत्मा चैतन ब्रह्मसै अभेद है सो
 ब्रह्म व्यापक औ अनादि अनंत है जन्म मृत्यु परिच्छिन्न यहसादि
 नै होवै है जैसे समुद्रजलकरिकै पूर्ण है तरंगाके आदि अंतमै ज
 लही है जलन्यारा करै ते फेर तरंग पावै नही तैसे ब्रह्मकरिकै जगत परि
 पूर्ण है अस्ति भांति प्रियरूप आत्माते भिन्न नामरूप व्यभिचारी है अ
 पिष्टानते भिन्नतिना कीसता है नही कल्पित जो वस्तु है सो अपिष्टान
 स्वरूपही है यह निश्चयज्ञानमानोका है सो ज्ञानवान आत्मा कू अस
 गअक्रिय अविनाशी जानै हैं प्रपंच कूं रज्जुमै सर्पवा आकासके सु
 ध्याकी न्याई असत्य मिथ्या जानै है धालक जो प्रसात्मा धरुको
 प्रपंच सर्वमै आत्मदेव पूर्ण है जैसे घटादिको मैसे मृत्का है मृत्काते भि

नकोईघटनहीतिसेंसर्वजगतब्रह्मस्वरूपहै सोमरणदिहैतमैहो
 वैहैसोमेरेमैहैनहींमैअपठशुद्धब्रह्मस्वरूपहोहाशुनिस्रविज्ञ
 वाक्यतेअद्वैतप्रकाशनाकेअतभवहोवहीअज्ञानकार्यकेअज्ञ

॥ इति श्री विचारप्रकाशे पट्टविकाररहितनि

रूपएनाम तृतीयप्रकाशसमाप्त ॥ ३ ॥ ॥ ६ ॥

अथचतुर्थप्रकाशप्रारभ्यते॥चौपाई॥सृतीयशिय्यपगतीजोई न
 गकीउत्पत्तिकिसविधीहोईउत्तरसप्रसमानजगतहैजोईक्रमन
 पावैतिसमैकोई१ नैसैंस्वप्नमैविनाक्रमतेसृष्टिउपजैहैतैसेजग
 तमिथ्याभ्रमतेप्रतीतहोवैहैतथापिनिषेधमुपहारादिपावैहै॥
 दोहा॥ सिष्यचेधकेकारणेअप्यारोपजयज्ञानकारजकारनरूप
 हैयहअभ्यादपछान॥२॥गरीवपाचपचीसौनीनहीचौदहतीन
 नचारदोपनहींजहाध्यानभरसतधरमहलभठार॥३॥टीका॥
 पचत्तमभ्रतपंचस्यरुभ्रतपचज्ञानइंद्रीपचक्रमइंद्रीपाचप्राण
 पचकोस्रनौशब्दसपर्सरूपरसगंधचक्षुष्यअतकरणचौदहप
 चज्ञानइंद्रीपचक्रमइंद्रीचतुष्यअतकरणचौदहदेवतेचौदा
 विषेपद्विप्रटीतीनविस्वतेजसप्राज्ञविस्वानरहीरण्यगर्भअध्या
 रुतधारनागतस्वप्नसुपसीतुरीयापचीसप्रकृतिजीवईश्वर-
 यहसर्वराष्ट्रजिसतेउत्पत्तिजिसमैलयहोवैहैसोतुमारास्वप्नहै
 हेभ० जगतकीउत्पत्तिवित्तारसेरूपाकरिकेकहोमेरीमतिमम
 तहैतातेमैतात्पर्यनहीस्मज्याजैसेउत्पत्तिलयहोवैहैतैसेक-
 होउत्तरप्रथमनिषेधमुपहाराउपदेशकीयाजोइसतात्पर्यक

नहीसमझेतिनकेनेमितविसतारसैं सृष्टिकाअध्यारोपकरिकेनि
 रूपरगकरेहैवास्तवतेअद्वैतस्वरूपहै संकाअध्यारोपकारुक्षण
 क्याहैउत्तरऔरकथनहूंअध्यारोपकहेहैजैसैसृक्तिमैरजतका
 कथनहैतैसैंअसंगअद्वितीयब्रह्ममैंअज्ञानअरुजगतककथ
 नकरनाइसकानामअध्यारोपहैशिष्यकेबोधकीसिद्धिकेअर्थय
 ज्ञज्ञगतकीउत्पतिबहुतरीतिसैंकहीहैछांदोगमैंसतरूपपर-
 मात्मातैंअग्निजलपृथ्वीतीनभूतातेकथनकरीहैतैतिरीयमैंअ
 काशवायुअग्निजलपृथ्वीपंचभूतातैंकहीहैकहूंसर्वकीप्रमेश्वर
 कर्मसैंबिनाहींकरहैअनेकप्रकारसैंकहनेमैंयहअभिप्रायहै-
 जगतमिथ्याहैजगतकुछपदार्थहोतातौताकीउत्पतिबहुत
 प्रकारसैंनहीकहैतैउत्पत्तिकथनमैंतात्पर्यनहींयेकब्रह्मरूपावने
 कूंजगतकेनिषेधमैंतात्पर्यहैव्यासभगवाननेसाशिरककेद्वितीयअ
 ध्यायमैउत्पत्तिकहनेवाहैश्रुतिवचनकाविरोधदूरीकरकैजोरकरूप
 सैंतैतीर्थश्रुतिकैअनुसारउत्पत्तिसैंसर्वउपनिषदनकाअभिप्रायक
 ह्याहैसोमंदजिज्ञासुकैनिमित्तकह्याहैजोउत्पत्तिवाक्यनकैपूर्वकहै
 अभिप्रायकूंनहीजानैतामंदजिज्ञासुकुउपनिषदनमैंनानाप्रकारसैं
 जगतकीउत्पत्तिदेविकैआयसमैउपनिषदनकाविरोधहैयेहंआति
 होयजावैगीताकैदुरीकरनैकूंसर्वउपनिषदनमैंएकरूपसैंजगतकी
 उत्पत्तिप्रतिपादनकाप्रकारकहोहैऔरजाकूंब्रह्मविचारसैंयथार्थ
 ज्ञाननहीहोवैताकूंलयचितनकैनिमित्तवीउत्पत्तिकह्याहैजाब्रह्म
 तैउत्पत्तिकहीहैतासैंविपरीतक्रमतैंलयचितनकरैताललयचित

नसैश्वर्यतमे बुद्धिस्थितहोवै सोरूपचितनका प्रकारविषावैहै सुध
 ब्रह्मसै जगतकी उत्पत्तिहोवै नही कहातेतै धध्वद्रह्यअसगहै भक्रियहै
 किंतुमायाविशिष्टनोईश्वरतासै जगतकी उत्पत्तिहोवैहै यावै माया
 नोईश्वरकास्वरूपप्रतिपादनकरैहै जीवईश्वरभेदरहितजोशुद्ध
 चेतनताके भाभितमायाहै सोमायाअनादिकहियेहै भादिरहित
 हैअदिन्यसउत्पत्तिकहै जोमायाकी उत्पत्तिअगिकारकरै तौमाया
 केकार्यप्रपचसैसोपुत्रसैपिताकीनार्हमायाकी उत्पत्तिबनेत्रहीचेत
 नसैहीमायाकी उत्पत्तिमाननीहोवैगीसहो जीवभावभोईश्वरभावतौ
 मायाकेकार्यहै मायाकी सिद्धिदुराबिनाजीवईश्वरकास्वरूपअ
 सिद्धहै याते जीवचेतनवाईश्वरचेतनसैमायाकी उत्पत्तिकहनाअसं
 भवहै औशुद्धचेतनअसगहै भक्रियहै निर्विकरहै ताते मायाकी उ
 त्पत्तिमानेतो विकारीहोवैगा औशुद्धचेतनसैमायाकी उत्पत्तिहोवै
 तौमोक्षकारुविषेसाषाफेर उपजेमी यातेमोक्षनिमित्तसाधननि
 र्प्यरुहोवैगाइसरीतिसैमायाउत्पत्तिरहितहै यातेअनादिहै औएक
 हैसातकहियेअतवारुहै ज्ञानतैमायाकाअंतहोवैहै औसतअस
 तसैविरक्षारणहै जाकातीनकरुमैबाधहोवैनही सोसत्यकहियेहै
 भिसांचेतनहै मायाकाज्ञानतैबाधहोवैहै यातेसतसैविरक्षारणहै जा
 कीतीनिकारुमेंप्रतीतिहोवैनही सोससुभ्रगबंध्यापुत्रअकासकेपु
 ष्यादिकअसतकहियेहै ज्ञानसै पूर्वमाया औताम्रजप्रतीतिहोवै
 है जागतविषेमै अज्ञानी ब्रह्मकूनही जाउहैसरीतिसैमायाप्र
 तीतिहोवैहै भौत्वप्रकेविषेज्येनायपदार्थप्रतीतिहोवैहै सिक्काउपहन

४
पु
यहै
प
ध
त

है औ सुषुप्तिसे अनंतर अज्ञानकी इसरीतिसे स्मृति होवे
 सो या कुछ बीन जानता भया सो स्मृति अज्ञात वस्तुकी हो
 सुप्तिसे अज्ञान है माया औ अज्ञान एक ही है भेद न ही माया
 न मै प्रतीत हो वै है सत असतसे विरुद्ध न माया ताका का
 असतहसे विरुद्ध न कूं वेदांतमें अनिर्वचनीय कूं सिध्या क
 या औ मायाके कारज तें है त हो वै न ही जैसे स्वप्नके पदार्थ मि
 तनतें है त हो वै न ही जीव ईश्वर विभागरहत शुद्ध ब्रह्मके आश्रि
 औ सुषुप्ति कूं विषय करै है जिसके आश्रयतिसे कूं आछा-
 करै है या कूं स्वाश्रय स्वविषय पछक है है कोई असें मानै है अ
 जीवके आश्रय ब्रह्म कूं विषय करै है मै अज्ञानी हूं ब्रह्म कूं जान
 ही अज्ञान जीवके आश्रय ब्रह्म कूं विषय करै है इस पछ कूं अन
 श्रय अनविषय पछक है है परंतु येकें ज्ञान सो जीवके आश्रय न
 शुद्ध ब्रह्मके आश्रित है काहे तें जीवभाव अज्ञानका कारण है अ
 न स्वतंत्र कहे बीर है न ही निराश्रय अज्ञानसे तो जीवभाव नैन-
 प्रथम कि सीके आश्रित अज्ञान हो वै तब अज्ञानका कारण जीव-
 भाव है सो जीवपनै की नाई ईश्वर बी अज्ञानका कारण है ताके आश्रि
 अज्ञान न ही शुद्ध ब्रह्मके आश्रित अनादि अज्ञान है अनादि जो चे
 तन औ अज्ञान तिनका संबंध बी अनादि चेतन अज्ञानके अनादि
 संबंधसे जीवभाव ईश्वरभाव बी अनादि है जीवभाव ईश्वरभाव अ-
 ज्ञानके आधीन है इसतें अज्ञानका कारण है यद्यपि मै अज्ञानी हू या
 रीतिसे जीवके आश्रित अज्ञान प्रतीति हो वै है तथापि शुद्ध ब्रह्मके

अ

आश्रितजो अज्ञानताका जीवकर्म अज्ञानी हूयह अभिमान होवै है
 जीवअज्ञानका कार्य है अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय जीवकी
 शुद्धब्रह्मही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है शुद्धब्रह्म अधिष्ठा
 नवै आश्रितजो अज्ञानता ब्रह्मरूप ही आच्छादित करै है विसृष्ट
 नतरमें अज्ञानी हूयारीतिसे अज्ञानका अभिमानीरूप आश्रय जी
 व होवै है पाप्रकारतै स्व आश्रय स्वविषय अज्ञान है सो अज्ञान पक्षवि
 एक है ज्ञानतै निवृत्ति होवै है नाश्रय करणमें ज्ञान होवै त अश्रय
 करण अवहित्त चेतनमें स्थित नो अज्ञानका अस्तित्वकी निवृत्ति
 ज्ञानसे होवै है जैसे ये करणकी कातम सर्वस्थानमें है जहादीपकी
 माताह निवृत्ति होवै है तैसे ये अज्ञान सर्व अस्तित्व करणमें रहे है जि
 अस्तित्व करणमें ज्ञान प्रगट होवै है तहा अज्ञान रहे नहीं सो ई सुक्त होवै
 है जहा अश्रय करणमें ज्ञान नही होवै तहा अज्ञानका अस्तित्व है तै
 इवधरवै है यारीतिसे एक अज्ञानपक्षमें बधमोक्षव्यवहार बने है
 शुद्धब्रह्मके आश्रितमायाताकू अविद्या अरु अज्ञान कहे है अचि
 त्पशाकी भी ज्युक्ति नहि सहा रैताते माया कहे है चैतन देव विषे
 तौ माया सत कही जाईन अस्त कही जाईन सत अस्त मिटाईक
 स्कहे अस्त किंकी नई वाची प्रकी वानी की न्याई चैतन देव विषे
 तौ माया सावय कही जाईन निशवयव कही जाईन सावय गिरा
 वय मिटाक स्कही जाई किंस की न्याई वदरु की न्याई चैत
 न देव विषे नतौ माया भिन्न कही जाईन भिन्ना भिन्ना मिटाक
 कही जाई किंसी की न्याई स्वक्ति के रजत की न्याई एवौ मुक्ति माया सहा

ईसितेअनर्वचनीमिध्याहै ब्रह्मविद्यातैनासहोवैहै इस्तेअवि-
 चाकहैहै स्वरूपकाआद्यादनकरेहै यातैअज्ञानकहैहै औसामा-
 न्यचेतनमायाकाविरोधीनहींसामान्यचेतनमायाकासाधनकहै
 सतास्फुरतिदेवैहै ब्रह्माकारवृत्तिकीसाहयताकरकेचेतनअ-
 ज्ञानकाविरोधीहै वाचेतनहीकीसहायताकरकेवृत्तिअज्ञा-
 नकीविरोधीहै मायाकास्वरूपकह्याअबईश्वरकास्वरूपवरणन
 करेहै शुद्धगुणसहितमायाऔमायाकाअधिष्ठानचेतनमाया-
 मेंअभासतीन्मीरेईश्वरकास्वरूपहै ईश्वरसर्वज्ञहैजगतकाका-
 रनहैकारणदोप्रकारकाहै एकतौउपादानकारनहोवैएकनिसि-
 तकारणहोवैहैजाकाकार्यहै स्वरूपमेंप्रवेशहोवैजाविनाकार्यकी
 स्थितिनहींहोवै सोउपादानकारणहैजैजैघटकीकाघटकाउपा-
 दानकारणहै घटकैस्वरूपमेंताकाप्रवेशहै औमृत्तिकीविनाघटकी
 स्थितिनहींजाकास्वरूपमेंप्रवेशनहींकार्यसैभिन्नस्थितिहोय-
 केकरैजाकैनाशतैकार्यविगरेनहीं सोनिमित्तकारणहैजैसंघ-
 टकैकुरारुदंडचक्रआदिकनिमित्तकारणहै घटमेंतिनकाप्र-
 वेशनहींघटसैंभिन्नकहियेकिनारेस्थितहोयकैघटकीउत्पत्तिकरै
 हैउत्पत्तिरूपखैकुरारुदंडचक्रआदिकनकेनाशतेघटादिविगरे
 नहींयासीतिसैंउपादानऔनिमित्तदोप्रकारकाकारणहोवैहैज-
 गतकाउपादाननिमित्तदोप्रकारसैंईश्वरहीकारणहैजैसैरु-
 कहीमकरीजाहेकाउपादानकारणनिमित्तकारणहैशकामकरी
 काजउशरीरजाहेकाउपादानकारणमकरीकैशरीरमेंजीचित्त

निमित्तकारणहै योतै एकई श्वरकूनिमित्तकारणभीउपादानकर
 रनतेमाननेमेंकोईदृष्टातनहींगतरमकरीकीनाईईश्वरकाहृदयर
 जइमायाजगतकाउपादानकारणहै चैतनभागनिमित्तकारणहैसा
 रीतिसेएकहीईश्वरजगतकाउपादाननिमित्तकारणहैतामैम
 कएिकादृष्टातभीसुखदृष्टातस्वप्नहैजैसेसप्रमैतेजसनामाजीव
 मैभक्तकरणाभाग पदार्थकउपादानकारणहैचैतनभूमि
 निमित्तकरनहैआसमैजीवनकेकर्मफरुदेनेकूसुखहोवैनीति
 नप्ररुपहोवैहैजीवनकूकर्मफरुदेनेकूसुखहोवैहैतबसृष्टिहो
 वैहैयारीतिसेजीवकर्मकेआधीनसृष्टिहैरजोप्रणतमोघसमै
 अपदेवैसोमस्तिनसतयणहैतासस्तिनसत्वगुणसहितभस्मानके
 समैजोचैतनकाभाभासभस्मानभीताकभभिष्टानकूटस्थतीनो
 मिहैजीवस्वरूपहैसोजीवकर्मकरैहैफरुकीआसकरैहैताजी
 केकर्मकेअनुसारकचनीचभोगकेनिमित्तईश्वरसृष्टिरचैहै
 ईश्वरमैविषेसताकर्मानहीसकसर्वसंप्रथमकोईसृष्टिमैप्रथक
 र्मनहींप्रथमसृष्टिमैऊचनीचशरीरभोगईश्वरनेरचेहैईश्वरमैविष
 मदृष्टिहैउत्तरससारअनादिहैउत्तरउत्तरसृष्टिकेकर्महेतुहैसभिसै
 प्रथमकोईसृष्टिनहीईश्वरमैकोईदोषनहींकवित्तईश्वरसर्वज्ञमे
 इरचेदेवनरसोइतासमैनदोसकोईदेपिएनिहारकेजीवनकेक
 र्मनोइतासमैनिमित्तसोईऊचनीचभोगरचेतिनोकूविचारके
 कार्ताक्रियाक्रमजेतेतासमैनपावैतेतेवास्वस्वरूपमैजोदेपियेसु
 धारकेशुद्धहैस्वरूपजोईदृष्टहैइसारेसोईकरतासकूपरिष्णम

बारं बार ही पुकारके जब जीवनके कर्म भोग देनेसे उदासीन होवै तब प्र
 ल होवै है प्रलयमें सर्व पदार्थनके संस्कार मायामें रहै है यातै जीव
 नके कर्म जो बाकी रहै थे सो क्षम होयके मायामें रहै है जब कर्म-
 भोग देनेकूं समुप होवै तब ईश्वरकूं यह ईच्छा होवै है जीवनके भोग
 निमित्त जगत उपजाइये ऐसी ईश्वरकी इच्छासे माया तमोगुण प्र
 धान होवै है तातमोगुण प्रधान मायामें पंच भूतन भवायु तेज जरू
 भूमिये पंच भूत रचे जावै है तिन भूतनमें पांच गुण शब्द स्पर्श रू
 परस गंध ये पंच गुण हैं मायातै शब्द सहित आकाशकी उत्पत्ति
 आकाशतै वायुकी उत्पत्ति वायु आकाशका कारज है यातै आका
 शका शब्द गुण वायुमें है अपना गुण स्पर्श होवै है वायुते तेजकी उ
 त्पत्ति तेजसे आकाशका शब्द वायुका स्पर्श होवै है अपना रूख हो
 वै है तेजते जरूकी उत्पत्ति आकाशका शब्द वायुका स्पर्शते जकारू
 प जरूसे होवै है अपना रस होवै है जरूमें पृथ्वीकी उत्पत्ति आकाश
 का शब्द वायुका स्पर्शते जकारूप जरूकारस पृथ्वीमें होवै है पृ
 थ्वीका गंध होवै है आकाशमें प्रतिध्वनिरूप शब्द है वायुमें सीसी-
 शब्द उष्ण शीतका विरातै विरुद्धन स्पर्श है अग्निरूपतेजमें भुक्
 भुक् शब्द उष्ण स्पर्श प्रकाशरूप है जरूमें चुरुचुरु शब्द शीत स्पर्श-
 भुक् रूपमधुर रस है धारतथा कड़ु पृथ्वीके संबधतै जरूमें प्रतीत हो
 वै है जरूकारस मधुर ही है सो मधुरता हरितका आदि भूतनकारिकै
 जरूपान किये प्रगट होवै है पृथ्वीमे कटक लश्छ उष्ण शीतसे विरुद्ध
 नकठिन स्पर्श है सेतनीरूपी तरक्त हरित आदिरूपहें मधुर अस्

धीकेसत्वगुणअंशतेघ्राणइंद्रियअश्वनीकुमारदेवतासंगंधदु
 रंगधविषयेपंचइंद्रियज्ञानकेसाधनहैयातैज्ञानइंद्रियकहैहैज्ञान
 सत्वगुणतैहोवैहैयातैभ्रतनकेसत्वगुणतैउत्पत्तिकहैहैजाभ्रत
 केगुणकूंजोइंद्रियगहरणकरैताभ्रतसैतांइंद्रियकीउत्पत्तिकहै
 हैअवरजोगुणकाविभागकरतैहैअकासकैरजोगुणअंशतैवाक
 इंद्रियबोरुनाक्रियाअग्निदेवतावायुकेरजोगुणअंशतेपाणइंद्रि
 यबोडदेरागग्रहनक्रनाक्रियाइंद्रदेवतातेजकेरजोगुणअंशतेपादइं
 द्रियचरुनाक्रियाविशुदेवताजलकेरजोगुणअंशतेशिशनइंद्रिय
 नामधर्मकेसुषकीउत्पत्तिक्रियाप्रजापतिदेवतापृथ्वीकेरजोगुण
 अंशतेशुदाइंद्रियमरुत्यागनाक्रियास्त्युदेवताक्रमनासक्रिया
 काहैयेपांचइंद्रियक्रियाकेसाधनहैतातैकर्मइंद्रियकहीयेहैभाराअ
 गानसमानउद्यानव्यानभौपंचउपवायुहैनागकूर्मकृकलदेवदत्तध
 नंजयप्राणअग्निकीराजसीअंशतेहैहृदैमैवासावाराअंगुलसुख-
 सितीवाहरजाणएहप्राणकीक्रियाहैअपनापृथ्वीकेराजसीअं-
 शतेहैशुदासैवासाहैमरुत्यागनायहइसकीक्रियाहैसमानजल
 केराजसीअंशतेहैनाभीमैवासाहैअनकाविभागकरकैनाडीयो
 कोंपौंचायदेनाइहइसकीक्रियाहैउद्यानवायुकेराजसीअंशतेहै
 कंसमैइस्थितिहैअन्नजरुकूंभीतरषैचलेराइहइसकीक्रियाहै
 व्यानअकाशकीराजसीअंशतेहैसारेशरीरमैस्थितिहैऔरअ
 गकूंओडद्वारापसारदेराएहइसकीक्रियाहैप्रदपंचउपवायु
 कानिरणकरतैहैनागअग्निकेराजसीअंशतेहैडकारआव

क्रिया है कूर्म वायु के राजसी भ्रशते है नेत्र की परु कषेरु सी इह
 सकी क्रिया है कृ कुरुषरु की सजसी भ्रशते छिक भावणी रसकी
 क्रिया है देव दत एधी के राजसी भ्रशते है आत्सनिद्रा उवासी भाव
 एधी इसकी क्रिया है धन जय भाकाश के राजसी भ्रशते है मृत शरीर
 स्वप्न जाण। इसकी क्रिया है क्रियार नो घणतै होवै है यातै भूतनके
 रजोयण भ्रशतै शनाकी उत्पत्तिकही है अपची कृत भूत तिनका का
 र्य भंत करणान इद्रिय कर्म इद्रिय प्राण इतनी सूक्ष्म सृष्टिकहि
 ये है सूक्ष्म सृष्टिका ज्ञान इद्रियन तै होवै नही नेत्र नासिकादिका
 नकी गोरुकतौ इद्रियनके विषय है तिन गोरुकमें स्थित जो इद्रिय
 जो कहें इद्रियनके विषय नही सूक्ष्म सृष्टिकी उत्पत्ति सै भनतर ई
 भ्रकी इच्छा तै स्थूल सृष्टिके निमित्त भूतनका पची कर्न होता भया
 रकर भूतके दो दो भाग सम होयके एक भागके च्यारी भाग भये
 पंच भूतनाका अधा २ भाग पृथक ज्यूका त्पूरहा आधे २ भागके जो
 चारी चारी भाग सो पृथक रहे नो वडे अर्ध भाग नमें अपनै अपने भा
 गहू बोडके मिले तै अर्ध भाग सर्व भूतनमें अपना अर्ध भाग अपने
 तै इतर च्यारी भूतका मिरके पची करण कहिये है अब प्रकृति
 दिष्टावै है अस्थि मुरव पृथ्वी का कतरण होये तै मास जरुका द्रव तह
 रोते नाही तेनकी उसन धर्म होणे तै सुचा वायुकी स्पर्श होणे तै रूम
 आकाशके छेदन दुष अभाव होणे तै एपाच पृथ्वीकी प्रकृति कही प
 कतो भापकी चार चरोततौकी भव जरुकी प्रकृति कहते है वीर्य तो
 सुष है जरुका पर्थकी उत्पत्ति होणे तै पित्त तेजका उसन धर्म होणे

तेषमेववायुकादौडणेतैरक्तपृथ्वीकास्यामहोणेतैरालुअकाश
 कीतलेनैद्रवणाहोणेतैरपांचजलकीप्रकृतिहैअबतेतजकीप्र
 कृतिकहतेहैक्षधामुषअग्निकाअन्नपचावनेतेतषावायुकीसोष
 नधर्महोणेतैनिद्राअकाशकीसुनधर्महोणेतैअलसपृथ्वीकाज
 उधर्महोणेतैक्रांतिजलकीप्रफुलतहोनेतैरपांचअग्निकीप्रकृ
 तिहैअबवायुकीप्रकृतिकेतैहैधावनासुषवायुकामबलहोणेतै
 चरुणाजलकानीचेकूंगमनहोणेतैसंकोचनापृथ्वीकासंधवन
 होणेतैपसारणाअकाशकाव्यापकहोणेतैउतकर्मणअग्निका
 उर्धगमनहोणेतैरपांचप्रकृतिवायुकीहैअबअकाशकीप्रकृति
 कहतेहैमस्तकसुषआकाशकाअनहृदशब्दहोणेतैकंठवायुका
 कंठऔष्ठशोषणधर्महोणेतैहृदाअकाशतेजकाउसनधर्महो
 णेतैउदरआकासजलकाजलस्थानहोणेतैकटपृथ्वीका
 गंधस्थानहोणेतैरपांचप्रकृतिअकाशकीकहीएपचीसप्रकृति
 हैसमष्टीतौवैराटविषैविष्टिस्थूलशरीरविषैइसप्रकारजाणना
 एकभूतमैपांचभूतमिलायकरनेकानामपंचीकरनहैजिन
 भूतनकापंचीकरणकियाहैतिनकूंपंचीकृतकहैहैतिनपंची
 कृतभूतनतैइंद्रियनकाविषयस्थूलब्रह्माडहोताभयावाब्रह्मंडि
 कैअंतरभूतभुवर्लोकस्वर्लोकमहर्लोकजनलोकतपलोकस
 त्पलोकयेसातैअवनऊपरकेहोतेभयेअतलसुतलपातारुकि
 तलरसातलतलातलमहातलयेसातलोकनीचेकेहोतेभयेतिन
 चतुर्दशलोकनमैजीवनेकेभोगयोग्यअन्नादिकभोगकास्थान
 देवमनुष्यपशुआदिस्थूलशरीरहोतेभयेय-

इस दोष पर तैत्तिरीयानि रूपन कि यथायाता कै कार्य मैतीन शरीर प
 चकोस है सुधसत्त्वगुणसहित मायाई श्वरका का स्त शरीर स्मरि
 सत्त्वगुणसहित भविष्यका अशरीर वक्रकारन शरीर है उत्तर शरी
 रके अरभक पंचसूक्ष्म भूत मन बुद्धि चित महकार पंच प्राण पंच क
 र्म इन्द्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय जीवका सूक्ष्म शरीर है सर्व जीव न के सूक्ष्म
 शरीर ही मिठिके सूक्ष्म शरीर है स पूर्ण स्थूल ब्रह्माद ईश्वरका सू
 क्ष्म शरीर है जीवके व्याप्ति स्थूल शरीर म सिद्ध है इनतीन शरीर न
 ही पंचकोस है कारण शरीर आनंद मयकोस है विज्ञान मय मनोम
 याण मयतीनकोश सूक्ष्म शरीर में पंच ज्ञान इंद्रिय निश्चय रूप
 प्रकृति करणकी वृत्ति बुद्धि विज्ञान मयकोश है पंच ज्ञान इंद्रिय स्त
 स्य विकल्प भक्त करणकी वृत्ति मन मनो मयकोश है पंच प्राण पंच क
 र्म इंद्रिय प्राण मयकोश है स्थूल शरीर अन्न मयकोश है इसी तैत्ति
 रीय शरीर न में ही पंचकोस है ईश्वरके शरीर न में ईश्वरके कोश जीव
 क शरीर न में जीवके कोस है कोस नाम स्थान कहि म्यान की न्याई प
 चकोश आत्माके स्वरूप इंद्र आच्छादन करे है याते अन्न मयादि
 ककोस कहिये है अनेक मंद मति पुरुष पंचकोस न में जो अनात्म प
 दार्थ है तिनमें किसी एक इंद्र आत्मा मानिके मल्लय साक्षी आत्म स्वर
 पतै विमुष ही रहे है याते अन्न मयादिक आत्म स्वरूप इंद्र आच्छादन
 करे है ताहा कितने पामर विरोचन मतके अज्ञ सारी स्थूल शरीर स्त
 अन्न मयकोश ही आत्मा मान है पद ज्ञुक्ति है नामै अह बुद्धि हो वै
 सो आत्मा है सो अह बुद्धि स्थूल शरीर में होवे है मैं मनुष्य हूँ मैं ब्रह्मण

हूँ ऐसी प्रतीति सर्व कुं होवै है और मनुष्य परा ब्राह्मण परा स्थूल
 शरीर में ही है या तै स्थूल शरीर ही अहंबुद्धि का विषे होने तै आत्मा है
 जामें सुख प्रीति होवै सो आत्मा है स्त्री पुत्र धन पशु आदिक स्थूल
 शरीर के उपाकारक होवै तौ तिनमें प्रीति होवै है स्थूल शरीर के उप
 कारक नही होवै तौ प्रीति होवै नही जाके निमित्त अन्य पदार्थ नमें
 प्रीति होवै ना स्थूल शरीर में ही सुख प्रीति है या तै स्थूल शरीर ही आ
 त्मा है ताका वस्त्र भूषण अंजन मंजन नाना विधि भोजन से सिंगार
 पोषण ही परम पुरुषार्थ है यह असुर स्वामि विचो रनका सिध्दांत है
 कोइ असे कहै है स्थूल शरीर ही अत्मान ही किंतु स्थूल शरीर में
 जाके होने तै जीवन व्यवहार होवै है जाके नही होने तै मरन व्यवहा
 र होवै है सो आत्मा स्थूल शरीर से भिन्न है जीवन मरण इंद्रियन के
 अधीन है जितने काल शरीर में इंद्रिय होवै उतने काल जीवन है औ कोउ
 इंद्रियन होवै तब मरन कहिये है भेदे प्रहूं में सत्तहूं में बोत्तहूं इस रीति
 से अहंबुद्धि बी इंद्रियन में होवै है या तै इंद्रिय ही आत्मा है हिरण्यगर्भ
 के उपासी प्रान कुं आत्मा कहै है तामें यह जुक्ति कहै है ज्व मरन स
 मंय में मूर्छा होवै है तब ताके संबंधी पुत्रादिक प्राण शेष होवै तौ जी
 वन जानै है प्राण शेषन होवै तौ मरण जानै है शरीर में नेत्र इंद्रियन ही
 होवै तौ अंधा शरीर रहे है श्रोत्र से बिना बधिर रहे है वाक बिना म्कर रहे
 है एसे जो इंद्रियन ही होवै ताके व्यापार से बिना वी शरीर की स्थि
 तिर रहे है प्राण से बिना तिसी छिन में स्मृशान के समान अमंगल भ
 यं कर होय के गै है और दे प्रहूं सून हूँ या प्रतीति से वी इंद्रियन तै भि

नही अर्थात् सिद्ध होवे वैकालिक है तब तब रूप में दे प्रहै श्रवण स्वरूप में सु
 न्रु जो ऐसी प्रतीति होवे तौ इन्द्रिय रूप भात्मा सिद्ध होवे किन्तु मे
 निवृत्त दे प्रह भोत्र वाता में घन्रुं ऐसी प्रतीति होवे है पाते इन्द्रिय न
 तें भि नही भात्मा है औ स्रु सि में इन्द्रियन का अभाव है ठी सी प्रा न
 होने तै जीवन व्यवहार होवे है या तें जीवन मरण बी इन्द्रियन के अ
 धी न ही कि तु स्थूल शरीर प्राण के वियोग क मरे न के है यति मी
 न मरण प्राण के ही आधी न है सो ई आत्मा है को ई भे से कह है प्रण ज
 उ है या ते घट की म्या ई भनात्मा है औ वं प मोक्ष मन के अधी न है विषय
 में आसक्त जो मन सो वधन का हेतु है विषय वासनारहित मन सो मो
 क्षा का हेतु है मन के सब धतै ही इन्द्रिय के ज्ञान का हेतु है मन के सब ध वि
 ना इन्द्रिय तें ज्ञान होवे न ही या तें सर्व व्यवहार करे त मन है सो ई आत्मा है
 कि न क विज्ञान वादी वी ध्य ह कह है है मन का घ्या पार बुद्धि के अधी न
 है का हेतु बुद्धि का ही आकास्मन होवे है या तें छिन क विज्ञान रूप बुद्धि
 ही आत्मा है मन न ही पदतिन का अभिप्राय है स पूर्ण पदार्थ विज्ञान के ही
 आत्मा है सो विज्ञान प्रकार रूप है छिन ३ मे विज्ञान के उत्पत्ति ना स
 है वै वै पूर्व विज्ञान के समान अन्य विज्ञान के उत्पत्ति भूवे तै पूर्व विज्ञान क
 न प्राप्ते वै है तै तै तृतीय विज्ञान की उत्पत्ति औ द्वितीय विज्ञान का न स
 चतुर्थ की उत्पत्ति तृतीय का ना श होवे है या रीति सै नदी के मथार की न
 ना ई विज्ञान की धार व नीर दे है सो विज्ञान की धारा दो प्रकार की है एक तो
 आर्य विज्ञान धार है औ वृत्तरी प्रवृत्ति विज्ञान धार है अहरे सी विज्ञान
 न धार अर्य विज्ञान धार क दे है सा ही बुद्धि कह है है यह घट है य

मानेताकूँ यह पूछें है शून्यरूपका तैने अनुभव किया है अथवा ना-
 ही जो ऐसै कहै शून्यरूपका अनुभवन हीं किया तो शून्य नहीं है यह-
 सिद्ध हुवा जो कहै शून्यका अनुभव किया है तो जानै शून्यका अनु-
 भव किया है सो आत्मा शून्यसै विरुक्षण सिद्ध होवै है इसरीति सै
 शून्यतै विरुक्षण आत्मा है ताकै विषै मनके संयोगतै ज्ञान होवै है
 ताज्ञानगुणतै आत्मा चेतन कहिये है स्वरूपसै आत्मा जड है ऋषदु-
 षड्छाद्देषप्रयत्नधर्मअधर्म आदिक गुण आत्मा विषै है तिनके
 मतमें बीआनंदमयकोस ही आत्मा है विज्ञानमयकोसमें-
 जो बुद्धि है सो आत्माका ज्ञानगुण कहै है काहेतै आनंदमयकोस
 में चेतन गूढ है विवेकहीनको प्रतीत होवै नहीं औ प्रभाकर तथा-
 नैयायिक आत्माकूँ सुषुप्तिमें ज्ञानहीनमानके स्वरूपसै जडक
 है है यातै गूढचेतन आनंदमयकोसमें ही तिनकूँ आत्मभ्रंति
 है आत्मस्वरूपनित्यज्ञानकूँ तो जीवमें मानै नहीं किंतु अनित्य-
 ज्ञानमानै है सो अनित्यज्ञानसिद्धांतमें अंतःकरणकी वृत्तिबुद्धि
 रूप है यारीति सै प्रभाकर नैयायिकमतमें आनंदमयकोस आत्मा
 है बुद्धिताका गुण है तिनकामतभी समीचीन नहीं काहेतै ज्ञानसै-
 भिन्न जो जडवस्तुषटादिक है सो अनित्य है तैसै आत्माविज्ञानस्वरूप
 नहीं होवै तौषटादिकनकी नाई जडहोनेतै अनित्य होवैगा
 जो आत्मा अनित्य होवै तो मोक्षके अर्थसाधन निष्फल होवैगे इ-
 सररीति सै वेदांतका क्यनमें विश्वासहीन अनेक बहिरमुखपंच
 कोसनमें ही किसीपदार्थकूँ आत्मानै है औ सुष आत्मस्वरूप साक्षी-

तद्वै पातैः अभयरूपकी सिद्धिवास्ते भात्मा अससहित हीमान्
 होवैगा जो असपाठे पदार्थ धरादिक है सो उत्पत्ति ना सवाले होवै
 वै है सो आत्मावी अससहित होनेतै उत्पत्ति ना सवाला हीमान्
 ना होवैगा जो उत्पत्ति ना सवाला पदार्थ होवै सो उत्पत्ति से पूर्व ना सत
 अनतर असत होवै है जो आवि अतमें असत होवै सो मध्य बी स
 त्प होवै नही कितु मध्यवी असत ही होवै है पातै आत्मा असत
 रूप है तैसे भत्मा से भिन्न भी सारे पदार्थ उत्पत्ति ना सवाले है क
 तै असतरूप है इसरीति से आत्मा अनात्मा समप्रवृत्त अस
 तरूप होनेतै भ्रूय ही परमतत्व है यह भ्रूयवादिमाध्यविक
 वी ध्वक्कमत है सो बी भ्रूयानरूप आनन्दमय को क प्रतिपादन
 करै है काहेतै अज्ञानतीनरूप से प्रतीति होवै है अद्वैतशास्त्रके
 सस्कारहित जो मूढतिनको वी जगत रूप परिणामक प्राप्
 त्पयज्ञानस्वप्नप्रतीति होवै है अद्वैतशास्त्रके अनुसार ज्ञाननिष्ठ
 नपेक्षित नरूप सत असत से विद्वक्षण अनिर्वचनीयरूप अज्ञा
 नत्वका कार्य जगत प्रतीति होवै है ज्ञाननिष्ठा रूप प्राप्त जो जीवन्मु
 क्तविज्ञानस्वप्नकार्य सहित अज्ञानत्वरूप प्रतीति होवै है तु
 असत शून्ययेतीति शब्द एक ही अर्थकूक है है इसरीति से जीव
 न्मुक्त नरूप स्वप्नस्वप्नो प्रतीति होवै है अज्ञानताके विषये मोक्षित
 भ्रूयवादी परमप्रत्ययार्थकू नही जाभै कितु त्वरूप आनन्दमय
 कात्स कही आत्माक है है पूर्वमियासाकात्सक देसी प्रभकरने पा
 यिक यह कहै है आत्मा स्वप्न ही काहेतै जो भ्रूय रूप आत्मा

मानेताकूंयहपूछेंहै शून्यरूपकातैनेअनुभवकियाहैअथवाना-
 हीजोऐसैकहैशून्यरूपकाअनुभवनहींकियातौशून्यनहींहैयह-
 सिद्धहुवाजोकहैशून्यकाअनुभवकियाहैतोजानैशून्यकाअनु-
 भयकियाहैसोआत्माशून्यसैविरुक्षणसिद्धहोवैहैइसरीतिसै
 शून्यतैविरुक्षणआत्माहैताकैविषैमनकेसंयोगतैज्ञानहोवैहै
 ताज्ञानगुणतैआत्माचेतनकहियेहैस्वरूपसैआत्माजडहैसबदु-
 षड्छाद्देषप्रयत्नधर्मअधर्मआदिकगुणआत्माविषैहैतिनके
 मतमेंबीआनंदमयकोस हीआत्माहैविज्ञानमयकोसमें-
 जोबुद्धिहैसोआत्माकाज्ञानगुणकहैहैकाहेतैआनंदमयकोस
 मेंचेतनगुणहैविवेकहीनकोप्रतीतहोवैनहींऔप्रभाकरतथा-
 नैयायिकआत्माकूंसुषुप्तिमेंज्ञानहीनमानकेस्वरूपसैजडक-
 हैहैयातैगुणचेतनआनंदमयकोसमेंहीतिनकूंआत्मभ्रान्ति
 हैआत्मस्वरूपनित्यज्ञानकूंतौजीवमेंमानैनहींकिंतुअनित्य-
 ज्ञानमानेहैसोअनित्यज्ञानसिद्धांतमेंअंतःकरणकीबृत्तिबुद्धि
 रूपहैयारीतिसैप्रभाकरनैयायिकमतमेंआनंदमयकोसआत्मा
 हैबुद्धिताकागुणहैतिनकामतभीसमीचीननहींकाहेतैज्ञानसै-
 भिन्नजोजडवस्तुषटादिकहैसोअनित्यहैतैसैआत्माविज्ञानस्वरू-
 पनहींहोवैतौषटादिकनकीनाईजडहोनेतैअनित्यहोवैगा-
 जोआत्माअनित्यहोवैतौसोक्षकेअर्थसाधननिष्फलहोवैगेइ-
 सरीतिसैवेदांतकाक्यनमेंविश्वासहीनअनेकबहिरसुखपंच
 कोसनमेंहीकिसीपदार्थकूंआत्मानैहैऔसुषुआत्मस्वरूपसाक्षी-

कुं नही जानि है यतिं भेन मया विक्रमात्माके भाछावक होने तें
 को सकहिये है जैसे जीवके पचको सजीवके पथार्थस्वरूपसाधी
 कृभाछादन करे है तैसे ईश्वरके समष्टीपचको सईश्वरके पथार्थ
 स्वरूपकृभाछादन करे है कोइतें ईश्वरका पथार्थस्वरूपतौ तत्प
 दकारुक्ष है ताकृत्पागके कोइती मायारूप आनदमयको सवि
 शिष्ठजो अंतर्यामी तत्पदका वाच्यता कूं ही परमतत्व कहै है तै
 सै हिरण्यगर्भवैश्वानरविष्णुब्रह्माशिवदेवी गणेशसूर्यसै आ
 दिठेकै असिद्धदारुपी पुरुअर्कवसपर्यंतपदार्थनमै परमा
 त्मा प्रातिकरे है यद्यपि सर्वपदार्थनमै रुच्छभाग परमात्मासैं मि
 त्तनही तथापि तिस उपाधिसहित कूं जो परमात्मा मानै है सो ति
 न कूं भ्रांति है यारी तिसै पचको सनमै जो जीव ईश्वरका परमा
 र्थस्वरूपतासैं विम्वरवशोयके देहादिकनमै आत्मप्रातिकस्के पु
 ण्यपापकर्मकरे है अंतर्यामीसैं आदिठेकै वसपर्यंत कूं ईश्वररूप
 मानिके आराधनकरिके सुषचाहै है जैसी उपाधिका अराधन
 करे है ताके अनुसार ही तिन कूं फल होवै है काहेतै कारणस्त
 क्षमस्थलप्रपचसारा ईश्वरके तीनशरीरनके अंतरभूत है तापें उपास
 नाके अनुसार फलभी सर्वसै ही होवै है परंतु ब्रह्मज्ञानविना बोध
 तो होवै नही जो मोक्षकी ईच्छा होवै तो विवेकतें जीव ईश्वरके स्व
 रूपकूपचको सनतै पथककरे हसातजैसे मुजओवीका कहिये तु
 लीमिती होवै है तिन कूं तारिके पथककरे है तैसे विवेकतें जीव ई
 श्वरके स्वरूपकूपचको सनतै पथककरे से विवेकयहै है लक्षण

स्थामादिस्थूदेहप्रतीतहोवैनहींआत्माभानहोवैहैसुषुप्ति
 अवस्थामेंसूक्ष्मशरीरकाज्ञानहीसुषुप्तरूपआत्मास्वयंप्रका
 शरूपतैप्रतीतहोवैहैसुषुप्ताज्ञानसुषुप्तिमेंनहींहोवैतोमैसु
 षुप्तिसेसोवताभयात्रैसीस्मृतिजागकैनहींचाहियेसुषुप्ताज्ञान
 सुषुप्तिमेंहैसोसुषुविषयजन्यनहींआत्मस्वरूपहीहैआत्मस्व
 यंप्रकाशरूपतैसुषुप्तिमेंभासैहैनिधिध्यासनकाफरुनिर्विक
 लपसमाधिवस्थामेंअज्ञानकृतआवर्णरहतआत्माप्रकासेहैका
 रनशरीरअज्ञानहीप्रतीतहोवैअसैतीनदेहव्यभिचारीहैयेक
 त्रस्थाकूँकोडकेवुसरीत्रवस्थामेंभासैनहींआत्माअनुगतहैस
 र्ववस्थामेंभासैहैइसतेंव्यापकहैथाविवेकतैतीनशरीरतैआ
 त्माजुहजानैस्थूलशरीरअन्नमयकोसहैकारनशरीरआनंदमय
 कोसहैसूक्ष्मशरीरमैप्रानमयमनोमयविज्ञानमययेतीनकोसहै
 तिनीशरीरनकेविवेकतैपंचकोसकाहीविवेकहोवैहैजैहैजीव
 कास्वरूपपंचकोसनतैन्याराहैतैसैईश्वरकास्वरूपसमिष्टिपंचको
 सनतैन्याराहैपंचकोसतैन्याराजोआत्माहैसोब्रह्मस्वरूपहैय
 हनिधैधारहेभ०आत्मापुन्यपापकर्मकरैहैतिसतेस्वर्गनर्कसृत्यु
 लोकमैनानाप्रकारकेसुषुदुषुभोगेहैब्रह्मपुन्यपापकरैनहींतातै
 सुषुदुषुभोगेनहींतातैतिनोकीयेकताबनैनहींउत्तरमायाडोमाया
 मेंजोचेतनकाआभासयायाकअधिष्ठानचेतनतीनवाकूईश्वरकहै
 हैंअज्ञानवबुद्धिअज्ञानवाबुद्धिमेंआभासअज्ञानवाबुद्धिका
 अधिष्ठानचेतनजीवकास्वरूपहैइसकातात्पर्ययहहैजीवमेंजो

अभास अस है सो पुण्य पाप करे निन क फल भोगे हे अत्य सता दि
 धर्म तिस मै है ईश्वर मै जो अभास अस है तिसी में सर्व सता दि धर्म
 है सो ई कर्मन का फल देवे है दोनो वा विषे जो चेतन अस है तिस मै
 किसी वात का जोगतान ही नीव में जो चेतन अस है उसै कर्म फल क
 जो पन ही ईश्वर मै जो चेतन अस है तामै फल देने का जोगन ही चेत
 न दोनो धामै अस ग एक रूप है चेतन मै भेदन ही जीव ईश्वर मै जो
 चेतन भाय है तिन का अभेद है औ अभास अस का भेद है तातै मै
 अस रूप हूँ मै सै तुं जान रुक्ष्यर्थ मै भेद का पं पन ही मै ब्रह्म भै सै
 न ही जाने गता ते दीन दुषि भय कमाने पान्पारा जो ब्रह्म जाना है
 सो भय का हेतु है हे भू मै ब्रह्म हूँ यह ज्ञान किस कू होवे है इतर अ
 ज्ञान भावण धांति दो प्रकार का ज्ञान शोकना अ हर्ष ये सात अवन
 स्थ भासम की है मै ब्रह्म कून ही ज्ञान ता यह अज्ञान है ब्रह्म है न ही
 भान होवे न ही यह आवण है जन्म सै आदि के जो कूटस्थ मै प्रती
 त होवे है सो भाति है सो कबी यह है कूटमिथ्या जो बुधि अरु चि
 दा भासता है अस ग रूप सै र है सो कूटस्थ है दो ज्ञान परोक्ष अपरोक्ष
 ब्रह्म है यह परोक्ष है मै ब्रह्म हूँ यह अपरोक्ष ब्रह्म न ही इस अस रूप ब्रह्म
 है मै सा परोक्ष ज्ञान दूर करे है मै ब्रह्म हूँ यह जो अपरोक्ष ज्ञान अवि
 द्य के सकरु जारु काना सकरे है मै ब्रह्म कून ही जानू हूँ यह अज्ञा
 न ब्रह्म न ही है भान न ही होवे है यह भावर्न मै ब्रह्म न ही है पुण्य
 पाप का कता बुष सुष का भोक्ता जीव हूँ यह प्राति इतना जो ब्रह्म
 अविद्या जारु है ता कू अपरोक्ष ज्ञान दूर करे है मेरे मै जप्य गर

ए न ही सुष दुष का-

गंधनहीं मैं जन्मोतर रहत कूटस्थरूपहं जन्मके निषेधतै सर्व अनर्थ-
 का निषेध है यह भ्रांति नास है यही सो कनास है जब संसै रहित अ-
 पने स्वरूपका ज्ञान होवै है मैं अहैत ब्रह्मरूपहं इस अचु भवते अने
 तर जो आनंद होवै है सो हर्ष है हे भ० आभासकूं मैं ब्रह्मरूपहं यह
 मिथ्या ज्ञान होवै गाता मिथ्या ज्ञानतै जन्मादिक की निवृत्ति होवै-
 नहीं काहेतै आपने पूर्व क ह्या कूटस्थ ब्रह्म दोनोर कहै औ आभा-
 स ब्रह्मतै न्यार है ता ब्रह्मसैं भिन्न अभासकूं मैं ब्रह्महं ऐसा ब्रह्मरु-
 पकरेके ज्ञान होवैतौ मिथ्या ज्ञान होवै जैसे सर्पतै भिन्न जो जे वरी
 ताका सर्परूपकरके ज्ञान मिथ्या है सीथ्या नाम भ्रांतिका है ब्र-
 ह्मज्ञानकूं भ्रांतिरूप कहनाबनै नहीं उत्तर मैं ब्रह्महं ऐसा ज्ञान
 बुद्धिसहित अभासकूं होवै है कूटस्थकूं नहीं मैं शब्दमें जो होवै है कू-
 टस्थताका तो सुष अभेद है अभासका बाधकरके अभेद है अभास
 का ब्रह्मके संग बाध समानाधिकरण है जावस्तुका बाध होयके
 जाके संग अभेद होयतावस्तुका ताके संग बाध समानाधि-
 करण कहिये है जैसे सुषके प्रति बिंबका बाध होयके सुष साथ-
 अभेद होवै है इसिते प्रति बिंब सुष है न्यार नहीं तैसैं अभास ब्र-
 ह्म है न्यार नहीं जैसे कि सिपुरुषकूं स्वप्नमें भयंकर बन प्रतीत हो
 याति समै नाना भयंकर सजीवनकूं देषता भया एक बडा बरिसिंह
 देखाति सकूं देषके भयकरके मुत्तष उच्चै स्वरसैं मुकात्या प्रकारनेसैं नि-
 द्राकी निवृत्ति होती भईवन सिंहसर्व निवृत भयेतैसैं मिथ्या ज्ञानसैं
 मिथ्या अज्ञानकी निवृत्तिबनै है जन्मादिसंसार जो आत्मा मैं सत्य-

होवैवैताकीनिवृत्तिमिथ्याज्ञानतेहोवैनहीसोजनमसैभादिस्व
 रससारप्रमार्थसैभात्मासैहैनहीमिथ्याआभाससैबिषयाभज्ञानकी
 मिथ्याज्ञानसैनिवृत्तिहोवैहैअवकरणकीवृत्तिरूपज्ञानमिथ्याहै
 म्याज्ञानस्वरूपहैताकाकिसिसाथसबधनहीअसगरूपहैबिनरूप
 धावस्वरूपकाद्रुपातिनकामुधमसन्नवेधेजिनकूनहीइयातिवै
 निमित्तरूपचितनकप्रकारकहैहैअवअपवादकहैहैजैसेमार्ति
 ईकैबाहरभीतरमाटीहैयातेमाटीकासर्वकार्यमाटीस्वरूपहै
 नअधिकजरुकेकार्यजरुस्वरूपहैएसैजोबाकाकार्यहैसोवकमन
 स्वरूपसैभिन्नहीकिंतुकार्यकाकारनहीस्वरूपहैऔस्वरूपप्रक
 स्वरूपसईभरहैयातेंसर्वकार्यप्रपचईभरस्वरूपसैभिन्नहीकिंतु
 र्मप्रचकास्वरूपहैभरदिहैसोईभरमेंइयारीतिसैरूपचितनजानिके
 त्तरूपचितनकस्वरूपचितनकासक्षेपतेंयदकर्महैस्थूलद्रव्यइसारा
 चीकृतभूतनकाकर्जहैतहाचोपृथ्वीकाकर्जसोपृथ्वीरूपऔजरुका
 कार्यजरुस्वरूपयासीतिसैजभूतकाचोकार्यसोवाकारीस्वरूपसै
 सरीतिसैसारास्थूलद्रव्याउपंचीकृतभूतस्वरूपहैतेंसैपंचीकृतभूत
 चीअपचीकृतभूतकेकार्यहैयातेअपचीकृतभूतस्वरूपहीपचीकृत
 तभूतहैभिन्नहीऔअवकरणआदिकस्वरूपसैअपचीकृत
 भूतनकाकार्यहोनेतेंअपचीकृतभूतस्वरूपहैतामेंअतकरनसो
 भूतनकेस्वरूपसैकार्यहैयातेंस्वरूपसैस्वरूपहैऔभूतनकेस्वरूप
 अस्केकार्यप्रारणोइसस्वरूपहैइयसद्रियपृथ्वीकेरजोयसअस
 कास्वरूपसोपृथ्वीकारजोइयस्वरूपप्रासंद्रियपृथ्वीकेस्वरूप

स्वरूप असे रसना औ उपस्थ जलकै सत्वगुणरजोगुणस्वरूपनेत्र-
 औ पादतेजके सत्वगुणरजोगुणस्वरूप त्वक औ पानवायुके सत्व-
 गुणरजोगुणस्वरूप श्रोत्र औ वाक आकासके सत्वगुणरजोगुणस्वरूप
 पयसितिसै सारी सूक्ष्म सृष्टि अपंचीकृत भूतस्वरूपहैं यह चिंतन करि
 कै अपंचीकृत भूतनका विरूपचिंतन करै पृथ्वीजलकाकार्जहैं यातैं
 जलस्वरूपहैं तेजकाकार्जजलनेजस्वरूपहै तेजवायुकाकार्जहो-
 नेतैं वायुस्वरूपहै अकासकाकार्यवायु अकासस्वरूपहै तमोगुण
 प्रधानप्रकृतिकाकार्ज अकासप्रकृतिस्वरूपहैं औ मायाकी अव-
 स्थाविशेषही प्रकृतिहैं यातैं प्रकृतिमायास्वरूपहै एकवस्तुके प्रधा-
 प्रकृतिमाया अविद्या आज्ञानयेनामहैं सर्वकार्जकू अपनेमै ही न-
 करिकै प्रलयमैं स्थित उदासीनस्वरूपकू प्रधानकहैहै सो सृष्टिके उ-
 त्पादनयोग्यतसो प्रधानस्वरूपकू प्रकृति कहैहैं जैसे देसकार्जदि-
 कसामग्निसे विना दुर्घटपदार्थकी इंद्रजालसे उत्पत्ति होवैहै तहां इं-
 द्रजालकू माया कहैहैं तैसे असंग अही तीय ब्रह्ममै इच्छादिक दुर्घ-
 टहै तिरु कू करैहै यातैं माया कहैहैं स्वरूपकू आच्छादन करैहैं यातैं अ-
 ज्ञान कहैहैं ब्रह्मविद्यातैं नासहोवैहै यातैं अविद्या कहैहैं औ स्वतं-
 त्रकदेवी रहे नहीं किंतु चेतनके आश्रित ही रहेहै यातैं शक्तिबी कहै-
 हैं इसरीतिसै प्रकृति आदिक प्रधानके ही भिदहैं यातैं प्रधानस्वरूप
 हैं सो प्रधान ब्रह्मचेतनकी शक्तिहै जैसे पुरुषसे सामर्थ्यरूपशक्ति
 पुरुषसे भिन्न नहीं तैसे चेतनमैं प्रधानरूपशक्ति ब्रह्मचेतनसे भिन्न
 नहीं या प्रकारतैं सर्व अनात्मपदार्थनका ब्रह्मविषयरूप चिंतनक-

करकैसिद्धजोहूयाहैअर्थताकूवाचअर्थकहैहैं औ शक्यअर्थ-
भीकहैहैं हे म० लक्षणाकास्वरूपक्याहैउत्तरवाचअर्थसैंजो ल-
क्षअर्थकासंबंधसोलक्षणाकहियेहै जिसस्थानमेंसक्तिकरकै-
वाककाअर्थनवनैतहांलक्षणाबृत्तिअंगिकारकरियेहै लक्षणा-
बृत्तिकरकैजोसिद्धहोवैअर्थसोलक्षअर्थकहियेहै सोलक्षणा-
तीनप्रकारकीहै एकजहतीदुसरीअजहतितीसरीभागत्या-
गलक्षणाकहियेहै इनतीनोकास्वरूपदिषावैहैजैसेकिसीने
कह्यांगंगामेंग्रामहै इहांगंगापदकावाचअर्थदेवन्दीकाप्रवा-
हहै तामेंग्रामहै इसअर्थकू सक्तिबृत्तिसिद्धिकरैहैं सोबनैनी
यातिंगंगापदतीरमैलक्षणाहै अभिप्राययेहै गंगापदप्रवाहसं-
पूर्णकात्यागकरैकैतीरकूलषावैहै इसीकानामजहतीलक्षणाहै
हेम० अजहतीकास्वरूपक्याहै उत्तरजैसेकिसिनेकह्यासोनधा-
वनकरैहै इहांसोनपदकावाचअर्थलारुंगहै इहांइसअर्थको
सक्तिबृत्तिसिद्धकरैहैं सोबनैनीयातैसोनपदकालारुंगवाले
अश्वमैलक्षणाहै अभिप्राययेहै सोणपदलारुंगसहितहीअश्व
कूलषावैहै इसीकानामअजहतीलक्षणाहै हेम० भागत्यागलक्ष-
णाकास्वरूपक्याहै उत्तरजैसेकिसिनेकह्यासोपुरुषयेहै ई-
हांसोपदकावाचअर्थकाशीदेशऔ पूर्वकारुसहितपुरुषहै-
औयहपदकावाचअर्थमथुरादेशवर्तमानकारुसहितपुरु-
षहै सोदोनो एकहै इसअर्थकू सक्तिबृत्तिसिद्धिकरैहैं सोबनैनी
हिकाहैतैकाशीदेशऔमथुरादेशकाविरोधहै पूर्वकारुऔवर्तमान

मकारुकाविरोध है सकताबनेनहीयाते सोपदकी अरु यह पदकी प्र
 मीठक्षर्य हे अधिग्रह्यवे है सोपद अरु यह पदका शीवशाभीषणरुदेश
 कूर्पकाठभीवर्तमानकारुकृत्यागके प्ररुबमानकुरुषावे है इति
 ग्रामभागत्यागठक्षरादे हे भ० महावाक्यमें कोनहीरुक्षर्य है जस्त
 त्वमसी महावाक्यनमैभागत्यागठक्षराका अधिकार है यत्तै तत्पदभी
 लपदका वाच्य अर्थवे है सर्वशक्ति सर्वसुव्यापक इत्यादिक धर्मोपात्त
 त्वेमायाविशिष्ट ईश्वरचेतन है सो तत्पदका वाच्य अर्थ है औ अल्पशक्ति
 अल्पपरिधि च इत्यादि धर्मोवात्ता जो भविष्यविशिष्ट जीवचेतन है
 सो त्वपदका वाच्य अर्थ है सो दो मोरुक असिक्रमिये है यह असिपदका
 अर्थ है इसरीतिसे जीवजगत्की एकताकृशक्तिसृत्तिसिद्धकरी है सो
 नैनहींकाहेतै सर्वशक्ति औ अल्पशक्तिका विसेध है सर्वसता औ अल्प
 ताका विरोध है व्यापकत्व औ परिधिबवाका विरोध है सकताबनेनही
 याते महावाक्यनमैरुक्षराअगिकारकरिचाहिचे सो आदिकीवोप
 तो महावाक्यनमैवनेनहीं है भ० आविकीवोयलक्षरामहावाक्य
 नमैकपूनहीवनतीया उतरजहाजइतीरुक्षराहोवे है तहावाच्य अ
 र्थसारेकात्यागकरुके वाच्यका सबधीरुक्षर्य है औ तत्वमसी महा
 वाक्यनमै तत्पदका वाच्य ईश्वरचेतन है औ त्वपदका वाच्य जीवकेतन है
 ताकृत्यागके औ को ईचेतन है नही जाकुरुक्षर्यियाते महावाक्यनमै
 चरुतीरुक्षरा असभव है औ अजयति जीवनेनहींकाहेतै जहाअ
 अहतीरुक्षराहोवे है तहावाच्य अर्थसहितही अथककुरुषिवे है औ
 महावाक्यनमै वाच्य अर्थविरोधसहित है विरोधरुकरेके रुक्षरा-

अंगिकार करी है अजहती अंगिकार करने से विरोध हर होवै नहीं याते
 महावाक्य नमें अजहती लक्षण असंभव है परिसे शतें भाग त्याग लक्ष
 ण महावाक्य नमें अंगिकार करनी तत्त्वपदके अर्थमें विरोधी भाग
 जो है सर्वज्ञता अल्पज्ञता आदिक धर्म औ अभास सहित माया औ अ
 भास सहित अविद्या इतने वाच्य भाग कूं त्याग करके तत्त्वपदकी
 चैतन्य मात्र मै लक्षण है अभिप्राय यह है सर्वज्ञता अल्पज्ञता आदिक
 धर्मों सहित एकताके विरोधी जो समष्टी व्यष्टी तिनो शरीर तिनस
 भकूं मिथ्या निश्चै करना और तिनका आधार औ प्रकासक औ तिनके सं
 बंध से रहित जो सुध्द निर्विकार अही तीय सच्चदानंद ब्रह्म है तिस कूं
 अपना स्वरूप निश्चै करना इसी कानाम भाग त्याग लक्षण है पूर्वक
 थनमें पहवार्ता सिध्द अर्द्ध अखंडरूपता करके जब आत्मानिश्चै इ
 यात ब आवर्ण दोषकी निवृत्ति होवै है इसी कानाम अपरोक्ष ज्ञान
 है तब मसि महावाक्य नमें भाग त्याग लक्षण करके जीव ब्रह्मकी एक
 ता कूं कथन करे है इस अर्थ कूं हृदक राद रो वासैं और हृष्टांतक है
 है जैसे कि सीनेक त्या समुद्र बूंद है इहां समुद्र पदका वाच्य अर्थ महत
 धर्म सहित जरु है औ बूंद पदका वाच्य अर्थ अल्प धर्म सहित जरु है
 तिन दोनोकी एकता कूं सक्ति वृत्ति सिध्द करे है सो बने नहीं काहे तें म
 हत औ अल्प धर्मका आपसमें विरोध है एकता बने नहीं याते समुद्र प
 द औ बूंद पदकी जरु मात्रमें भाग त्याग लक्षण है अभिप्राय यह है मह
 त औ अल्प धर्म कूं त्यागके समुद्र औ बूंद पदमें जरु मात्रकी एकता कूं
 लक्षावै है तेंसे एकताके विरोधी जो समष्टी व्यष्टी तिन शरीर है इत

इतनेवाच्यभाष्यकृत्याग्नकरके तत्त्वपदचेतनमात्रकी एकताको लक्ष्य
 है वैश्वानरत्वमसिम्भानाक्यनमें भागत्यागरक्षणकरके जीव ईश्वरकी
 एकताक प्रतिपादनकरे है तैसे और भी जो तीन महावाक्य है सो भी
 ईश्वरकी एकताक प्रतिपादन करे है हे भगवन् कीन महावा-
 क्य है किसरीतिसे एकताक कहें हैं उत्तर अयमात्मा ब्रह्म इष-
 वाक्यमें आत्मापदका जीववाच्य है औ ब्रह्मपदका ईश्वरवाच्य है-
 पूर्वकीन्याई दोनोपद भागत्यागरक्षणकरके चेतनमात्रको लक्ष्य
 है ब्रह्मरूपआत्माभरोक्ष है यह अपपदका अर्थ है तैसे मह-
 ब्रह्मास्मी इषवाक्यमें अहपदका अर्थ जीव है औ ब्रह्मपद-
 का अर्थ ईश्वर है पूर्वकीन्याई दोनोपद भागत्यागरक्षणकरके चेत-
 नमात्रक लक्ष्य है तैसे ब्रह्म है यह वाक्यका अर्थ है तैसे प्रधानमा-
 न ब्रह्म इषवाक्यमें प्रधानपदका अर्थ जीव औ ब्रह्मपदका
 अर्थ ईश्वर है पूर्वकीन्याई दोनोपद भागत्यागरक्षणकरके चेत-
 नमात्रक लक्ष्य है ब्रह्मरूपआत्मानन्दस्वरूप है इस अर्थके
 ज्ञानानन्द आनन्दपद है इस सीतिसे जगत्सुखसे भवशकी-
 गमहावाक्यतै अषट्कसात्माका बोध है यावदकै बलमुक्ति है
 प्राप्त होवे है हे भ० अषडकिसकू कहते है उत्तर सजातीयविजा-
 तीय स्वगत इन्तीन भेदसे रहित होवे सो कहिये अषडनेसे रू-
 नका आपसमें जो भेद है सो सजातीयसे भेद है औ रूचपसका जो भेद
 है सो विजातीयसे भेद है औ पत्रपुष्पोसाषजावशका भेद है-
 सो स्वगतसे भेद है औ आत्माविषे तीनों ही भेद नहीं काहेते आ

आदोहोवैअथवानानाहोवैतवसजातीयभेदहोवैसोचेतनएक
हैजातेंसजातीयभेदनहींऔर्विजातीयभेदतवहोवैजबअनात्मा
वस्तुसतहोवैसोअनात्मविद्यातत्कार्यमृगतृष्णाकेजरुकीआई-
मिथ्याहैयातेंविजातीयभेदनहींजोआत्माकेअवयवहोवैतव-
स्वगतसैभेदहोवैआत्मानिरवयवहैयातेंस्वगतभेदनहींअथवा
देसकारुवस्तुकेप्रछेदसंरहितजोहोवैसोकहिचेअषंडव्याप
होनेतेंआत्मासैदेसकृतभेदनहींनित्यहोएतेंवस्तुकृत-
दनहींइसरीतिसैंआत्मासैतीजोहीभेदनहींयातेंआत्माअ-
डरूपहैहेभ०केवरुमुक्तिकास्वरूपक्याहैउत्तरसर्ववाद्यन
तदत्वंतदइसरीतिसैंओतप्रोतभावकीरीतिजानीजाओत-
प्रोतभावकीरितेंवाद्यकेअर्थसैंपरोछताओरपरिच्छिन्नताभ्रां-
तिकीहानीहोवैहैतदत्वंयाकहेनेतैतत्पदकेअर्थकात्वंपदकेअ-
र्थसैंअभेदकह्यासोत्वंपदकाअर्थसाक्षीनित्यअपरोछताभ्रांति
कीहानिओत्वंतदयाकहेनेतैत्वंपदकेअर्थकात्वंतत्पदकेअर्थ
सैंअभेदकह्यासोतत्पदकाअर्थव्यापकहैयातैपरिच्छिन्नताभ्रांति
कीहानितैसैंअहंब्रह्मप्रज्ञानब्रह्मआत्माब्रह्मयातैपरिच्छिन्नताहा-
निओब्रह्मअहंब्रह्मप्रज्ञानब्रह्मआत्मायातैपरोछताहानिताब्र-
ह्मरूपआत्मासैंभिन्नजोदीषैहैओसुनीयेहैशास्त्रसैंस्वर्गनर-
कपुण्यपापसोसंपूर्णमिथ्याभ्रमहैसोमिथ्यावस्तुअधिष्ठानकूं
विगारेनहींजैसैस्वप्नकीमिथ्याभिक्षामांगनैतैंभ्रपदरिद्वीनहीहो-
वैहैओरमरुथरुकेमिथ्यानरुतैंभ्रमीगिरीहोवैनहींमिथ्यासपतैं

रज्जुविषसहितहोवै नहीं याते संपूर्ण मिथ्यासुभ्रमसुभक्तिपाका
 कर्ता है तो बीभक्तता है परमार्थसैं कर्ता नहीं एसातेरा आश्चर्यरूप
 अत्रुपकक्षिये उपयारहित है याका भाव यह है ब्रह्मसै अभिन्नतेरे-
 स्वरूपविषै शूठसूक्ष्मशरीरश्रीतिनकी धर्मश्रु भक्तिन्याश्रीता-
 का फलमन्यमर्नस्वर्गनरकसुषुषसंपूर्ण अविद्यासैं कल्पित है
 ताकल्पितसामग्रिसै तेरा ब्रह्मभावविगरे नहीं याते ज्ञानतै प्रथम-
 बीभात्माब्रह्मस्वरूपही है ताके विषैतिनका ठमै शरीरभोजके
 र्मनका सबधनही किंतु आत्मासदाही नित्यसुक्त है ताका ब्रह्मसै
 कदेबीभेदनही सका आत्मासदाही नित्यसुक्त ब्रह्मस्वरूपहोवै तो
 बनादिक ज्ञानके साधननिष्फल होवैगे ठमै वस्तु कविद्यानकी
 धिमें अज्ञानताका कर्षणतु छ है सो जीवसुक्तका निश्चयतावै है हे
 यपदप्रपचमका सके प्रथकी न्याई है नहीं याते ताका कर्ता ईश्वरबी-
 नही है साक्षीकविषयभसानादिक साक्षि सो साक्षनही याते सा-
 क्षीबीनही तैसे दृश्यप्रकाशकद्रष्टा है प्रकासनें योयदेहादिकद-
 र्पहै सो देहादिकदृश्यहै नहीं याते दृष्टाबीनही यद्यपीके करुं कूट-
 स्थचेतनकू साक्षीभी द्रष्टाकहे है ताकानिपेधवैनेनही तथापिसा-
 क्षकी अपेक्षातै साक्षीनाम औ दृश्यकी अपेक्षातै द्रष्टेनाम है दृश्य
 औ दृश्यका अभावहै याते साक्षीभी द्रष्टेनामकानिषेधकरे है स्वरूप
 अनही औ नबहोवै तो बंधकी निवृत्तिरूपमोक्षहोवै बंधनही याते
 मोक्षबीनही अल्पनहोवै ती ताका ज्ञानसे नासहोवै अज्ञानहै नहीं
 याते ताका नासक ज्ञानबीनही संहजानके कर्तव्यतने मेरे कू-

यह करने योग्य है या बुद्धिकृत्यार्थे का है तै यह लोक तथा प्रलोकते
 तुल्य है तिनके निमित्त कर्तव्य नहीं आत्मा में बंधन ही या तै मोक्ष
 के निमित्त बीकर्तव्य नहीं मारी तिसै आत्मा कू नित्य मुक्त ब्रह्म रूप-
 जानिके सर्व कर्तव्यत्पार्थे अक्रिय स्वरूप विदेह मोक्ष कू प्राप्त होवै-
 याका अभिप्राय यह है यद्यपि आत्मज्ञान सै प्रथम विनित्य मुक्त ब्रह्म
 स्वरूप ही है परतु ज्ञान सै पूर्व आत्मा कू कर्ता भोक्ता मिथ्या मानिके सु-
 ष प्राप्तिसौ दुष की निवृत्ति वास्तै अनेक साधन करै हैं तातै कू सकू-
 ही प्राप्त होवै है ॥ जब उक्त मशुरु मिलै तौ वेदांत वाक्यन का उपदेस करै
 हैं तिन वेदांत वाक्यन के श्रवण तै भै सा ज्ञान होवै है भै कर्ता भोक्तान ही
 किंतु भै ब्रह्म स्वरूप हं याते मेरे कू किंचित् बीकर्तव्य नहीं ऐ सा जानना
 ही श्रवण दिकन का फल है औ ब्रह्म की प्राप्ति वेदांत श्रवण का फल न
 हीं का है तै ब्रह्म आपना स्वरूप है या तै नित्य प्राप्त है तातत्व ज्ञान सै म
 नो नाश वासना क्षय याती नो का एक काल विषे अभ्यास कीये तै जीव
 मुक्तिकी प्राप्ति होवै है इसी जीव मुक्तिकी प्राप्ति वास्तै धृति विषे विह
 त सन्यास का कथन करै है और सविकल्प समाधिका साधन यह है-
 यम नियम त्रासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पूर्व
 सविकल्प समाधिक रि कै निरोध कू प्राप्त भया जोचित है तानिरुद्धचित्त
 विषे तीन भूमीका वास्ती निर्विकल्प समाधि उत्पन्न होवै है तहां प्रथम भू-
 मिका विषे तो यह विद्वान् पुरुष आपणी इच्छति उक्षान कू प्राप्त होवै है
 और द्वितीय भूमीका विषे सो विद्वान् पुरुष दूसरे किसी करिकै भोजन कू स-
 हुया उक्षान कू प्राप्त होवै है और तृतीय भूमीका विषे सो विद्वान् पुरुष आ

रज्जुविषसहितहोवै नहीं पाते संपूर्ण मिथ्या सुभ्रम सुभ्रम क्रिया का
 कर्ता है तौ बीभक्तार्ता है परमार्थ सैं कर्ता नहीं परसाते राभाभ्यर्प रूप
 अत्रपकहिये उपमारहित है याकर भाव यह है बस सैं अभिन्तेरे
 स्वरूपविषे स्पृहसंशरीर श्रौतिन कषिध भंभ्र सुभ्रम क्रिया श्रौता
 का फल गन्यमर्न स्वर्ग नरक सुष दुष संपूर्ण भविद्या सैं कल्पित है
 ता कल्पित सामपिसे तेरा प्रकाश भाव विद्येरे नहीं याते ज्ञानतै प्रथम
 बीभात्मा ब्रह्म स्वरूप हीं छै ताके विधैतिन कठमैं सरीर भोगके ध
 र्मनका सब धन ही किंतु आत्मा सदा ही नित्य सुक्त है ताका प्रथम
 कदे बीभेदन ही सका आत्मा सदा ही नित्य सुक्त प्रह्ला स्वरूप होवै
 वनादिक ज्ञानके साधन निष्फल होवैगे ठप्रजीव सुक्त विद्वानकी
 छिमे अज्ञानता कषिध र्पठ छ है सोमी वन्मुक्त कानि भपबतावै है
 न्यपद प्रपच मक्षसके पृथक् क्रिया ई है नहीं पाते ताका कर्ता ईश्वर बी
 नहीं छै साक्षी कविषय भक्षानादिक साध है सो साक्षन ही याते सा
 क्षी बीन ही तैसे हृष्य प्रकाश कद्रष्टा है प्रकासनैं योगवेदादिक
 रूप है सो वेदादिक दृश्य है नहीं याते दृष्टा बीन ही कथपीके कठ रूप
 दृश्य वेतन कू साक्षी भी द्रष्टा कहै है ताकानिषेध नैं नहीं तथापि सा
 क्षकी अपेक्षा तै साक्षी नाम भी दृश्यकी अपेक्षा तै द्रष्टा नाम है साक्ष्य
 भी दृश्यका अभावे है पाते साक्षी भी द्रष्टा नाम कानिषेध करे है स्वरूप
 जान हीं औ बंध होवै तौ बंधकी मिच्छा तिरूप मोक्ष होवै बंधन ही याते
 मोक्ष बीन ही अज्ञान होवै तौ ताका ज्ञान सैं नास होवै अज्ञान ही नहीं
 याते ताका नासक ज्ञान बीन ही प्रह्ला ज्ञानके कर्तव्य तै मेरे कू

इकरने योग्य है पावु धिक्कृत्यारै काहेतै यह लोक तथा प्रलोकतौ
 इहैतेनेकेनिमित्तकलुकर्तव्यनहीं आत्माभिंबंधनहीं यातै मोक्ष
 केनिमित्तकीकर्तव्यनहीं मारीतिसै आत्माकूँ नित्यमुक्तब्रह्मरूप-
 जानिके सर्वकर्तव्यत्यारै अक्रियस्वरूपविदेहमोक्षकूँ प्राप्तहोवै-
 याकाअभिप्राययहहै यद्यपि आत्मज्ञानसै प्रथमविनित्यसुक्तब्रह्म
 रूपहीहै परतु ज्ञानसै पूर्वआत्माकूँ कर्ता भोक्ता मिथ्यामानिके सु-
 प्राप्तिऔदुषकीनिवृत्तिवास्तै अनेकसाधनकरेहैं तातै कूसकूँ-
 प्राप्तहोवैहै ॥ जबउत्तमगुरुमिहैतौ वेदांतवाक्यनकाउपदेसकरै
 इतिनवेदांतवाक्यनकेश्रवणतै भैसाज्ञानहोवैहै भैकर्ता भोक्तानहीं
 किंतुभैब्रह्मस्वरूपहं यातेमेरेकूँ किंचित्कीकर्तव्यनहीं ऐसाज्ञानना
 हीश्रवणादिकनकाफलहै औब्रह्मकीप्राप्तिवेदांतश्रवणकाफलन
 हीकाहेतै ब्रह्मप्रापनास्वरूपहै यातै नित्यप्राप्तहै तातत्वज्ञानसैम
 नोनाशवासनाक्षययातीनोकाएककालविषे अभ्यासकीयेतै जीव
 मुक्तिकीप्राप्तिहोवैहै इसीजीवमुक्तिकीप्राप्तिवास्तै श्रुतिविषे विह
 तसन्ध्यासकाकथनकरहै औरसविकल्पसमाधिकासाधनयहहै
 यमनियमत्रासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिप्र
 सविकल्पसमाधिकारिकै निरोधकूँ प्राप्तभयाजोचितहै तानिरुद्धचित्त
 विषेतीनभूमिकावासीनिर्विकल्पसमाधिउत्पन्नहोवैहै तहांप्रथमभू
 मिकाविषेतोयहविद्वानपुरुषआपणी इच्छातिउत्थानकूँ प्राप्तहोवैहै
 औरद्वितीयभूमिकाविषेसोविद्वानपुरुषदूसरेकिसीकारिकै भोजनक्र
 हुयाउत्थानकूँ प्राप्तहोवैहै औरतृतीयभूमिकाविषेसोविद्वानपुरुषआ

